



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2 — अप्रैल 8, 2011 (चैत्र 12, 1933)
 No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2011 (CHAITRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	135	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	289	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	5	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	623	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	947
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	843
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	393
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	135	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	289	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	623	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	947
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	843
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	393
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2010

सं. 14-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. आईसी-23375 लेफ्टि जनरल कपिलेश्वर प्रसाद ढल सामन्ता, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
2. आईसी-24652 लेफ्टि जनरल राज कुमार करवल, अविसेमे, सेमे-बार, विसेमे, इन्फैंट्री/महानिदेशक राष्ट्रीय कौडेट कोर
3. आईसी-24656 लेफ्टि जनरल प्रदिप खन्ना, अविसेमे, विसेमे, एडीसी, कवचित कोर/मुख्यालय दक्षिणी कमान
4. आईसी-24718 लेफ्टि जनरल प्रेम कृष्ण गोयल, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
5. आईसी-25066 लेफ्टि जनरल अरविन्द्र सिंह लाम्बा, अविसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
6. आईसी-25135 लेफ्टि जनरल विष्णु काँत चतुर्वेदी, अविसेमे, सेमे, तोपखाना रेजिमेंट
7. आईसी-25156 लेफ्टि जनरल जसविन्द्र पाल सिंह, अविसेमे, कवचित कोर
8. आईसी-25189 लेफ्टि जनरल गौतम बनर्जी, अविसेमे, युसेमे, इंजीनियर्स कोर/अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई
9. आईसी-25408 लेफ्टि जनरल महेश चन्द्र बधानी, विसेमे, इंजीनियर्स कोर
10. आईसी-25442 लेफ्टि जनरल स्वतन्त्रा नन्द हाण्डा, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
11. आईसी-25562 लेफ्टि जनरल पार्थ महापात्र, अविसेमे, एडीसी, सिग्नल कोर
12. आईसी-25646 लेफ्टि जनरल विरेन्द्र सिंह टेंक, अविसेमे, इन्फैंट्री
13. आईसी-27026 लेफ्टि जनरल प्रकाश मेनन, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
14. आईसी-27034 लेफ्टि जनरल जसबीर सिंह, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय उत्तरी कमान
15. आईसी-32782 लेफ्टि जनरल बालाचन्द्रा कुट्टप्पा चेन्पाप्पा, अविसेमे, इन्फैंट्री (सेवानिवृत्त)
16. आईसी-32844 लेफ्टि जनरल राम प्रताप, अविसेमे, विसेमे, सेना वायु रक्षा कोर

17. एमआर-03434 लेफ्टि जनरल हीरा लाल ककरिया, अविसेमे, विसेमे-बार, सेना चिकित्सा कोर
18. एमआर-03831 लेफ्टि जनरल देवेन्द्र पौल वत्स, सेमे, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा, कॉलेज, पुणे
19. डीआर-10270 लेफ्टि जनरल सुरेन्द्र भूषण सहजपाल, अविसेमे, विसेमे, सेना दंत चिकित्सा कोर
20. वाइस एडमिरल अनूप सिंह, अविसेमे, नौमे (01424-के)
21. वाइस एडमिरल डी के दीवान, अविसेमे, (01396-वाई)
22. वाइस एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी, अविसेमे, युसेमे, नौमे, विसेमे (01507-जेड)
23. एयर मार्शल निर्दोष वात्स्यायन त्यागी, अविसेमे, वामे, विसेमे (12765) उड़ान (पायलट)
24. एयर मार्शल सुमित मुकर्जी, शौर्य चक्र, विसेमे (12925) उड़ान (पायलट)
25. एयर मार्शल परमजीत सिंह भंगु, अविसेमे, वामे (12932) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)
26. एयर मार्शल किशन कुमार नौहवार, वामे (13132) उड़ान (पायलट)
27. एयर मार्शल गुरदीप सिंह कोचर, एवीएसएम, वामे (13149) उड़ान (पायलट)
28. एयर मार्शल पुत्थियाविट्टिल मधुसूदन, अविसेमे, विसेमे (29428) चिकित्सा (सेवानिवृत्त)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 15-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. आईसी-27203 लेफ्टि जनरल श्री कृष्ण सिंह, अविसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 14 कोर
2. आईसी-27215 लेफ्टि जनरल नंद किशोर सिंह, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 3 कोर
3. आईसी-27645 लेफ्टि जनरल रामेश्वर राय, अविसेमे, युसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 16 कोर
4. आईसी-27972 लेफ्टि जनरल ज्ञान भूषण, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 4 कोर

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 16-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-25833 लेफ्टि.जनरल गोविन्द मोहन नायर, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
2. आईसी-25836 लेफ्टि.जनरल हरिन्द्र पाल सिंह कलैर, सेमे, इन्फैंट्री/रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज
3. आईसी-25909 लेफ्टि.जनरल विनोद कुमार शर्मा, सिगनल कोर/टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सैन्य कॉलेज
4. आईसी-27616 लेफ्टि.जनरल कोनारा सुरेन्द्र नाथ, विसेमे, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय 10 कोर
5. आईसी-27667 लेफ्टि.जनरल कमल मोहे, सेना सेवा कोर/सेना सेवा कोर केंद्र एवं कॉलेज
6. आईसी-27701 लेफ्टि.जनरल दलबीर सिंह सिदु, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 33 कोर
7. आईसी-27967 लेफ्टि.जनरल सुरेन्द्र पाल सिंह, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
8. आईसी-30010 लेफ्टि.जनरल दिग्विजय सिंह ठाकुर, इन्फैंट्री/मुख्यालय 15 कोर
9. आईसी-30068 लेफ्टि.जनरल सुरेन्द्र प्रताप तंवर, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय उत्तर भारत एरिया
10. आईसी-30516 लेफ्टि.जनरल कुलदीप सिंह, सेना वायु रक्षा/सेना वायु रक्षा कॉलेज
11. एमआर-03435 लेफ्टि.जनरल भागीरथ सिंह राठौर, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर (सेवानिवृत्त)
12. आईसी-25511 मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, विसेमे, इंजीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)
13. आईसी-27978 मेजर जनरल अरूण सिंह चन्द, इंजीनियर्स कोर
14. आईसी-30710 मेजर जनरल अनिल कुमार मिश्रा, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय पूर्वी कमान
15. आईसी-30723 मेजर जनरल अशोक सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 12 इन्फैंट्री डिवीजन
16. आईसी-30892 मेजर जनरल यशपाल सिंह रावत, सेमे, इन्फैंट्री
17. आईसी-31011 मेजर जनरल विनोद कुमार नायक, कीर्ति चक्र, इन्फैंट्री/मुख्यालय 6 पर्वतीय डिवीजन
18. आईसी-31052 मेजर जनरल शक्ति गुरूंग, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 57 पर्वतीय डिवीजन

19. आईसी-31324 मेजर जनरल कोतेनत सुरेन्द्रनाथ, सेमे, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 26 इन्फैंट्री डिवीजन
20. आईसी-31351 मेजर जनरल राज नंदन सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 56 इन्फैंट्री डिवीजन
21. आईसी-31705 मेजर जनरल संदीप सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/आईजीएआर (उत्तर)
22. आईसी-31739 मेजर जनरल च्णगाली अनंताकृष्णन, इन्फैंट्री/आईजीएआर (दक्षिण)
23. आईसी-31962 मेजर जनरल विजय प्रकाश श्रीवास्तव, सिगनल कोर
24. आईसी-33235 मेजर जनरल दीपिन्द्र सिंह, सेमे, विसेमे, कवचित कोर (सेवानिवृत्त)
25. आईसी-34003 मेजर जनरल मनमोहन सिंह राय, विसेमे, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय सीआईएफ (यू)
26. आईसी-34019 मेजर जनरल दिपेन्द्रा सिंह हूडा, विसेमे-बार, इन्फैंट्री/मुख्यालय 57 पर्वतीय डिवीजन
27. आईसी-36119 मेजर जनरल सुरेश कुमार खजूरिया, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 8 पर्वतीय डिवीजन
28. आईसी-36269 मेजर जनरल अनिल सिंह नान्दल, सेमे, इन्फैंट्री, मुख्यालय सीआईएफ (वी)
29. आईसी-36294 मेजर जनरल नवतेज सिंह बावा, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय सीआईएफ (डी)
30. एमआर-04133 मेजर जनरल भूषण कुमार चोपड़ा, सेना चिकित्सा कोर/बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
31. डीआर-10309 मेजर जनरल सुशांत कारकून, सेना दंत चिकित्सा कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
32. एमआर-03856 ब्रिगेडियर वेलू नायर, विसेमे-बार, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
33. रियर एडमिरल रविन्द्र खन्ना, विसेमे (50514-बी) (सेवानिवृत्त)
34. रियर एडमिरल सुनील लांबा, (01823-टी)
35. रियर एडमिरल राहुल कुमार श्रावत, (50570-एफ)
36. रियर एडमिरल रमाकांत पटनायक, युसेमे (01860-ए)
37. रियर एडमिरल माइकल टैटस मोरायस (01888-आर)
38. रियर एडमिरल परसुराम नायडू मुरुगोसन, विसेमे (01958-जेड)
39. रियर एडमिरल विजय कुमार नम्बाल्ला, नौमे, (40689-जेड)
40. एयर मार्शल दलजीत सिंह, वामे (14553) उड़ान (पायलट)
41. एयर मार्शल जगदीश चन्द्रा, विसेमे (14613) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)

42. एयर वाइस मार्शल रवी कान्त शर्मा, वामे (14088) उड़ान (पायलट)
43. एयर वाइस मार्शल नवीन रतन, विसेमे (14242) चिकित्सा
44. एयर वाइस मार्शल अजीज जावेद, विसेमे (14386) प्रशासन
45. एयर वाइस मार्शल अमित अनेजा, वामे, विसेमे (14668) उड़ान (पायलट)
46. एयर वाइस मार्शल नगेन्द्र मोहन वैष्णवी, विसेमे (14822) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
47. एयर वाइस मार्शल सुभाष चन्द्र लुथरा, विसेमे (15105) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
48. एयर वाइस मार्शल शिरीष बबन देव, वामे, विसेमे (15681) उड़ान (पायलट)
49. एयर कमोडोर श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा, वामे (16053) उड़ान (पायलट)
50. एयर कमोडोर हरजीत सिंह अरोरा (16557) उड़ान (पायलट)
51. एयर कमोडोर अर्जुन सुब्रमण्यम (16592) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 17-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थिति के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-40364 ब्रिगेडियर गजेन्द्र प्रसाद, विसेमे, डोगरा रेजिमेंट/ मुख्यालय 9 सेक्टर असम राइफल
2. आईसी-40421 ब्रिगेडियर संजय कुमार भनोट, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 26 सेक्टर असम राइफल
3. आईसी-46832 कर्नल अमर रामदसानी, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-50275 कर्नल विक्रम सिंह चौहान, पैराच्यूट रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 18-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-31118 मेजर जनरल बलविंदर सिंह सचर,सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 2 पर्वतीय डिवीजन
2. आईसी-34385 मेजर जनरल अनिल कुमार आहूजा, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय उत्तरी कमान

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 19-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-25839 लेफ्टि. जनरल बलजीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट
2. आईसी-30702 लेफ्टि. जनरल फिलिप कैम्पोस, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय एसएफसी
3. आईसी-27945 मेजर जनरल तजुदीन मौलाली मैसाले, ईएमई/मुख्यालय तकनीकी ग्रुप इलै. एंड मैके. इंजीनियरिंग
4. आईसी-30143 मेजर जनरल अरुण कुमार चढ्ढा, सेमे, सिगनल कोर/मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
5. आईसी 30327 मेजर जनरल इन्दर पाल सिंह, कवचित कोर/मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान
6. आईसी-31012 मेजर जनरल योहन्नान चाको तरकन, सिगनल कोर/मुख्यालय दक्षिणी कमान
7. आईसी-31087 मेजर जनरल रसक्यून्हा नेविले मार्क, इन्फैंट्री
8. आईसी-31131 मेजर जनरल पोल्लत वाकयिल कृष्णा कुमार मेनोन, सेना आयुध कोर
9. आईसी-31134 मेजर जनरल गौतम मूर्थी, सेना आयुध कोर
10. आईसी-31323 मेजर जनरल संजीव मढोक, इन्फैंट्री/मुख्यालय 18 इन्फैंट्री डिवीजन
11. आईसी-31341 मेजर जनरल संजीव आनन्द, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय 5 पर्वतीय डिवीजन
12. आईसी-31505 मेजर जनरल सुब्रतो मित्रा, सेमे, इन्फैंट्री/चयन केंद्र दक्षिण
13. आईसी-31653 मेजर जनरल अनिल कुमार भल्ला, कवचित कोर/मुख्यालय 31 कवचित डिवीजन
14. आईसी-35036 मेजर जनरल नितिन कुमार कोहली, सिगनल कोर/मुख्यालय आंध्र, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक एरिया
15. आईसी-35874 मेजर जनरल चित्रन श्रीकुमार नायर, जज एडवोकेट जनरल विभाग
16. एमआर-03954 मेजर जनरल मोहन प्रहलादराव मुत्तगीकर, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
17. डीआर-10288 मेजर जनरल महेश चन्द्र, सेना दंत चिकित्सा कोर

18. आईसी-34605 मेजर जनरल राकेश शर्मा, 11 गोरखा राइफल/मुख्यालय 10 कोर
19. आईसी-34971 ब्रिगेडियर आर सुब्रमन्यम, सिगनल कोर/एमसीटीई
20. आईसी-35171 ब्रिगेडियर राजबीर सिंह, 3 गोरखा राइफल/मुख्यालय पुणे सब एरिया
21. आईसी-35210 ब्रिगेडियर बसंत कुमार धिंगड़ा, सेमे, सेना वायु रक्षा रेजिमेंट/सेना वायु रक्षा केंद्र
22. आईसी-35789 ब्रिगेडियर रणजीत सिंह, सेना शिक्षा कोर/सैनिक स्कूल सोसायटी
23. आईसी-37793 ब्रिगेडियर नवनीत खन्ना, जज एडवाकेट जनरल डिपार्टमेंट/मुख्यालय पूर्वी कमान
24. आईसी-38673 ब्रिगेडियर मनजीत मेहता, सेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल/मुख्यालय 82 पर्वतीय ब्रिगेड
25. आईसी-39437 ब्रिगेडियर शशांक ताराकांत उपासनी, सेमे, जाट रेजिमेंट/मुख्यालय 21 सेक्टर असम राइफल
26. आईसी-39441 ब्रिगेडियर राजबीर सिंह, पैराच्यूट रेजिमेंट/मुख्यालय 15 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
27. आईसी-39465 ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह बेदी, गढ़वाल राइफल/मुख्यालय 5 पर्वतीय ब्रिगेड
28. आईसी-39492 ब्रिगेडियर अनिल चौहान, 11 गोरखा राइफल/मुख्यालय 59 पर्वतीय ब्रिगेड
29. आईसी-39930 ब्रिगेडियर विनोद प्रकाश सिंह भकुनी, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-40948 ब्रिगेडियर कलिसिपुडी रवि प्रसाद, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 21 पर्वतीय तोपखाना ब्रिगेड
31. आईसी-41753 ब्रिगेडियर मंगल मूर्ती मसूर, तोपखाना रेजिमेंट/नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी
32. एमआर-03915 ब्रिगेडियर वेंकटरमन रविशंकर, सेना चिकित्सा कोर, सेना अस्पताल (सीटीसी) पुणे
33. एमआर-03994 ब्रिगेडियर अनुपम साहा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
34. एमआर-03998 ब्रिगेडियर गौरी शंकर रमेश, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
35. एमआर-04767 ब्रिगेडियर कृष्णा वेंकटेश बालिगा, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, दक्षिणी कमान
36. एमआर-05230 ब्रिगेडियर योगेन्द्र कुमार अरोड़ा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)

37. एनआर-15556 ब्रिगेडियर हरजिंदर भुल्लर, सेना नर्सिंग सेवा/मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
38. आईसी-41224 ब्रिगेडियर गुरिन्द्र पाल सिंह सन्धु, महार रेजिमेंट/मुख्यालय घनड एरिया
39. आईसी-37648 कर्नल सुधीर कुमार तिवारी, 162 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
40. आईसी-37865 कर्नल सनाल सुरेश कुमार, मद्रास रेजिमेंट/15 कोर बैटल स्कूल
41. आईसी-42771 कर्नल संजय सिंह, सेमे, पैराच्यूट रेजिमेंट
42. आईसी-43266 कर्नल रोमेश चन्द्र खजुरिया, असम रेजिमेंट/असम रेजिमेंटल केंद्र
43. आईसी-43285 कर्नल देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय, सिख लाइट इन्फैंट्री
44. आईसी-45556 कर्नल राजीव पंवार, 1 गोरखा राइफल/12 असम राइफल
45. आईसी-45963 कर्नल विनीत सेठ, पैराच्यूट रेजिमेंट/पैराच्यूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र
46. आईसी-46761 कर्नल दीपक शर्मा, ब्रिगेड ऑफ द गाइड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
47. आईसी-46798 कर्नल राजेन्द्र कुमार, सेमे, 5वीं बटालियन द राजपूताना राइफल
48. आईसी-46889 कर्नल सुखमीत सिंह, शौर्य चक्र-बार, तोपखाना रेजिमेंट/3 असम राइफल
49. आईसी-49082 कर्नल अमीर सिंह, 12वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट
50. आईसी-49117 कर्नल एस एस भोगल, कुमाऊं रेजिमेंट/23 असम राइफल
51. आईसी-50009 कर्नल सरताज ढिल्लों, 15 डोगरा रेजिमेंट
52. आईसी-50099 कर्नल इंदरदीप सिंह भल्ला, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
53. आईसी-50104 कर्नल दिनेश सिंह बिष्ट, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय दक्षिणी कमान
54. आईसी-50556 कर्नल अजित कुमार बोराह, तोपखाना रेजिमेंट, 65 फील्ड रेजिमेंट
55. आईसी-50864 कर्नल सर्वेश शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट/46 असम राइफल
56. आईसी-50880 कर्नल अजोय मुखर्जी, सेमे-बार, पैराच्यूट रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल
57. आईसी-51395 कर्नल आर शान्मुगा सुन्दरम, सेमे, 601 ईएमई बटालियन
58. आईसी-51706 कर्नल विनोद एस, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
59. आईसी-51948 कर्नल प्रणवीर सिंह पुनिया, सेमे, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
60. आईसी-51949 कर्नल मनीश सिन्हा, सिख लाइट इन्फैंट्री/21 असम राइफल

61. आईसी-52349 कर्नल सी कार्तिक सेशाद्री, 4/8 गोरखा राइफल
62. एमआर-04427 कर्नल राकेश कुमार, सेना चिकित्सा कोर/92 बेस अस्पताल
63. एमआर-05143 कर्नल अनुराग खन्ना, सेना चिकित्सा कोर/153 जनरल अस्पताल
64. एमआर-05515 कर्नल भूपेश कुमार गोयल, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
65. एमआर-05531 कर्नल संदीप थरेजा, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, पश्चिमी कमान
66. एसएल-02742 कर्नल पुथिया कोविलाकठ मुरलीधरन राजा, सेमे, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर
67. आईसी-48812 लेफ्टिनेंट कर्नल भावीक कौल, 202 सेना विमानन स्क्वाड्रन (यूएच)
68. आईसी-55450 लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार, 9वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट
69. एमआर-06262 लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज तलवार, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
70. एमआर-06517 लेफ्टिनेंट कर्नल रविन्द्र कुमार अणदुरे, सेना चिकित्सा कोर/ बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
71. एमआर-06551 लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज कुमार शर्मा, सेना चिकित्सा कोर/ बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
72. एमआर-08541 कैप्टन अमित पाण्डेय, सेना चिकित्सा कोर/कुमाऊं स्काउट
73. जेसी-588171 सूबेदार छेवांग मूटुप, 3 लद्दाख स्काउट्स
74. 9923885 हवलदार सोनम पल्जोर, 3 लद्दाख स्काउट्स
75. सर्जन रियर एडमिरल मनीषा जयप्रकाश, (75986-डब्ल्यू)
76. कमोडोर विपन कुमार वाधवा, (40739-एन)
77. कमोडोर जसविन्द्र सिंह मान, नौमे (50701-बी)
78. कमोडोर हरफूल सिंह, (50743-जेड)
79. कमोडोर महीतोष मिश्रा, (70201-वाई) (सेवानिवृत्त)
80. कमोडोर जी अशोक कुमार, (02470-एन)
81. कमोडोर अजेन्द्र बहादुर सिंह, (02619-ए)

82. कमोडोर एम एस चन्द्र शेखर, (02625-आर)
83. कमोडोर सत्यानारायणा अलमण्डा, (41192-टी)
84. कैप्टन अजय विनय भावे, (03030-के)
85. सर्जन कैप्टन खलील ऐसॅक मथाई, (75298-एफ)
86. सर्जन कैप्टन चन्दु सुदीप नाइडू, (75343-एच)
87. कैप्टन एन्टोनी जार्ज, नौमे, (03182-एफ)
88. कैप्टन पवन चौहान, (03378-ए)
89. कमांडर ए एन सतीश, (03955-एन)
90. यशवंत राय, एमसीएमई II, (163455-आर)
91. एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार गगनेजा (14544) लेखा
92. एयर कमोडोर हेरीकुद्रु बाबू राजाराम (14939) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
93. एयर कमोडोर प्रदीप मल्लप्पा कट्टी (15005) उड़ान (पायलट)
94. एयर कमोडोर मिलन रामलालजी अहिर (15267) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
95. एयर कमोडोर रोहित भल्ला (15591) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
96. एयर कमोडोर जाईल्स गोमेज़ (16527) चिकित्सा
97. एयर कमोडोर माईकल फर्नांडिज़, वामे (16967) उड़ान (पायलट)
98. एयर कमोडोर संजय निमेष (17862) उड़ान (पायलट)
99. ग्रुप कैप्टन इडवन पुलियाच्चरत पदमाराज नम्बियार (16886) लेखा
100. ग्रुप कैप्टन लवमीत सिंह बच्छेर (16995) उड़ान (पायलट)
101. ग्रुप कैप्टन नितिन शंकर वैद्या (17208) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
102. ग्रुप कैप्टन विनोद कुमार (17430) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
103. ग्रुप कैप्टन मुसुनुरी दुर्गा नागेश्वरा प्रसाद (17741) प्रशासन
104. ग्रुप कैप्टन पुष्पेन्द्र कुमार (18002) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

105. ग्रुप कैप्टन शिव रतन सिंह, वामे (18083) उड़ान (पायलट)
106. ग्रुप कैप्टन विवेक पिल्लई (18217) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
107. ग्रुप कैप्टन संजय कुमार पाण्डेय (18477) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
108. ग्रुप कैप्टन आशुतोष दीक्षित, वामे (18558) उड़ान (पायलट)
109. ग्रुप कैप्टन सूरत सिंह, वामे (18563) उड़ान (पायलट)
110. ग्रुप कैप्टन लाली जोसफ (18643) परिभारिकी
111. ग्रुप कैप्टन गेब्रियल रेमंड रूबेन (18814) उड़ान (पायलट)
112. ग्रुप कैप्टन आशीष दुरेहा (19074) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
113. ग्रुप कैप्टन सुशान्त दत्ता (19243) परिभारिकी
114. विंग कमांडर दीपक बाना (18742) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
115. विंग कमांडर चेल्लप्पन पिल्लई रत्नम्मा श्रीजी (20286) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
116. विंग कमांडर प्रकाश आंगाडी (24126) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
117. 659970 मास्टर वारंट अफसर दलजीत खोखर, वेपन फिटर
118. 695575 जूनियर वारंट अफसर राजेन्द्र कुमार यादव, एयर फ्रेम फिटर

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 20-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-55907 मेजर के यू करूमबिया, सेमे, 4 गोरखा राइफल/29 असम राइफल
2. आईसी-56123 मेजर सौरभ शाह, सेना मेडल, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
3. आईसी-59171 मेजर राजीव शंकर, सेमे, सेना सेवा कोर/55 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-67187 कैप्टन संदीप श्रीधरन, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री/39 असम राइफल
5. आईसी-69120 कैप्टन ईश्वर सिंह रावत, सेना मेडल, 16वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 21-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए " सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-52415 कर्नल गुरपाल सिंह, 1 लद्दाख स्काउट्स
2. आईसी-51499 लेफ्टि.कर्नल अमित शर्मा, सेना विमानन कोर/23 (स्वतंत्र) आर एंड ओ फ्लाइट
3. आईसी-52922 लेफ्टि.कर्नल सिद्धार्थ खन्ना, सेना विमानन कोर/22 (स्वतंत्र) आर एंड ओ फ्लाइट
4. आईसी-54001 लेफ्टि.कर्नल सुमित मोहन गर्ग, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-56084 मेजर आर एस राजीव, 8वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
6. आईसी-56156 मेजर कुलदीप सिरोही, गढ़वाल राइफल/15 असम राइफल
7. आईसी-59056 मेजर क्षितिज बलहारा, ब्रिगेड ऑफ द गाइड्स/42 असम राइफल
8. आईसी-59145 मेजर पंकज रावत, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
9. आईसी-59385 मेजर गौरव भाटिया, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
10. आईसी-59510 मेजर जयवीर सिंह, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
11. आईसी-59516 मेजर संजय नायर, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल
12. आईसी-60538 मेजर मृदुल कमल गैद, 9 सिख लाइट इन्फैंट्री बटालियन
13. आईसी-60543 मेजर रंजीत सिंह, इलैक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स/53 राष्ट्रीय राइफल
14. आईसी-60968 मेजर प्रशांत मिश्रा, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/31 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-61137 मेजर अजय सिंह, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/34 असम राइफल
16. आईसी-61720 मेजर अनिल कुमार शर्मा, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
17. आईसी-61825 मेजर सौरभ तिवारी, तोपखाना रेजिमेंट/34 असम राइफल

18. आईसी-62973 मेजर करण भाटिया, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
19. आईसी-63398 मेजर राज अभिनव, राजपूताना राइफल/21 असम राइफल
20. आईसी-63527 मेजर अनिल सिंह चौहान, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
21. आईसी-63997 मेजर कौशलेन्द्र सिंह, राजपूताना राइफल/23 असम राइफल
22. आईसी-64102 मेजर मृणाल कुमार शेखर, मराठा लाइट इन्फैंट्री/28 असम राइफल
23. आईसी-64460 मेजर आशीष स्वरूप, कवचित कोर/8 असम राइफल
24. आईसी-64573 मेजर सुनील कुमार नौटियाल, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
25. आईसी-64691 मेजर शिव कुमार शर्मा, इंजीनियर्स कोर/44 राष्ट्रीय राइफल
26. आईसी-65745 मेजर हमीर सिंह, ब्रिगेड ऑफ द गाड्स/24 असम राइफल
27. आईसी-66234 मेजर निखील वाघ, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
28. आईसी-66241 मेजर जयवर्धन सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
29. आईसी-66862 मेजर मुनीष शर्मा, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-67290 मेजर त्रिवेदी जिगर भरतकुमार, इंजीनियर्स कोर/31 असम राइफल
31. आईसी-67360 मेजर विनीत डी कालोखे, इंजीनियर्स कोर/10 राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-69559 मेजर अमित कुमार थेंगे, सिगनल्स कोर/37 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
33. एसएस-40279 मेजर अमित कंवर, पंजाब रेजिमेंट/26 असम राइफल
34. एसएस-41028 मेजर आदित्य पाटिल, कवचित कोर/12 असम राइफल
35. एसएस-41156 मेजर मुनीश ठाकूर, प्रथम बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
36. एसएस-41798 मेजर नवरतना जयमन, सिगनल्स/16 राष्ट्रीय राइफल
37. एससी-00356 मेजर गुलाम मुहम्मद खान, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
38. आईसी-64583 कैप्टन सि नरेन बाबु, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
39. आईसी-64638 कैप्टन अभय चन्दन चौधरी, तोपखाना रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल
40. आईसी-67813 कैप्टन सचिन सिन्हा, इंजीनियर्स कोर/44 राष्ट्रीय राइफल

41. आईसी-67943 कैप्टन संदीप सिंह, राजपूत रेजिमेंट/34 असम राइफल
42. आईसी-68103 कैप्टन प्रशांत ठाकुर, सेना वायु रक्षा/63 राष्ट्रीय राइफल
43. आईसी-68313 कैप्टन मरिनाल शर्मा, सिगनल्स/22 राष्ट्रीय राइफल
44. आईसी-68881 कैप्टन पवन कुमार सचान, सिगनल्स/8 असम राइफल
45. आईसी-69166 कैप्टन केलशीकर शमशेर किरण, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
46. आईसी-69967 कैप्टन मनोज कुमार पाण्डे, तृतीय बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
47. एसएस-41529 कैप्टन मधुसूदन बी एस, तोपखाना रेजिमेंट/28 असम राइफल
48. एसएस-41563 कैप्टन तरनदीप सिंह गिल, सिख रेजिमेंट/45 असम राइफल
49. एसएस-42798 कैप्टन अभिषेक भारद्वाज, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
50. एआर-182 सेकेंड-इन-कमांड भाग सिंह डोगरा, 12 असम राइफल
51. आईसी-70184 लेफ्टिनेंट अजीव राजीव, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
52. आईसी-70428 लेफ्टिनेंट वरूण खजुरिया, 16वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स
53. आईसी-70787 लेफ्टिनेंट ललित मोहन पलारिया, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
54. आईसी-70802 लेफ्टिनेंट लक्ष्य, प्रथम बटालियन द नागा रेजिमेंट
55. आईसी-71477 लेफ्टिनेंट दीपक कुमार प्राधर, 9वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
56. आईसी-71977 लेफ्टिनेंट सागर देशपाण्डे, 5/1 गोरखा राइफल
57. एसएस-43380 लेफ्टिनेंट दीपक चंदर गनोला, 8वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
58. एसएस-43646 लेफ्टिनेंट भगवती सिंह राठौर, सेना आयुध कोर/15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
59. जेसी-412905 सूबेदार रघबीर सिंह, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
60. जेसी-499219 सूबेदार लखविन्दर सिंह, तृतीय बटालियन द सिख रेजिमेंट
61. जेसी-590197 सूबेदार श्री प्रसाद थापा, प्रथम बटालियन द नागा रेजिमेंट
62. जेसी-634721 सूबेदार तोपगे भुटीया, विसेमे, गोरखा राइफल/11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर
63. जेसी-122982 नायब सूबेदार गंगा सिंह, 12 असम राइफल

64. जेसी-273537 नायब सूबेदार बीरबल राम, तोपखाना रेजिमेंट/315 फील्ड रेजिमेंट
65. जेसी-413273 नायब सूबेदार लालमन पलसरा, 9वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
66. जेसी-जी/2600636 नायब सूबेदार पाऊखोलेन कुकी, 26 असम राइफल
67. 3393099 हवलदार सुरजीत सिंह, 157 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) सिख/54 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
68. 2598370 हवलदार लोगनाथन एस, 19 मद्रास रेजिमेंट
69. 2792851 हवलदार अन्वरसाब अगासिबागिल, 12वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
70. 2888398 हवलदार नरेश पाल, द्वितीय बटालियन द राजपूताना राइफल
71. 3392345 हवलदार जरनैल सिंह, तृतीय बटालियन द सिख रेजिमेंट
72. 3395086 हवलदार करन सिंह, डोगरा रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल
73. 4473390 हवलदार बलजिन्दर सिंह, 9वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
74. 4564889 हवलदार बोदले धर्मशील सूर्यकान्त, 8वीं बटालियन द महार रेजिमेंट
75. 9096612 हवलदार मोहम्मद फारूख, 162 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/47 राष्ट्रीय राइफल
76. 13619305 हवलदार रंजित कुमार, 15वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट (मरणोपरांत)
77. जी/123955 हवलदार अली हुसैन, 12 असम राइफल
78. जी/2900484 हवलदार विजय सिंह कालुरा, 29 असम राइफल
79. जी/2900924 हवलदार के मनी चन्द्रा सिंहा, 29 असम राइफल
80. जी/3400678 हवलदार देव राम, 34 असम राइफल
81. 13756706 लांस हवलदार रविंद्र सिंह, 12वीं बटालियन द जम्मू-कश्मीर राइफल
82. 2601288 नायक आर नंदा कुमार, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
83. 2602081 नायक यशवंत खन्नुकर, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
84. 2996580 नायक राजेन्द्र सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
85. 3996163 नायक राकेश कुमार, डोगरा रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल

86. 4571151 नायक हुसन लाल, पैराच्यूट रेजिमेंट/19 कुमाऊं रेजिमेंट (मरणोपरांत)
87. 5045349 नायक भक्ता बहादुर गुरूंग, 5/1 गोरखा राइफल
88. 5045437 नायक रन बहादुर काउचा, 5/1 गोरखा राइफल
89. 13623869 नायक हरेन्द्र कुमार पांडे, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (मरणोपरांत)
90. 13696417 नायक अनिरूद्धा कुन्डू, ब्रिगेड ऑफ द गाड्स/59 राष्ट्रीय राइफल
91. 13759846 नायक सुरिन्दर सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/3 राष्ट्रीय राइफल
92. 14703305 नायक चन्द्र शेखर उप्रेती, प्रथम बटालियन द नागा रेजिमेंट
93. 14703419 नायक साहेनी लोहरी, नागा रेजिमेंट/60 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
94. 2798833 लांस नायक सुरेन्द्र सिंह, 8वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
95. 2893475 लांस नायक पवन, 5वीं बटालियन द राजपूताना राइफल
96. 3997868 लांस नायक प्रीतम सिंह, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
97. 3998854 लांस नायक जैमोन पी के, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
98. 4365794 लांस नायक सुरेश कुमार, जम्मू-कश्मीर राइफल/31 राष्ट्रीय राइफल
99. 12984108 लांस नायक तनवीर अहमद, 163 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) सिख लाइट इन्फैंट्री/58 राष्ट्रीय राइफल
100. 13622152 लांस नायक विजय सिंह, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बंल)
101. 15143917 लांस नायक राजेन्द्र कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
102. 2611892 सिपाही पनीर सेल्वम राजेन्द्रन, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरांत)
103. 2613731 सिपाही नागालिंगम पचवर्णम, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरांत)
104. 2613951 सिपाही सरवनन उदय कुमार, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरांत)
105. 2804168 सिपाही भोसले विक्रान्त हिंदूराव, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राइफल
106. 3001635 सिपाही जय कुमार, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
107. 3999904 सिपाही जसबीर सिंह, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल

108. 4003665 सिपाही सुनील कुमार, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
109. 4197636 सिपाही राजेन्द्र सिंह बिष्ट, कुमाऊं रेजिमेंट/26 राष्ट्रीय राइफल
110. 4573544 सिपाही चन्द्र शेखर नट, 8वीं बटालियन द महार रेजिमेंट
111. 4577408 सिपाही वीरेंदर, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
112. 12944488 सिपाही अजाज अहमद, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
113. 14830124 सिपाही राकेश कुमार गुप्ता, 5031 सेना सेवा कोर बटालियन (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट) (मरणोपरांत)
114. 14934162 सिपाही दलजित सिंह, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/42 राष्ट्रीय राइफल
115. 57582 राइफलमैन शीजूमौन अब्राहम, 5 असम राइफल
116. 57760 राइफलमैन सी एच लोविंगसन, 5 असम राइफल
117. 4087013 राइफलमैन राम प्रसाद, गढ़वाल राइफल/48 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
118. 4089094 राइफलमैन सूरज कुमार, गढ़वाल राइफल/48 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
119. 9103770 राइफलमैन कुलदीप सिंह, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
120. जी/193586 राइफलमैन नर बहादुर थापा, 45 असम राइफल
121. जी/2851169 राइफलमैन बिरेन्द्र सिंह, 28 राष्ट्रीय राइफल
122. जी/2851534 राइफलमैन एस यॉरिशांग, 28 असम राइफल
123. जी/2851603 राइफलमैन रण बहादुर भण्डारी, 28 असम राइफल
124. जी/2901665 राइफलमैन सुखन ओरन, 29 असम राइफल
125. जी/2901698 राइफलमैन लाभ सिंह, 29 असम राइफल
126. जी/2901883 राइफलमैन प्रदीप मेधी, 29 असम राइफल
127. जी/5004716 राइफलमैन योगेश कुमार, 28 असम राइफल
128. जी/5009236 राइफलमैन बेन्जामिन, 28 असम राइफल
129. जी/5009920 राइफलमैन कुलजीत सिंह, 8 असम राइफल

130. 15576686 सैपर हरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स कोर/48 राष्ट्रीय राइफल
131. 13627026 पैराट्रूपर जुगराज सिंह, 9वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
132. 15173085 गनर सत्यवीर, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
133. 15618801 गार्ड्समैन प्रिन्स आर, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
134. 15485730 सवार मस्तान खान, कवचित कोर/60 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
135. 15489651 सवार देबा यादव, कवचित कोर/22 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 22-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. कमांडर नवीन थापा, (03644-एफ)
2. बिजेन्द्र, पी ओ ए (एएच), (174619-एन)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 23-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. विंग कमांडर सुशील चतुर्वेदी (21720) उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर मनजीत सिंह सिद्धू (22334) उड़ान (पायलट)
3. स्क्वाड्रन लीडर विकास भूषण (27450) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 24-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-34086 मेजर जनरल बाल क्रिशन शर्मा, सेमे, इन्फैंट्री/ मुख्यालय 27 पर्वतीय डिवीजन
2. आईसी-54627 कर्नल निरंजन राजकुमार जाखड़, सेमे, ग्रेनेडियर्स/55 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 25-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-31062 मेजर जनरल शिशिर हरी महाजन, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय उत्तरी कमान
2. आईसी-31336 मेजर जनरल सुनील सदानन्द जोग, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 21 पर्वतीय डिवीजन
3. आईसी-31729 ब्रिगेडियर कल्याण कुमार रॉय चौधरी, विसेमे, महार रेजिमेंट, मुख्यालय 21 सब एरिया
4. आईसी-34066 ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन, विसेमे, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 111 सब एरिया
5. आईसी-35204 ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा, वीर चक्र, जाट रेजिमेंट/मुख्यालय एसएफसी
6. आईसी-35376 ब्रिगेडियर गौतम देब, विसेमे, इंटेलिजेंस कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
7. आईसी-35480 ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह, विसेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल/भारतीय दूतावास, काबुल
8. आईसी-35486 ब्रिगेडियर सुभाष चन्द्र रांगी, विसेमे, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
9. आईसी-38028 ब्रिगेडियर सुनील भण्डारी, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय सामरिक बल कमान
10. आईसी-38886 ब्रिगेडियर राजीव पन्त, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 27 सेक्टर असम राइफल
11. आईसी-39676 ब्रिगेडियर धर्मवीर सिंह राणा, विसेमे, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 11 पर्वतीय ब्रिगेड
12. एमआर-04155 ब्रिगेडियर अमितावा दत्ता, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय 14 कोर
13. एमआर-04556 ब्रिगेडियर सुभाष चन्द्र गोदारा, सेना चिकित्सा कोर/सेना बल चिकित्सा स्टोर डिपो, दिल्ली छावनी
14. एमआर-05294 ब्रिगेडियर अरूण त्यागी, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, उत्तरी कमान
15. आईसी-43307 कर्नल एन राजकुमार, 154 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) बिहार
16. आईसी-48516 कर्नल विनोद नाम्बियार, 670 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)

17. आईसी-49086 कर्नल शान्तनु कश्यप, 663 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
18. आईसी-49115 कर्नल भास्कर सिंह बिष्ट, राजपूताना राइफल/9 राष्ट्रीय राइफल
19. आईसी-49469 कर्नल प्रशांत श्रीवास्तवा, द्वितीय बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
20. आईसी-49680 कर्नल विकास लखेड़ा, चौथी बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
21. आईसी-49926 कर्नल विजय कुमार पुरोहित, पंजाब रेजिमेंट/53 राष्ट्रीय राइफल
22. आईसी-49992 कर्नल जोहैर इब्न सलमा यज़दानी, तोपखाना रेजिमेंट, 44 फील्ड रेजिमेंट
23. आईसी-50189 कर्नल राजेश्वर सिंह, शौर्य चक्र, मद्रास रेजिमेंट/29 असम राइफल
24. आईसी-50369 कर्नल साईश सुधाकर शेते, तृतीय बटालियन द सिख रेजिमेंट
25. आईसी-50772 कर्नल राजेश कुमार शिवरैन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)/39 असम राइफल
26. आईसी-50895 कर्नल पीयूष खुराना, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
27. आईसी-50996 कर्नल बबरू भान यादव, शौर्य चक्र, सिख लाइट इन्फैंट्री/45 असम राइफल
28. आईसी-51135 कर्नल अनिल कुमार पुंडिर, जम्मू-कश्मीर राइफल, 52 विशेष कार्रवाई दल
29. आईसी-51261 कर्नल समीर शरण कार्तिकेय, जम्मू-कश्मीर राइफल/34 असम राइफल
30. आईसी-51568 कर्नल रवरूप सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/31 असम राइफल
31. आईसी-51709 कर्नल मनजीत सिंह कालरा, द्वितीय बटालियन द बिहार रेजिमेंट
32. आईसी-51964 कर्नल अमरदीप सिंह, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
33. एमआर-04868 कर्नल कनकपुरा सूर्यनारायण कुमार, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, पश्चिमी कमान
34. एमआर-05050 कर्नल काडलूर सत्यानन्द, सेना चिकित्सा कोर, सेना अस्पताल, जयपुर
35. आईसी-50222 लेफ्टिनेंट कर्नल के सी अयप्पा, कवचित कोर, सी वी आर डी ई
36. आईसी-52391 लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह सेखों, इन्टेलिजेंस कोर/21 सीआईआईयू
37. आईसी-55258 लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश कुमार शर्मा, 8 गोरखा राइफल/51 विशेष कार्रवाई दल
38. आईसी-55484 लेफ्टिनेंट कर्नल एन श्री रमेश, ई एम ई/सी वी आर डी ई

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 26-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. कमोडोर सुनील जेटली (02054-टी)
2. कमोडोर अनील कुमार सक्सेना (40974-वाई)
3. कमोडोर उदय चन्द्रकान्त तलवेलकर (41023-एच)
4. कमोडोर विजय कुमार पिशारोड़ी (02604-टी)
5. कैप्टन हम्पीहोली मकरन्द अरविन्द (02859-वाई)
6. कैप्टन फिलिपोस जार्ज पायनुमुट्टिल (02973-एफ)
7. कमांडर सुदीप सेन (51046-एन)
8. कमालुद्दीन फिरोज, मैक (एआर) 3, (121855-डब्ल्यू)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 27-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. एयर वाइस मार्शल चन्द्रशेखरन हरी कुमार, विसेमे (15881) उड़ान (पायलट)
2. एयर कमोडोर दीपतेन्दु चौधरी, विसेमे (17335) उड़ान (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन महिताब सिंह देसवाल (20131) उड़ान (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन सिरूवूरि श्रीधर (20138) उड़ान (पायलट)
5. विंग कमांडर रावूरी शीतल (20490) उड़ान (पायलट)
6. विंग कमांडर तेजपाल सिंह (20724) उड़ान (पायलट)
7. विंग कमांडर अनन्त माथुर (20727) उड़ान (पायलट)
8. विंग कमांडर फिलिप थॉमस (20743) उड़ान (पायलट)
9. विंग कमांडर राहुल भसीन (20745) उड़ान (पायलट)
10. विंग कमांडर विकास शर्मा (20757) उड़ान (पायलट)
11. विंग कमांडर जॉय थोमस कुरियन (20782) उड़ान (पायलट)
12. विंग कमांडर गणपतिराजु श्रीनिवास (21505) उड़ान (पायलट)
13. विंग कमांडर आशीष सिंह (21517) उड़ान (पायलट)
14. विंग कमांडर नोंगथोमबम लोकेन्द्रो (22714) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 28- प्रेज़/2011 - राष्ट्रपति रक्षा मंत्री द्वारा "सेनाध्यक्ष" की ओर से प्राप्त "मेशन-इन-डिस्पेचिज" हेतु निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए सहर्ष आदेश देती है :-

ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-59752 मेजर अतुल चव्हाण, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
2. आईसी-62535 मेजर राहुल शंकर भारद्वाज, महार, 30 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-68949 मेजर अभिषेक जगन्नाथ भापकर, सिगनल्स, 30 राष्ट्रीय राइफल
4. जेसी-593547 सूबेदार शेर सिंह, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, 26 राष्ट्रीय राइफल
5. 9925507 नायक टुंडुप पल्जोर, 5 लद्दाख स्काउट्स

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 29-प्रेज़/2011- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती है :-

1. आईसी-67257 मेजर राहुल गुरुंग, इंजीनियर्स कोर/12 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 17 फरवरी, 2010)

मणिपुर के उखरूल जिला में आतंकवादियों की हरकत के बारे में स्पष्ट सूचना के आधार पर मेजर राहुल गुरुंग ने बड़ी सतर्कता से घाटी के दक्षिणी सामान्य क्षेत्र में अनेक घात टुकड़ियां लगाने की योजना बनाई। 11 फरवरी, 2010 को 0330 बजे मेजर राहुल गुरुंग ने गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध हरकत देखी। उन्होंने अपनी घात टुकड़ी को सावधान किया तथा संदिग्धों को पहचान बताने के लिए ललकारा। संदिग्धों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर राहुल गुरुंग निडर बने रहे तथा ऊबड़-खाबड़ रास्ते से रेंगते हुए एक चट्टान की तरफ आगे बढ़े और अचूक गोलीबारी करके दो आतंकवादियों को मार गिराया।

17 फरवरी, 2010 को मणिपुर के अखरूल जिला में कोरिडोर के जरिए भूमिगत आतंकवादियों के आवाजाही के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। मेजर राहुल गुरुंग ने नदी और घाटी के क्षेत्रों में अनेक घात टुकड़ियां लगाने की योजना बनाई। 2250 बजे आतंकवादियों की घुसपैठ पार्टी को मेजर गुरुंग की घात टुकड़ी द्वारा रोका गया तथा गोलीबारी की लड़ाई में मेजर गुरुंग ने एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने वृक्ष के पीछे आड़ ले ली और वह घात टुकड़ी पर गोलीबारी करने लगा। मेजर गुरुंग ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बहादुरी का प्रदर्शन किया और प्रेरणादायक साहस के साथ रेंग कर छिपे हुए आतंकवादी के पास गए तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना नजदीक से आतंकवादी पर गोली चलाई। आतंकवादी आगे निकल गया परंतु मेजर राहुल गुरुंग ने अपने दल-बल के साथ आतंकवादी दल का पीछा किया और बाद में तीन और आतंकवादियों को मार गिराया गया।

मेजर राहुल गुरुंग ने शत्रु की भयानक गोलीबारी के बीच व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उत्कृष्ट नेतृत्व और अचूक योजना प्रबंधन का प्रदर्शन किया।

2. एसएस-42132 कैप्टन दीपक शर्मा, सिगनल कोर/42 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 04 मार्च, 2010)

04 मार्च, 2010 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी एक कमरे में छुपे हुए थे जिसे एक बड़ी जामा मस्जिद के निकटस्थ होने की वजह से खाली करने के लिए इसमें दखल देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 0815 बजे कैप्टन दीपक शर्मा अपने साथियों के साथ आगे बढ़े और हथगोला फेंकते हुए खिड़की के रास्ते से घर में प्रवेश किया। बिल्कुल नजदीक से उन्होंने एक आतंकवादी को पहले कमरे में मार गिराया। फिर वह गोलियों की भारी बौछार में रेंगकर अगले कमरे तक पहुंचे और एक और हथगोला फेंका। सीढ़ियों के नीचे दो आतंकवादियों को देखकर वह उन पर टूट पड़े तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उन दोनों आतंकवादियों को मौके पर ही मार गिराया। गोलीबारी के दौरान उनकी गर्दन में गोली का गहरा घाव लगा और वह घावों की वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए।

कैप्टन दीपक शर्मा ने शत्रु के समक्ष अडिगता से कर्तव्य का निर्वहन किया और अदम्य साहस के साथ राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

3. आईसी-70971 लेफ्टिनेंट विक्रान्त अजीत देशमुख, 8वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 27 जून, 2010)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के समूह के उपस्थित होने की सूचना पाकर एक तलाशी दल को तलाशी के लिए भेजा गया। तलाशी के दौरान, 27 जून, 2010 को पार्टी पर 1840 बजे आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी कर दी गई। गोलीबारी के दौरान तलाशी दल के सदस्य लेफ्टिनेंट विक्रान्त अजीत देशमुख के पेट में गोली लगने की वजह से घाव हो गया जिसके बावजूद उन्होंने गोलीबारी करके दो आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों ने उन पर हथगोले भी फेंके और वह अपने अन्य चार रैंकों के सैनिकों के साथ बिना हथियार के चट्टान की खड़ी चढ़ाई से फिसल गए और इस दौरान बाकियों से अलग हो गए। वह चुपचाप तीन घण्टे तीस मिनट तक अपने स्थिति संभाले रहे इसके बाद उनकी पार्टी उनके पास पहुंची।

लेफ्टिनेंट विक्रान्त अजीत देशमुख ने विकट परिस्थितियों में रणनीतिक कुशाग्रता, दृढ़ता, अनुकरणीय साहस और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया।

4. आईसी-70886 लेफ्टिनेंट विकास शर्मा, 6वीं बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 11 अगस्त, 2010)

जम्मू-कश्मीर के बांदीपुर जिले में आतंकवादी गतिविधि की अपनी आसूचना के आधार पर लेफ्टिनेंट विकास शर्मा के अधीन 10 अगस्त, 2010 को एक ऑपरेशन शुरू किया गया था।

अगले दिन 1630 बजे अफसर ने पर्वत श्रृंखला पर एक हरकत देखी। उन्होंने अपने दल को दो भागों में बांटा और दो भिन्न दिशाओं से शिखर पर तरफ चढ़ने लगे। तीन सौ मीटर की ऊंचाई पर आतंकवादियों के होने की पुष्टि हो गई। उन्होंने आतंकवादियों को तुरंत उलझाया और स्नाइपर गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया। दो आतंकवादियों ने आड़ लेकर जवाबी गोलीबारी की। लेफ्टिनेंट विकास ने अपने स्नाइपर को दूसरे आतंकवादी को उलझाने के लिए निर्देश दिया और स्वयं एक साथी के साथ दूसरी तरफ से आतंकवादी को घेरने लगे। वह 20 मीटर आगे बढ़े और अचूक गोलीबारी से आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकी दो चट्टानों के बीच में छुप गया और गोलीबारी की जद में नहीं आ रहा था। उसकी हरकत को कवर करने के लिए लेफ्टिनेंट विकास शर्मा ने अपनी एलएमजी को पुनः तैनात किया तथा जमीन का उत्कृष्ट इस्तेमाल करके उसके और निकट आया। उनकी गतिविधि का आतंकवादी को पता लग गया और उसने गोलीबारी कर दी। लेफ्टिनेंट विकास शर्मा अडिग रहे और निर्भीकता से आगे बढ़ कर 15 मीटर की दूरी से उसको गोली मार दी।

लेफ्टिनेंट विकास शर्मा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय अदम्य साहस और अचूक कार्य निष्पादन का प्रदर्शन किया।

5. 2894796 नायक राजेन्द्र सिंह, दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 29 अगस्त, 2010)

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के एक गांव में तलाशी के दौरान 29 अगस्त, 2010 को 1430 बजे स्काउटों पर गोलीबारी हो गई। अन्य स्काउटों के साथ नायक राजेन्द्र सिंह ने कारगर जवाबी गोलीबारी की जिससे आतंकवादी घिर गए और उनके बच निकलने का रास्ता काट दिया गया। गोलीबारी के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी का सफाया कर दिया।

रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही और सैन्य टुकड़ियों को निकट आने से रोकने के लिए आतंकवादी गुफा के अंदर से हथगोला फेंक रहे थे। नायक राजेन्द्र सिंह रेंगकर गुफा की तरफ आगे बढ़े और अपने हथियार से पूरी मैग्जीन की गोलियां चला दी। आतंकवादियों ने अंदर से उन पर हथगोले फेंके। विदग्ध बौद्धिक कुशाग्रता का परिचय देते हुए उन्होंने हथगोलों के छरों से बचाव हेतु चट्टान का प्रयोग किया।

चूंकि 30 अगस्त, 2010 की सुबह फिर से रुक-रुक कर गोलीबारी शुरू हो गई थी इसलिए वह फिर से स्वेच्छा से आतंकवादियों को उलझाने के लिए रेंगकर गुफा की तरफ आगे बढ़े। वह रेंगकर गुफा के मुहाने पर पहुंचे और कारगर गोलीबारी करके आतंकवादियों का सफाया कर दिया जिसके बाद गुफा के अंदर से गोलीबारी थम गई।

नायक राजेन्द्र सिंह ने कर्तव्यपरायणता से भी बढ़कर अदम्य साहस, अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन किया।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 30 -प्रेज़/2011-राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. 12914550 लांस नायक मूहम्मद शफी, 156 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) पंजाब/58 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 21 अक्टूबर, 2009)

20 अक्टूबर 2009 को 2200 बजे एक विशिष्ट सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सैनिकों ने लक्ष्यगत ढोकों को घेर लिया तथा समर्पण हेतु ललकारे जाने पर आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी कर दी गई।

अपनी तरफ से पहल करते हुए लांस नायक मूहम्मद शफी ने 21 अक्टूबर, 2009 को 0230 बजे ढोक के प्रवेश द्वार की ओर अपने साथी के साथ बढ़ना शुरू किया जब साथी सैनिक ने एक आतंकवादी को मार गिराया तो अन्य दो आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने लगे और समीपवर्ती नाले में आड़ ले ली। शत्रु की गोलीबारी के बावजूद व्यक्तिगत सुरक्षा से बेपरवाह लांस नायक शफी बगल से नाले में रेंग कर गए और हथगोला फेंककर दोनों आतंकवादियों को मार गिराया।

लांस नायक मूहम्मद शफी ने दो आतंकवादियों का सफाया करने में साहस, निस्वार्थ समर्पण और बौद्धिक सजगता का प्रदर्शन किया।

2. जी/3101841 राइफलमैन मिलाप सिंह, 31 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 नवंबर, 2009)

मणिपुर के टिगनोपॉल जिला के सामान्य क्षेत्र में एक ऑपरेशन विशिष्ट सूचना के आधार पर शुरू किया गया था। 14 नवंबर, 2009 को 0430 बजे आतंकवादियों से सम्पर्क साधा गया था। अपने साथ सैनिक की गोलीबारी की आड़ लेकर राइफलमैन मिलाप सिंह ने भयंकर गोलीबारी के बीच अत्यधिक पहलशक्ति और अडिग साहस का प्रदर्शन करते हुए युक्तिचालन से बगल से आतंकवादी को घेरने का प्रयास किया। राइफलमैन मिलाप सिंह आतंकवादियों के निकट आया और निजी सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया। राइफलमैन मिलाप सिंह आतंकवादियों से बराबर लड़ते रहे तथा रेंगते हुए आगे बढ़कर निकट से दूसरे आतंकवादी को मार गिराया। मृतक आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए।

राइफलमैन मिलाप सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अत्यधिक साहस और वीरता पहलशक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया।

3. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष अरोड़ा (28462) उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 04 फरवरी, 2010)

04 फरवरी, 2010 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष अरोड़ा को मिग-27 एमएल विमान में एयर टेस्ट प्रोफाइल उड़ान के लिए तैनात किया गया था। 10.5 कि.मी. की ऊंचाई पर तथा 0.9 मैक से अधिक की गति से उड़ रहे विमान की कनोपी के टुकड़े-टुकड़े हो गए जिससे केबिन का विस्फोटक विसंपीड़न हो गया तथा कनोपी के टुकड़े पायलट के चेहरे पर लगे। अग्र उपस्कर पेनल तथा वातरोध खून से लथपथ हो गए। कॉकपिट के अत्यधिक प्रतिकूल परिवेश, हवाई चिकित्सा विकटताओं तथा शारीरिक घावों के बावजूद पायलट ने शीघ्रता से वापसी करने हेतु अचूक तथा समयबद्ध कार्य निपुणता से शुरू किए। वायु विस्फोट की वजह से गत्यात्मकता बुरी तरह से प्रभावित हुई और पायलट के दाएं कान में बहुत पीड़ा होने लगी तथा उसका मुखौटा खून से लथपथ हो गया। सामने की महत्वपूर्ण दृश्यता खून के धब्बों से बाधित हो गई। बेहोशी और कमजोरी के बावजूद पायलट ने साहस, धैर्य और व्यवसायिकता का प्रदर्शन किया और अत्यधिक चुनौतीभरी दशाओं में विमान को बिना गलती के उतार दिया। वापसी में किसी विलंब अथवा पायलट की तरफ से किसी इच्छाशक्ति की कमी होने की वजह से भयानक परिणाम हो सकते थे।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष अरोड़ा ने विक्षत विमान को बेस पर उतारने के लिए हवाई चिकित्सा विकटता तथा घाव की वजह से और अधिक खराब हुई दबावयुक्त स्थिति के चलते भी अत्यधिक साहस और पेशेवर गुण का प्रदर्शन किया।

4. 4076512 हवलदार दयाल सिंह, 8वीं बटालियन गढ़वाल राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 जनवरी, 2010)

13 जनवरी, 2010 की रात को बटालियन आसूचना टीम के सदस्य हवलदार दयाल सिंह को असम के तिनसुकिया जिले के एक गांव में आतंकवादियों के होने की सूचना के बारे में उसके सूत्रों द्वारा सावधान किया गया था। एनसीओ ने संदिग्ध घर तक दल का नेतृत्व करके मार्गदर्शन किया।

उस क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी पार्टी को घर का घेरा डालने का कार्य सौंप दिया गया था। 2330 बजे जब पार्टियां अभी स्थिति संभाल रही थी कि पिछले दरवाजे से तीन आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागे। हवलदार दयाल सिंह तुरंत उनसे भिड़ गया तथा बच निकलने के रास्ते को रोक दिया जिससे मजबूर होकर उन्हें अड़ोस-पड़ोस में आड़ लेनी पड़ी। भारी स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की लड़ाई शुरू हो गई। भारी जोखिम उठाकर हवलदार दयाल सिंह ने हताहत होने से बचने अथवा सम्पार्श्विक नुकसान से बचने के लिए चयनात्मक जवाबी गोली की। उसकी समझादारीपूर्ण गोलीबारी की वजह से वहां घिरे हुए सिविलियनों का सुरक्षित बच निकलना सुनिश्चित हुआ तथा आतंकवादी दबोचे जा सके। आखिरकार अधिसंख्यक आतंकवादियों को भागते देखकर व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए एनसीओ आतंकवादियों पर टूट पड़ा तथा नजदीक से एक आतंकवादी को मार गिराया। लड़ाई के दौरान उसकी बाईं आंख में गोली लगी। लहलुहान होकर भी बेहोश होने तक वह अन्य दो आतंकवादियों के साथ भिड़े रहे तथा बाद में घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

हवलदार दयाल सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अडिग साहस, अनुकरणीय सूझ-बूझ का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया।

5. 2607215 सिपाही चन्नल्लि बसवराज, 19वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 जनवरी, 2010)

मणिपुर के उखरूल जिला के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में पक्की आसूचना के आधार पर संदिग्ध घर के चारों तरफ घेरा डालने के लिए 13 जनवरी, 2010 को 0200 बजे एक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था।

लगभग 0900 बजे तलाशी टुकड़ी के हिस्से स्काउट सं.1 सिपाही चन्नल्लि बसवराज ने एक घर के सामने दो व्यक्तियों की संदिग्ध हरकत देखी। स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने व्यक्तियों को रुकने के लिए चुनौती दी। दोनों आतंकवादियों ने तुरंत अपनी पार्टी पर गोलीबारी की तथा जंगल में भाग गए। इस शोर को सुनकर उस क्षेत्र के कुछ सिविलियन भी डर कर भागने लगे। सिपाही बसवराज ने अपनी प्रतिभासंपन्न युद्धक कुशाग्रता का इस्तेमाल किया तथा अदम्य वीरता के साथ 100 मीटर की दूरी तक भाग रहे आतंकवादी का पीछा किया तथा उसे मार गिराया। तथापि, दूसरा आतंकवादी बिछुड़ कर भागने में कामयाब हो गया और घने जंगल में छिप गया। तदनुसार, तलाशी दलों को बच निकलने के रास्ते को रोकने के लिए पुनः तैनात किया गया था। टुकड़ी पर गोलियों की अचानक बौछार हो गई। मौके पर खरे उतरते हुए सिपाही चन्नल्लि बसवराज फिर से रेंगकर आगे क्षेत्र की ओर बढ़े तथा अत्यधिक साहसिक कार्रवाई करते हुए आतंकवादी पर टूट पड़े तथा भयंकर लड़ाई में उसे उड़ा दिया। उनसे बड़ी मात्रा में हथियारों, गोलाबारूद तथा अन्य आपराधिक दस्तावेजों की बरामदी की गई थी।

सिपाही चन्नल्लि बसवराज ने अकेले ही दोनों आतंकवादियों का सफाया करने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट प्रवीणता का प्रदर्शन किया।

6. आईसी-64696 मेजर राकेश रावत, जम्मू-कश्मीर राइफल/52 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 फरवरी, 2010)

17 फरवरी 2010 को मेजर राकेश रावत उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसको उस संदिग्ध घर को घेरने का कार्य सौंपा गया था जिसे जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में हथियारों से लैस दो कट्टर आतंकवादियों ने कब्जे में कर रखा था।

ज्योंहि मेजर राकेश रावत और उनका साथी सैनिक घर की तरफ रेंगकर पहुंचे, घिरे हुए आतंकवादियों ने खिड़की से दो हथगोले फेंके तथा उन पर गोलियों की बौछार की। अडिग रहते हुए मेजर राकेश रावत और उसका साथी रेंगकर कमरे की खिड़की के पास पहुंचे तथा अफसर ने दो हथगोले अंदर फेंके। फिर रेंगते हुए आगे बढ़कर अफसर ने दो में से एक आतंकवादी को नजदीक से मार गिराया।

दूसरा आतंकवादी समीपवर्ती स्नानघर में भाग गया जिसमें उस दिशा से साथी सैनिक नहीं पहुंच सकते थे। अत्यधिक खतरे और भारी गोलीबारी के बावजूद अफसर रेंगकर स्नानघर की खिड़की के पास पहुंचा तथा आतंकवादी को ध्वस्त करने के लिए हथगोला फेंका और दूसरे आतंकवादी को गोली मार दी।

मेजर राकेश रावत ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उत्कृष्ट वीरता, अदम्य लड़ाकू भावना तथा प्रेरणादायक युद्धक नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

7. आईसी-56111 मेजर संजीव हरयाल, तोपखाना रेजिमेंट/315 फील्ड रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 मार्च, 2010)

नए कैडरों की भर्ती तथा संगठन को फिर से संगठित करने के लिए असम के उदलगुड़ी के एक गांव में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में आसूचना मिलने के आधार पर मेजर संजीव हरयाल ने अपने दल को एकजुट किया। उन्हें संक्षेप में समझाया, घात लगाने की योजना बनाई तथा 17 मार्च, 2010 को 0230 बजे तक उन्हें तैनात कर दिया।

एक मोटरसाइकिल पर दो सवार मौके पर पहुंचे। ललकारे जाने पर सवार व्यक्तियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों की स्वचालित हथियारों से गोलीबारी के बावजूद, अफसर ने आगे रहकर नेतृत्व प्रदान किया और कार्य की पहल करते हुए अपनी पार्टी पर कमान और नियंत्रण संभाला। उन्होंने तीव्रता के साथ जवाबी कार्रवाई की और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए नजदीक से आतंकवादियों से भिड़ गए। गोलीबारी की लड़ाई में उन्होंने ने उस आतंकवादी को मार गिराया।

दिसंबर, 2009 के एक पूर्व सफल घात-चौकी में भी अफसर ने अग्रणी नेतृत्व प्रदान किया तथा और दो आतंकवादी मार गिराए। उन्होंने आज की तारीख तक 12 कैडरों/सम्पर्क सूत्र व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा छह हथियार बरामद किए। इस प्रकार उन्होंने उदलगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में आतंकवादी संगठन की रीढ़ तोड़ दी।

मेजर संजीव हरियाल ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अदम्य साहस, सम्पूर्ण व्यवसायिकता और निडर नेतृत्व प्रदान किया।

8. 13762552 लांस नायक प्रवीन ठाकुर, 12वीं बटालियन/जम्मू-कश्मीर राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 मार्च, 2010)

23/24 मार्च 2010 की रात को लांस नायक प्रवीन ठाकुर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर अंबुश कमाण्डर थे। 0130 बजे उन्होंने चार आतंकवादियों की आवाजाही को देखा। गजब की लचक और रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादियों के आ जाने की प्रतीक्षा की फिर कारगर गोलीबारी में उलझा लिया। अपने को बुरी तरह फंसा देख कर आतंकवादियों ने घात चौकी पर आत्मघाती हमला बोल दिया तथा भारी गोलीबारी और हथगोलों से आक्रमण कर दिया। गंभीर खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने सैनिक साथी को दूसरी तरफ से लगाया और सारी गोलीबारी को स्वयं की तरफ आकर्षित कर लिया जिसमें उसका जीवन बच गया। एक आतंकवादी मारा गया परंतु दूसरा बगल की तरफ से घात चौकी पर पहुंचा। लांस नायक प्रवीन ठाकुर ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया तथा निजी जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करके खुले में आ गया तथा आमने-सामने की लड़ाई में दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

लांस नायक प्रवीन ठाकुर ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अनुकरणीय बहादुरी, उच्च दर्जे की प्रेरणा शक्ति का प्रदर्शन किया।

9. 3190786 नायक विजय पाल, 16वीं बटालियन जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 मार्च, 2010)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव में 27 मार्च, 2010 को तलाशी कार्य के दौरान नायक विजय पाल ने रिज के पश्चिमी ढाल पर बर्फ में ताजा निशान देखे। उसने अन्य साथियों के साथ रिज के तीव्र ढालों में भारी बर्फबारी में सात घण्टे तक आतंकवादियों के पैरों के निशानों का पीछा किया। चुपके से आगे बढ़कर नायक विजय ने ददुआ झरने के पास सामान्य क्षेत्र में नजदीक की दूरी पर दो आतंकवादियों का पता लगाया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को तैनात किया तथा अन्य दलों को आतंकवादियों के होने का संकेत किया। असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए वह आतंकवादियों के और निकट आए तथा उनको हैरत में डालकर उनसे भिड़ गए। नायक विजय की कार्रवाई से स्तब्ध होकर आतंकवादियों ने छिपने के ठिकाने से भारी स्वचालित हथियारों से अपने सैनिकों पर गोलीबारी कर दी। व्यक्तिगत जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वह आतंकवादियों पर टूट पड़े और बिल्कुल नजदीक से उनमें से दो को मार गिराया। उनकी बहादुरी भरी कार्रवाई और आतंकवादी समूह के साथ लड़ाई के परिणामस्वरूप बिना हताहत हुए पांच आतंकवादियों का सफाया हो गया।

नायक विजय पाल ने आतंकवादियों की कारगर गोलीबारी के बीच अदम्य साहस, धैर्य और वीरता का प्रदर्शन किया।

10. 3194985 सिपाही रविन्दर सिंह, 16वीं बटालियन जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 मार्च, 2010)

सिपाही रविन्दर सिंह जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रिज पर अपनी टीम के साथ तलाशी अभियान में भाग ले रहे थे। वह अपनी टीम के साथ कठिन प्रदेश और भारी बर्फ के बीच आतंकवादियों की निशानदेही कर रहे थे। 27 मार्च को लगभग 1215 बजे उनकी टीम ने जनरल एरिया में दो आतंकवादी देखे। सिपाही रविन्दर ने अपने को रणनीतिक स्थिति में रखा और गोलीबारी के बीच उन्होंने देखा कि एक कवर की गई पोजीशन से दो आतंकवादी भारी गोलीबारी कर रहे हैं। अपनी टीम पर खतरे को भांपते हुए, वे बर्फ और पत्तों के सहारे रेंगते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और एक ग्रेनेड फेंका। एक आतंकवादी ने सम्पर्क को तोड़ना चाहा जिसे सिपाही रविन्दर ने बिल्कुल समीप से तुरंत मार गिराया। अत्यधिक व्यक्तिगत खतरे के बावजूद भी अनुकरणीय साहस दिखाते हुए वे दूसरे आतंकवादी के समीप पहुंचे और उसे भी मार गिराया। उनके साहसिक कार्य और आतंकवादी समूह के साथ उत्तरवर्ती झड़प से अपने सैनिकों को बिना नुकसान पहुंचाए पांच आतंकवादियों का सफाया हो गया।

सिपाही रविन्दर सिंह ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक साहस, धैर्य और बहादुरी का प्रदर्शन किया।

11. 14704137 सिपाही विजय सिंह बोहरा, नागा रेजिमेंट/60 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 मार्च, 2010)

27 मार्च, 2010 को 0707 बजे जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में घने जंगल में सैनिकों ने दो अत्यधिक हथियारों से लैस विदेशी आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी। सिपाही विजय सिंह बोहरा मुठभेड़ स्थल पर गए और आंतरिक घेरे को और सख्त कर दिया। आतंकवादियों ने एक नाले पर पोजीशन ले ली और सुरक्षा बलों की गोलीबारी का कारगर जवाब दे रहे थे। आतंकवादियों पर अपने छोटे हथियारों का प्रभाव न होते हुए देखकर टीम के कमांडर ने सिपाही विजय सिंह बोहरा को रॉकेट लांचर से फायर करने का निदेश दिया। जब सिपाही बाहरा रणनीतिक लाभदायक ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक आतंकवादी ने उन पर राइफल ग्रेनेड छोड़ दिया जो उनसे कुछ फीट की दूरी पर फट गया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना उन्होंने उस ओर बढ़ना जारी रखा और लक्षित रॉकेट लांचर ले आए और उन छिपे हुए दो आतंकवादियों पर रॉकेट लांचर से वार कर दिया और उनको मार गिराया।

सिपाही विजय सिंह बोहरा ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने कर्तव्य से बढ़कर बेजोड़ साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

12. आईसी-70065 कैप्टन मनैन्द्र प्रताप सिंह, सेना सेवा कोर/8वीं बटालियन, महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 01 अप्रैल, 2010)

कैप्टन मनैन्द्र प्रताप सिंह जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी जिले के सामान्य क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन कर रही टीम के अग्रणी सदस्यों में से एक थे। 01 अप्रैल, 2010 को 1400 बजे आतंकवादियों के बारे में खबर मिली और देखते-देखते उनकी टीम पर आतंकवादियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। भारी गोलीबारी के बीच हिम्मत से काम लेते हुए उन्होंने आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगा लिया। कैप्टन सिंह ने तुरंत स्थिति संभाली और आगे बढ़कर अपने साथियों को अपने साथ चलने का आदेश दिया। आतंकवादी आत्मघातियों की तरह फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी के बीच अत्यधिक साहस दिखाते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वह घुटने के बल जाकर आतंकवादी के पास तक पहुंच गए और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया।

भारी गोलीबारी के बीच, नाले से होकर दो आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। खतरनाक भू-क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध कौशल अपनाते हुए वह और उनके साथियों ने तेजी से पीछा करते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया और भागते हुए आतंकवादी पर जबरदस्त निशाना साधा और इस प्रकार दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

कैप्टन मनैन्द्र प्रताप सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्तव्यभाव से ऊपर उठकर बहादुरी और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

13. 4282393 सिपाही शैलेश कुमार सिंह, बिहार रेजिमेंट/63 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02 अप्रैल, 2010)

02 अप्रैल, 2010 को सिपाही शैलेश कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक घने जंगल में *खोजो और मार डालो* ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के ठिकाने से 50 मीटर की दूरी पर निशाना ले रखा था और मल्टी ग्रेनेड लांचर फायर से आतंकवादियों को एक-एक करके धराशायी कर रहे थे। बहुत देर तक चली गोलीबारी में दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए सुरक्षा बल के घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। चूंकि उपयुक्त सुरक्षा नहीं प्रदान की गई थी, अतः अपनी टुकड़ी को खतरे में भांप कर सिपाही शैलेश कुमार सिंह अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए गोलाबारी करने वाले एमजीएल की ओर तेजी से गए और दो आतंकवादियों को सटीक निशाना साधकर मार गिराया। इस प्रकार अपनी टुकड़ी के अनेक जवानों की कीमती जान बचाई। इस गोलाबारी में सिपाही शैलेश कुमार सिंह को नाक के पास गोली लग गई और उन्होंने इस प्रकार अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

सिपाही शैलेश कुमार सिंह ने खतरे को चुनौती देते हुए अपने सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्धता और सखाभाव की महान भावना का प्रदर्शन करते हुए उच्च कोटि का साहस दर्शाया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

14. 14438439 लांस नायक अनूप कुमार शर्मा, तोपखाना रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 मई, 2010)

06/07 मई 2010 की रात को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के उपस्थित होने के बारे में सूचना के आधार पर निगरानी एवं अनेकानेक घात लगाकर हमले किए गए। लांस नायक अनूप कुमार शर्मा इस तरह के खोजी दल का एक सदस्य थे। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। अपने साथियों की जान की सुरक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना लांस नायक शर्मा ने जवाबी गोलाबारी की और बड़ी युक्ति के साथ आतंकवादियों का तेजी से पीछा किया। इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने प्रभावी और सटीक गोलाबारी करके मूर्छित होकर गिरने से पहले दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया। लांस नायक शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया और इस ऑपरेशन को एक जबरदस्त कामयाबी दिलाई जिसमें अंत में छः आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया था।

लांस नायक अनूप कुमार शर्मा ने अदम्य साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

15. आईसी-67498 मेजर मनीष बराल, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 08 मई, 2010)

08 मई 2010 को मेजर मनीष बराल जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव में तलाशी का काम कर रहे थे। गांव में आतंकवादियों के होने के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर आश्चर्यपूर्ण ढंग से उन्होंने निपुणता से कार्रवाई की। अफसर ने तेजी से कार्रवाई करते हुए निशानदेह घर के चारों ओर अपने दल के लोगों को तैनात कर दिया ताकि कोई भाग न सके। घातक प्लाटून कमांडर ने हाजिर जवाबी दिखाई और स्कूल के सभी बच्चों को निकाल कर निशानदेह घर के पास एक सुरक्षित जगह पर कर दिया। 1655 बजे के करीब आतंकवादियों ने घेराबंदी को तोड़ा और बड़े करीब से उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अफसर ने दिन-दहाड़े सभी दलों को रास्ता दिखाया और अकेले ही बहादुरी के साथ दो दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया कर दिया। उन्होंने अपने सभी साथियों की सुरक्षा का ख्याल रखा और संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होने दिया।

मेजर मनीष बराल ने पेशेवर तरीके से उच्च कोटि के साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के गोलाबारी का जवाब देते हुए अपने दल का बिल्कुल सामने से नेतृत्व किया।

16. 4579271 सिपाही संगत सिंह, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 मई, 2010)

11 मई 2010 को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर निशानदेह घर पर एक गहन घेरा डाला गया। लगभग 1355 बजे आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की और बहुत कम दूरी से आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतंकवादियों के भाग निकलने और अपने साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सिपाही संगत सिंह ने सुरक्षा की परवाह किए बिना ही अंधाधुंध गोलियों से होकर घुटने के बल गए और लक्षित घर के पास के नाले के पास उन्हें घेर लिया। यद्यपि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे फिर भी उन्होंने उचित पोजीशन लेकर बिल्कुल करीब से जवाबी गोलीबारी करने लगे और एक हथगोला फेंक दिया। इस प्रकार मूर्छित होकर गिरने से पहले दो दुर्दांत आतंकवादियों को उन्होंने अकेले ही सफाया कर दिया किंतु बाद में वे अपनी चोट से बच नहीं सके।

सिपाही संगत सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस, असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी।

17. 2497584 पैराटूपर कपिल देव, पहली बटालियन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 31 मई, 2010)

पैराटूपर कपिल देव उस आक्रामक दस्ते का सदस्य थे जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले के सामान्य क्षेत्र में खोजो और मार डालो संक्रिया को अंजाम देने के लिए हेलिकॉप्टर से नीचे उतारा गया था।

31 मई, 2010 को 0630 बजे पैराटूपर कपिल देव संपर्क स्थल को खोजने के लिए खुद आगे आए। खोज संक्रिया को भलीभाँति जब वे अंजाम दे रहे थे तभी वे घनी झाड़ियों में छिपे आतंकवादियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलाबारी के चपेट में आ गए। तुरंत कार्रवाई करते हुए और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए पैराटूपर कपिल देव घुटने के बल रेंगकर आगे तक गए और बड़े नजदीक से एक आतंकवादी को मार गिराया। उन पर दूसरे आतंकवादी की ओर से भारी आटोमेटिक गोलाबारी होने लगी और इस प्रकार उनके बाएं जांघ पर बंदूक से गोली लग गई। बिना विचलित हुए तथा अत्यधिक खून बह जाने के बावजूद भी वे आगे बढ़े और हथगोले डाल दिए। इस प्रकार आतंकवादियों को दावपेंच में डालकर गुथमगुथ्या की लड़ाई में उसे मार गिराया।

पैराटूपर कपिल देव ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्तव्य भाव से ऊपर उठ कर बहादुरी से पहल की तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

18. आईसी-51655 कर्नल नीरज सूद, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 जून, 2010)

जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर कर्नल नीरज सूद ने गहन आसूचना नेटवर्क तैयार किया जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में 22 जून, 2010 को 2105 बजे आतंकवादियों से संपर्क साधा जा सका। बड़ी चतुराई से यह भांपते हुए कि आतंकवादी घेरे से भाग निकल जाएगा, कमांडिंग अधिकारी ने बड़ी तेजी से युक्तिपूर्वक अपनी सैन्य टुकड़ी को सही स्थिति में तैनात कर दिया और सामने से मुकाबला करने लगा।

आपसी गोलीबारी के दौरान कर्नल सूद ने एक आतंकवादी को निशाना बनाते हुए घायल कर दिया। कर्नल सूद की इस जबरदस्त कार्रवाई को देखते हुए आतंकवादियों ने चारों ओर से उन पर गोलीबारी कर दी। इस प्रकार हुई बंदूक की भारी गोलीबारी में अफसर को प्राणघातक चोट लग गई।

कर्नल नीरज सूद ने बहादुरी और बहुआयामी नेतृत्व करते हुए अदम्य साहस और गोलीबारी के बीच दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च परम्परा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान किया।

19. 14703933 लांस नायक के एस खारवुंग, पहली बटालियन नागा रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02 जुलाई, 2010)

02 जुलाई, 2010 को घातक प्लाटून ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक गांव में आतंकवादियों से सम्पर्क साधा। सही स्थिति भांपकर आतंकवादियों ने सैन्य टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। लांस नायक के.एस.खारवुंग, जो आक्रामक दल के सदस्य थे, ने आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए भारी गोलाबारी के बीच अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना स्थिति संभाली और बड़े नजदीक से एक आतंकवादी को उलझाए रखा और उसे तुरंत मार गिराया।

दूसरे आतंकवादी ने चट्टान की आड़ लेकर भारी हथगोलाबारी कर दी। लांस नायक के.एस.खारवुंग ने अपनी टुकड़ी पर यूबीजीएल ग्रेनेड से खतरे को महसूस किया और असाधारण बहादुरी दिखाते हुए आड़ से बाहर निकल आए और भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी की ओर दौड़े। आतंकवादी ने उन पर दूसरा ग्रेनेड फेंका। हथगोलों के टुकड़ों से काफी करीब से बचाव करते हुए भारी गोलाबारी का मुकाबला करते हुए उन्होंने उसे घेर लिया और आतंकवादियों को बंदूक की भयंकर गोलाबारी में उलझा दिया। भयंकर गोलाबारी के पश्चात लांस नायक के एस खारवुंग ने बड़े पास से दूसरे आतंकवादी का भी सफाया कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने साथियों की जान बचा ली।

लांस नायक के. एस. खारवुंग ने आतंकवादियों से लड़ते हुए उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस और निस्वार्थता का परिचय दिया।

20. 16014589 राइफलमैन उदय सिंह, द्वितीय बटालियन राजपूताना राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 अगस्त, 2010)

राइफलमैन उदय सिंह जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले के एक गांव में तैनात एक छोटी सैन्य टुकड़ी के सदस्य थे। 29 अगस्त, 2010 को लगभग 0400 बजे पेड़ों की शाखाओं के टूटने और नाले के पास कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते यह टुकड़ी उस क्षेत्र में घुस गई और नीचे की ओर उसने हलचल देखी। राइफलमैन उदय सिंह छोटी सी उस टुकड़ी की अगुआई कर रहे स्काउट थे। पीछा करते हुए उन्होंने अन्य स्काउटों के साथ चट्टान के नीचे एक जैकेट देखी और उसमें से एके 47 राइफलें बरामद किया।

खोज के दौरान स्काउट एक चट्टानी क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों की ओर से हो रही भारी गोलाबारी की चपेट में आ गए। नेता स्काउट होने के कारण उन्होंने अपने को सही जगह पर तैनात कर लिया और एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। ज्योंही गोलीबारी शुरू हुई, उसने सफलतापूर्वक एक और आतंकवादी को गोलाबारी में उलझा लिया जो गुफा में से गोलाबारी कर रहा था।

राइफलमैन उदय सिंह ने भारी आतंकवादी गोलीबारी करते हुए असाधारण संक्रियात्मक साहस और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया।

21. आईसी-72002 लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर सिंह, सेना सेवा कोर/तीसरी बटालियन मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 सितम्बर, 2010)

घुसपैठ के नए रास्ते के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर के बांदापुर जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के घने जंगलों में एक "निगरानी-सह-घात" लगाकर हमला किया गया।

11 सितम्बर, 2010 को 1730 बजे लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर ने दो आतंकवादियों को देखा जो नाले के पास घूम रहे थे। अपनी स्थिति को तेजी से संभालते हुए उसने आतंकवादियों को प्रभावी रूप से उलझा लिया और शुरू में ही एक आतंकवादी को चोटिल कर दिया। आतंकवादियों ने बड़े पत्थरों की आड़ ले ली और भारी गोलाबारी करने लगा। यह भांप कर कि आतंकवादी मद्धिम पड़ रहे प्रकाश में भाग निकलेंगे, लेफ्टिनेंट विक्रम हो रही भारी गोलाबारी के बीच तेजी से आगे बढ़े और अपनी और हिम्मत दिखाते हुए एक आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने छिपने की एक जगह का सहारा ले कर सैन्य टुकड़ियों को उलझाए रखा और हथगोले फेंकता रहा ताकि सैनिक नजदीक न आ सके। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अद्वितीय युद्ध कौशल दिखाते हुए लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर घुटने के बल 30 मीटर चलकर आतंकवादी के पास पहुंचे और दो हथगोले फेंके। इस प्रकार उसे मौत की नींद सुला दिया।

लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर सिंह ने आतंकवादियों से लड़ने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस, पहल और दृढ़निश्चय का प्रदर्शन किया।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 31-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री अनिल कुमार नाथ
सहायक निदेशक
अरुणाचल प्रदेश

श्री नोरेन सिंह नामैराकपम
निदेशक
मणिपुर

श्री जेनामणि रन्जन बिधूशेखर
उप अग्निशमन अधिकारी
उड़ीसा

श्री नरहरि बांरिक
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री प्रदीप कुमार राउत
स्टेशन अधिकारी
उड़ीसा

श्री योगेश बाबू द्विवेदी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

श्री बिरेन्द्र सिंह
सहायक उप निरीक्षक (फायर)
सी0आई0एस0एफ0, गृह मंत्रालय

डा0 खेम चन्द वधवा
वैज्ञानिक "एफ" (अतिरिक्त निदेशक)
डी0आर0डी0ओ0, रक्षा मंत्रालय

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 32-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री चिलुकुरी सत्यनारायना
जिला अग्निशमन अधिकारी
आंध्र प्रदेश

श्री लक्ष्मण स्वामि कट्टा
स्टेशन फायर आफिसर
आंध्र प्रदेश

श्री अब्दुल गफूर
लीडिंग फायरमैन
आंध्र प्रदेश

श्री अनंतनारायना इवानी
फायरमैन,
आंध्र प्रदेश

श्री रतीश रंजन डे
स्टेशन आफिसर
अरुणाचल प्रदेश

श्री ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह
सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
बिहार

श्री जगदीश चौधरी
फायर स्टेशन आफिसर
बिहार

श्री लक्ष्मी भगत
लीडिंग फायरमैन
बिहार

श्री रामेश्वर प्रसाद
लीडिंग फायरमैन चालक
बिहार

श्री सतीश चन्द्र झा
फायरमैन
बिहार

श्री छनियाभाई मंगलभाई रोहित
लीडिंग फायरमैन
दादर एंड नगर हवेली

श्री मंगूभाई लक्ष्मण हलपति
सहायक स्टेशन अग्निशमन अधिकारी
दमन और द्वीप

श्री धर्मपाल
सहायक मण्डल अधिकारी
दिल्ली

श्री महक सिंह
रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर
दिल्ली

श्री दत्ताराम धर्मजी रेडकर
सीनियर स्टेशन फायर आफिसर
गोवा

श्री मदन लाल ठाकुर
सब फायर आफिसर
हिमाचल प्रदेश

श्री जवागल एच. रविशंकर
क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी
कर्नाटक

श्री गोविंदया
फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री एच० उमापति
लीडिंग फायरमैन
कर्नाटक

श्री के० संजिव
फायरमैन ड्राईवर
कर्नाटक

श्री के. वि. किष्णप्पा
फायरमैन ड्राईवर
कर्नाटक

श्री शिवदासन के०वि०
स्टेशन अधिकारी
केरल

श्री राजन पी०के० कुमारन
लीडिंग फायरमैन
केरल

श्री वि०एस० रवीन्द्रन
फायरमैन ड्राईवर कम पम्प ऑपरेटर
केरल

श्री देवेंद्र प्रभाकर पोटफोडे
विभागीय अग्निशमन अधिकारी
महाराष्ट्र

श्री रायबा भगवान पाटील
अग्निशमन अधिकारी
महाराष्ट्र

श्री नवचन्द्रा सिंह लाइशम
सब आफिसर
मणिपुर

श्री लालरेमल्लुआंगा वर्ते
स्टेशन आफिसर
मिजोरम

श्री भीमसेन लेन्का
सहायक केन्द्र अधिकारी
उड़ीसा

श्री नटबर नायक
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री कमला कान्त पूहाण
फायरमैन
उड़ीसा

श्री सान्ति रंजन गुहा
स्टेशन आफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री फुरदेन लेपचा
सहायक उप अग्निशमन अधिकारी
सिक्किम

श्री कृष्णा भौमिक
लीडर
पश्चिम बंगाल

श्री थीरुवन मुथु
मण्डल अधिकारी
तमिलनाडु

श्री आशेस मजूमदार
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

श्री एस० अरुमुगा पूमालई
स्टेशन आफिसर
तमिलनाडु

श्री नीलकान्ता नयोगी
सी० एम० ओ०
पश्चिम बंगाल

श्री एन्थोनी अरुलन्दू
लीडिंग फायरमैन
तमिलनाडु

श्री राम अवतार
लैवोरेटरी असिस्टेन्ट
एन०एफ०एस०सी०, गृह मंत्रालय

श्री कन्नन राजेन्द्रन
ड्राईवर मैकेनिक
तमिलनाडु

श्री नरेश कुमार सिंह
असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट/फायर
केओसुब, गृह मंत्रालय

श्री गौस मौहम्मद हुसैन
फायरमैन ड्राईवर
तमिलनाडु

श्री जसवन्त सिंह
हैड कान्सटेबल/फायर
केओसुब, गृह मंत्रालय

श्री गोविन्दन बालन
फायरमैन
तमिलनाडु

श्री मारुफ अहमद शेख
प्रबंधक (अग्निशमन सेवा)
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री जाकिर हुसैन
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

श्री आलम सिंह
सीनियर फायर आफिसर
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

श्री सौम्येन्द्र नाथ घौसाल
मण्डल अग्निशमन अधिकारी
पश्चिम बंगाल

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 33—प्रेज/2011— राष्ट्रपति, उत्तरप्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:—

श्री अजय कुमार चन्द (मरणोपरांत)
फायरमैन

श्री हरि लाल यादव (मरणोपरांत)
फायरमैन

दिनांक 31.03.2009 को समय 1310 बजे आजमगढ़ अग्निशमन केन्द्र में दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला, हरबन्शपुर, पुलिस स्टेशन—सिधारी, जिला—आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की रंगरोगन की दुकान के गोदाम में आग लग गई है। सूचना मिलते ही श्री अफरोज आलम खॉन, लीडिंग फायरमैन अग्निशमन केन्द्र आजमगढ़ से अपने दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उसने देखा कि रंग रोगन की दुकान के गोदाम में पेन्ट, थिनर और दूसरे रसायनिक ज्वलनशील पदार्थों में लगी भयानक आग बहुत तेजी से फैल रही थी। फायरमैन हरिलाल यादव, फायरमैन अजय कुमार चन्द, फायरमैन हरिश चन्द्र और फायरमैन बलजीत यादव ने आग बुझाने के कार्य का संचालन किया। स्थिति की भयानकता को देखते हुए श्री अफरोज आलम खॉन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और अधिक वाटर टेन्डर की मांग की। आग से जान और माल बचाने के प्रयास में फायरमैन श्री अजय कुमार चन्द और फायरमैन श्री हरिलाल यादव और अन्य कर्मी आग में घिर गये और बुरी तरह जखमी हो गये। लक्ष्मी मेडिकल एवं केयर सेन्टर, वाराणसी में उपचार के दौरान दिनांक 08/04/2009 को फायरमैन श्री अजय कुमार चन्द्र और फायरमैन श्री हरिलाल यादव का देहान्त हो गया।

2. इस प्रकार फायरमैन श्री (स्वर्गीय) अजय कुमार चन्द्र और फायरमैन श्री (स्वर्गीय) हरिलाल यादव ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 31.03.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 34—प्रेज/2011—राष्ट्रपति, उत्तरप्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:—

श्री अजय कुमार शर्मा
फायर स्टेशन आफिसर

श्री ब्रिज मोहन शर्मा
लीडिंग फायरमैन

श्री सुलेख चन्द शर्मा
लीडिंग फायरमैन

श्री ब्रिज पाल सिंह
फायरमैन

दिनांक 18.12.2009 को समय 0740 बजे मुजफ्फरनगर अग्निशमन केन्द्र पर दूरभाष द्वारा सूचना मिली कि मैगमा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, बेगराजपुर, मेरठ रोड, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में विस्फोट होने से आग लग गई है। सूचना मिलते ही श्री अजय कुमार शर्मा, फायर स्टेशन आफिसर अग्निशमन दल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और पाया कि फार्मास्यूटिकल कम्पनी में आग लगी है जहाँ पर अत्यन्त जहरीले, ज्वलनशील, तरल पदार्थ, हाईड्रोजन गैस एवं एल पी जी सैलेण्डर भारी मात्रा में इस्तेमाल के लिए रखे हुए थे। विस्फोट से फैक्ट्री एवं उसके आस-पास भारी मात्रा में अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था। वहाँ एकत्रित भीड़ ने बताया कि कई मजदूर फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। घटना का जायजा लेने के उपरान्त श्री अजय कुमार शर्मा, फायर स्टेशन आफिसर ने वाटर जैट्स को निर्धारित स्थानों पर आग की रोकथाम के लिए लगाया। इस बीच सामली, मेरठ एवं सहारनपुर से भी बचाव दल सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुँच गये। इन गंभीर परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री अजय कुमार शर्मा, फायर स्टेशन अधिकारी, श्री सुलेख चन्द शर्मा लीडिंग फायरमैन, श्री ब्रिज मोहन शर्मा, लीडिंग फायरमैन और श्री ब्रिज पाल सिंह फायरमैन ने जबरदस्त आत्मविश्वास और बहादुरी से आग का सामना करते हुए आग में फंसे हुए 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

2. इस प्रकार फायरमैन श्री अजय कुमार शर्मा फायर स्टेशन अधिकारी, श्री सुलेख चन्द शर्मा लीडिंग फायरमैन, श्री ब्रिज मोहन शर्मा, लीडिंग फायरमैन और श्री ब्रिज पाल सिंह फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 18.12.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 35-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, उत्तरप्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:-

श्री शंकर शरण राय
फायर स्टेशन आफिसर

श्री बालजीत यादव
फायरमैन

श्री दीनानाथ त्रिपाठी
फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी

श्री हरिश चन्द्र
फायरमैन

श्री अफरोज आलम खॉन
लीडिंग फायरमैन

दिनांक 31.03.2009 को समय 1310 बजे आजमगढ़ अग्निशमन केन्द्र पर दूरभाष द्वारा सूचना मिली कि मोहल्ला, हरबन्शपुर, पुलिस स्टेशन-सिधारी, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की रंगरोगन की दुकान के गोदाम आग लग गई है। सूचना मिलते ही श्री अफरोज आलम खॉन, लीडिंग फायरमैन अग्निशमन केन्द्र आजमगढ़ से अपने दल के साथ घटना स्थल पर

पहुँचे। मौके पर पहुँचकर उसने देखा कि रंग रोगन की दुकान के गोदाम में पेन्ट, थिनर और दूसरे रसायनिक ज्वलनशील पदार्थों में लगी भयानक आग बहुत तेजी से फैल रही थी। फायरमैन हरिलाल यादव, फायरमैन अजय कुमार चन्द, फायरमैन हरिश चन्द्र और फायरमैन बलजीत यादव ने आग बुझाने के कार्य का संचालन किया। स्थिति की भयानकता को देखते हुए श्री अफरोज आलम खॉन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और अधिक वाटर टेन्डर की मांग की। श्री शंकर शरन राय, फायर स्टेशन अधिकारी और श्री दीनानाथ त्रिपाठी, फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुँचे। आग से जान और माल बचाने के प्रयास में श्री शंकर शरन राय फायर स्टेशन अधिकारी, श्री दीनानाथ त्रिपाठी फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी, श्री अफरोज आलम खॉन लीडिंग फायरमैन, श्री बलजीत यादव फायरमैन और श्री हरीश चन्द्र फायरमैन आग में घिर गये और बुरी तरह जख्मी हो गये जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

2. इस प्रकार फायरमैन श्री शंकर शरन राय फायर स्टेशन अधिकारी, श्री दीनानाथ त्रिपाठी फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी, श्री अफरोज आलम खॉन लीडिंग फायरमैन, श्री बलजीत यादव फायरमैन और श्री हरीश चन्द्र फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 31.03.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 36-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उत्तरप्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:-

श्री पृथ्वी राज तिवारी
फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी

श्री मिथलेश शुक्ला
फायरमैन

श्री रमेश सिंह चौहान
लीडिंग फायरमैन

श्री प्यारे लाल सोनकर
फायरमैन

दिनांक 17.10.2009 को समय 1455 बजे फजलगंज मिनी कन्ट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि, मकान नम्बर 118/300-301 हनुमान पार्क वाली गली, कौशलपुरी, पुलिस स्टेशन नजीराबाद में आग लग गई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचा। ऑफिसर इन्चार्ज ने देखा कि एल पी जी सैलेण्डर फटने के धमाके से एक ईमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और उससे आग की लपटें निकल रही हैं। ईमारत की छत का अधिकांश हिस्सा खतरनाक स्थिति में लटक रहा था। तुरन्त अग्निशमन दल ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। जब पता लगा कि इस ध्वस्त ईमारत में लगभग 17 परिवार रहते थे जिसमें से कुछ लोग अभी भी अन्दर फँसे हुए हैं, तो बिना समय गवाएं श्री पृथ्वी राज तिवारी फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी, श्री रमेश सिंह चौहान लीडिंग फायरमैन, श्री मिथलेश शुक्ला फायरमैन और श्री प्यारे लाल सोनकर फायरमैन अपने प्राणों की परवाह किये बगैर इस जोखिमपूर्ण स्थिति में भी इमारत के अन्दर घुसे और श्रीमति किरण बाला

गंभीर, विजय मोर्या, हरिशंकर दीक्षित एवं श्रीमति पुष्पा देवी को सुरक्षित निकाल लिया और एक सोनू नाम के बच्चे की लाश भी, जो मलवे के नीचे दबी हुई थी को बाहर निकाला।

2. इस प्रकार श्री पृथ्वी राज तिवारी फायर स्टेशन द्वितीय अधिकारी, श्री रमेश सिंह चौहान लीडिंग फायरमैन, श्री मिथलेश शुकला फायरमैन और श्री प्यारे लाल सोनकर फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 17.10.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 37-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:-

श्री नेजू अमबत वरकी
डिप्टी मैनेजर (फायर एण्ड सेफ्टी)

श्री बिमल राज वेलयूधन लीलाबाई
डिप्टी मैनेजर (फायर एण्ड सेफ्टी)

श्री सतीश जगजीवन एलोन
सीनियर इन्जीनियर (फायर एण्ड सेफ्टी)

दिनांक 11.12.2009 को समय 0100 बजे, बी पी सी एल-कौच्ची रिफायनरी हाउसिंग कॉलोनी गेट अम्बालामुगल पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने देखा कि 15 टन तरल अमोनिया गैस से भरा हुआ टैंकर पलट गया है तथा प्राइम-मूवर ट्रेलर से अलग हो गया है। उसने तुरन्त रिफायनरी फायर स्टेशन को सतर्क किया। सूचना मिलते ही फायर एवं सेफ्टी विभाग के प्रमुख विभाग अधिकारी, फायर एवं सेफ्टी इन्जीनियर दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए। उन्होंने पाया कि दुर्घटना के कारण अमोनिया गैस बुलट के 3 इंची नोजल से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। अमोनिया गैस की मोटी परत बन जाने के कारण टैंकर के नजदीक पहुंचना कठिन था। यह अमोनिया गैस की परत रिफाइनरी परिसर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी तथा रिफाइनरी के मेन फायर स्टेशन, प्रक्रिया इकाई और रिफाइनरी के अन्य इलाके को चपेट में लेने के कारण कई लोगों की जान का खतरे में पड़ गई थी। श्री नेजू अमबत वरकी डिप्टी मैनेजर (फायर एण्ड सेफ्टी), श्री बिमल राज वेलयूधन लीलाबाई, डिप्टी मैनेजर (फायर एण्ड सेफ्टी) और श्री सतीश जगजीवन एलोन, सीनियर इन्जीनियर (फायर एण्ड सेफ्टी) ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए पानी के स्प्रे जेट से अमोनिया गैस को डायलूट करने के लिए टैंकर के रिसाव बिन्दू के नजदीक पहुंचने की हिम्मत दिखाई तथा रिसाव को रोकने में सफलता प्राप्त की, जिसके कारण कई भारी जान-माल की क्षति होने से बच गई।

2. इस प्रकार श्री नेजू अमबत वरकी डिप्टी मैनेजर (फायर एण्ड सेफ्टी), श्री बिमल राज वेलयूधन लीलाबाई, डिप्टी मैनेजर (फायर एण्ड सेफ्टी) और श्री सतीश जगजीवन एलोन सीनियर इन्जीनियर (फायर एण्ड सेफ्टी) ने उत्कृष्ट वीरता, कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।
3. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3 (i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 11.12.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 38-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, उड़ीसा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:-

श्री पूर्ण चन्द्र स्वाई
लीडिंग फायरमैन

दिनांक 26.05.2009 को समय 1800 बजे बांकी अग्निशमन केन्द्र पर दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गांव पाटपुर, -बांकी, जिला कटक के कुएं में दो व्यक्ति गिर गये हैं। सूचना मिलते ही तुरन्त दल अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। मौके पर पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि समारीता दास नाम की एक औरत जो कुएं पर नहाने गयी थी, कुएं में गिर गई है। एक व्यक्ति श्री राजे भोई जो उस महिला को बचाने के लिए कुएं में उतरा था वह भी कुएं के अन्दर फंस गया है। वहां के स्थानीय लोग उत्सुकता से फायर ब्रिगेड के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री पूर्ण चन्द्र स्वाईन, फायरमैन (अब लीडिंग फायरमैन) जबरदस्त आत्मविश्वास और बहादुरी का परिचय देते हुए बारी-बारी से श्रीमति समारीता दास और श्री राजू भोई को बेहोशी की हालत में कुएं से बाहर निकाला और उपचार हेतु अस्पताल में पहुँचाया।

2. इस प्रकार लीडिंग फायरमैन श्री पूर्ण चन्द्र स्वाईन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।
3. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3 (i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 26.05.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 40-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :-

श्री एम. महेन्द्र रेड्डी
पुलिस महानिरीक्षक
आसूचना विभाग, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री चिंता रामचन्द्र
पुलिस अधीक्षक
आसूचना सुरक्षा स्कंध, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री अजित प्रसाद राउत
पुलिस महानिरीक्षक (संभार तंत्र)
पुलिस मुख्यालय, उलवारी, गुवाहाटी
असम

श्री राजेश्वर शर्मा
उप पुलिस अधीक्षक
बीएमपी-14 पटना
बिहार

श्री अरूण कुमार सिन्हा
सार्जेंट मेजर
एसटीएफ, पटना
बिहार

श्री राजीव चन्द्र श्रीवास्तव
आयुक्त
सांस्कृतिक एवं पुरातत्व, रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री मुहम्मद ताज हसन
संयुक्त पुलिस आयुक्त
सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री रेवन्त राम
सहायक उप निरीक्षक
पूर्वोत्तर जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री आशीष भाटिया
पुलिस महानिरीक्षक
अहमदाबाद रेंज
गुजरात

श्री बलजीत सिंह सन्धु
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
विधि एवं लोक व्यवस्था, पंचकुला
हरियाणा

श्री अनिल कुमार धवन
उप पुलिस आयुक्त
अपराध शाखा, गुडगाँव
हरियाणा

श्री के सी सडयाल
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
एसवी एण्ड एसीबी, शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्दर कोतवाल
पुलिस महानिरीक्षक
सशस्त्र/आईआरपी, जम्मू अंचल, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री असीत मोहन प्रसाद
पुलिस महानिरीक्षक
केएसआरपी, बैंगलूरु
कर्नाटक

श्री वी.एस. डी' सूजा
पुलिस उपायुक्त
आसूचना, पुलिस आयुक्त का कार्यालय, बैंगलूरु शहर
कर्नाटक

श्री कुन्दन सिंह जंगपांगी
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, तिरुअनन्तपुरम्
केरल

डॉ. एलेकजेंडर जेकब
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
कारागार, (कारागार मुख्यालय)तिरुअनन्तपुरम्
केरल

श्री प्रेमलाल पाण्डेय
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
दूरसंचार, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री भवानी प्रसाद
हेड कांस्टेबल
विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ऑफिस, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री हिम्मतराव विठोबाजी देशभ्रतार
पुलिस आयुक्त
सोलापुर शहर
महाराष्ट्र

श्री रणजीत दादासाहेब धुरे
सहायक पुलिस आयुक्त
सीटी डिवीजन, पुणे शहर
महाराष्ट्र

श्री गणपती नाना वाघालकर
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
एल.ए. III, वर्ली पुलिस मुख्यालय, मुंबई शहर
महाराष्ट्र

श्री एल एम खांडते
पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)
सीआईडी मुख्यालय इम्फाल,
मणिपुर

श्री टिनसोन डखार
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय, प्रशासन / एफ एंड ईएस)
पुलिस मुख्यालय, शिलांग
मेघालय

श्री पी कामराज
निदेशक
एसीबी, आइजोल
मिजोरम

श्री जी. नेवोली चडी
निरीक्षक (डीईएफ)
कोहिमा
नागालैंड

श्री बीजय कुमार शर्मा
पुलिस आयुक्त
भुवनेश्वर, कटक
उड़ीसा

श्री पुरुषोत्तम साहू
कमांडेंट
1 आईआरबीएन, अपर कोलाब, कोरापुट
उड़ीसा

श्री एम.के. तिवारी
पुलिस महानिरीक्षक एवं प्रबंध निदेशक
पीपीएचसी, चंडीगढ़
पंजाब

श्री निर्मल सिंह दिल्ली
पुलिस महानिरीक्षक
भटिण्डा
पंजाब

श्री सुनील कुमार मेहरोत्रा
पुलिस महानिरीक्षक
सशस्त्र पुलिस बल, जयपुर,
राजस्थान

श्री विजय सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
सीआईडी, (एसबी) क्षेत्र, जयपुर सिटी
राजस्थान

श्री दिल्ली बहादुर थापा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
पुलिस मुख्यालय, गंगटोक
सिक्किम

श्री संग्राम जांगिड
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त
चेन्नई उप नगरीय पुलिस, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री जे.के. त्रिपाठी
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
चेन्नई
तमिलनाडु

श्री एस एम मोहम्मद इकबाल
उप पुलिस अधीक्षक
वी और एसी, चेन्नई शहर-V, नन्दनम, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री तरून बरन राय
उप पुलिस महानिरीक्षक
(एपी एण्ड ऑप्स), पी.ओ. ए. डी. नगर, अगरतला
त्रिपुरा

श्री जगमोहन यादव
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
एटीसी सीतापुर,
उत्तर प्रदेश

श्री चन्द्र देव
पुलिस महानिरीक्षक
अभियोजन, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री सुदर्शन राम
उप पुलिस अधीक्षक,
जिला महाराजगंज,
उत्तर प्रदेश

श्री जसवन्त सिंह
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला. पौड़ी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड

श्री कुलदीप सिंह
पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस मुख्यालय, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री राकेश कुमार गुप्ता
पुलिस महानिरीक्षक
सतर्कता आयोग, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री अशोक कुमार जैन
महानिरीक्षक
त्रिपुरा एफटीआर, सालबागान, अगरतला,
सीमा सुरक्षा बल

श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू आइजोल, पीओ-दुरतलांग, मिजोरम
सीमा सुरक्षा बल

श्री मनोरंजन त्रिपाठी
उप महानिरीक्षक
कार्मिक मुख्यालय, एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री अनिल काम्बोज
उप महानिरीक्षक
प्रशासनिक मुख्यालय, एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. चन्द्र मोहन आर
उप महानिरीक्षक
एफटीआर, मुख्यालय, गुजरात, गांधीनगर
सीमा सुरक्षा बल

श्रीमती सुमन बाला साहू
संयुक्त निदेशक
(एचओजेड) कोलकाता
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री भूपिन्दर कुमार छाबड़ा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
ईओयू-III, नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री गनेश वर्मा
पुलिस अधीक्षक
एसीबी, इम्फाल, मणिपुर
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री जोगेन्द्र नायक
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
सतर्कता सेल, नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री प्रकाश चन्द्र
पुलिस निरीक्षक
एस सी-III, नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हर प्रसाद सिंह राठौर
कमांडेंट
जीवीएस नई दिल्ली
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सुधीर कुमार सिंह फर्तियाल
उप कमांडेंट
5 वीं रिजर्व बटालियन, गाजियाबाद
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री देवेन्द्र कुमार पाठक
पुलिस महानिरीक्षक
एफएचक्यू, नई दिल्ली
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एम. नागेश्वर राव
पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय (ऑप्स),
भुवनेश्वर, उड़ीसा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बी. राजेन्द्र कामत
उप पुलिस महानिरीक्षक
डीआईजीपी का कार्यालय आरएफ-II
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राकेश कुमार उपाध्याय
सेकण्ड-इन-कमाण्ड
डीआईजीपी का कार्यालय, लखनऊ रेंज,
लखनऊ (उ. प्र.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गजराज सिंह
उप निरीक्षक
एफएचक्यू, नई दिल्ली
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रदीप कुमार भारद्वाज
संयुक्त निदेशक
भोपाल
गृह मंत्रालय

श्री अक्षय कुमार मिश्रा
संयुक्त निदेशक
कोहिमा
गृह मंत्रालय

डॉ. एम मदन मोहन
संयुक्त निदेशक
हैदराबाद
गृह मंत्रालय

श्री विनय कुमार सिंह
संयुक्त निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री दिनकर गुप्ता
संयुक्त निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री मुरारी लाल
संयुक्त उपनिदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री ए के सुरेश कुमार
सहायक निदेशक
बंगलौर
गृह मंत्रालय

श्री भूपेन्द्र सिंह खडायत
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
आइजोल
गृह मंत्रालय

डॉ. टी .रवि प्रसाद
महानिरीक्षक/निदेशक चिकित्सा
एफ एच क्यू, नई दिल्ली
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री हरभजन सिंह गोराया
उपमहानिरीक्षक
बीटीसी, पंचकुला, हरियाणा
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सरदार सिंह हरटा
उपमहानिरीक्षक
एफ एच क्यू, नई दिल्ली
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री प्रेम स्वरूप सिंह नेगी
उपमहानिरीक्षक
एफएचक्यू, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

डॉ. ईश कुमार
निदेशक (राष्ट्रीय पुलिस मिशन)
एफ एच क्यू, नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

श्री टी.एन राव
संयुक्त सहायक निदेशक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री पी रामकृष्ण नायडू
महानिरीक्षक/संयुक्त निदेशक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री के एन सोमान
ड्रिल अनुदेशक
हैदराबाद
एस वी पी एन.पी.ए

श्री संजीव कुमार सिंह
पुलिस महानिरीक्षक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय जांच एजेंसी

श्री पी.एस.बी. नायर
वरिष्ठ कमांडेंट
04 बटालियन, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु
एनडीआरएफ

श्री संजय कुमार
निदेशक सतर्कता (पुलिस)
नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री संतोष कुमार राय
सहायक सुरक्षा आयुक्त/निरीक्षक
आरपीएफ/यात्री सुरक्षा
रेल मंत्रालय

2. ये पदक विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने हेतु विनियमित नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 41-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती है :--

श्री अमित गर्ग
संयुक्त पुलिस आयुक्त
पुलिस मुख्यालय, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री एन बाला सुब्रमण्यम
उप पुलिस महानिरीक्षक

आसूचना विभाग, हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश

श्री बी शिवधर रेड्डी
उप पुलिस महानिरीक्षक
विशेष आसूचना शाखा, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्रीमती शिखा गोयल
अपर निदेशक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री ए. रविचन्द्र
पुलिस अधीक्षक
गुंटूर ग्रामीण जिला,
आंध्र प्रदेश

श्री एम. शिवैय्या
उप पुलिस अधीक्षक
कल्याण दुर्ग, उप संभाग, जिला अनंतपुर
आंध्र प्रदेश

श्री एम. श्रीनिवास
उप पुलिस अधीक्षक
अवनिगड्डा उप-संभाग, जिला कृष्णा
आंध्र प्रदेश

श्री पी. राधा किशन राव उप पुलिस अधीक्षक सी.आई.सेल, आसूचना आंध्र प्रदेश	श्री पी.शिवा बाबू शर्मा ओ/एस पुलिस उप निरीक्षक आसूचना विभाग, हैदराबाद आंध्र प्रदेश
श्री राजूला रविशंकर रेड्डी निरीक्षक एफ ए सी उप पुलिस अधीक्षक, जोर्नल आसूचना कार्यालय, तिरुपति आंध्र प्रदेश	श्री टी. सुब्रमण्यम ओ/ एस रिजर्व उप निरीक्षक ए पी पुलिस अकादमी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश
श्री डी. अमरनाथ नायडू निरीक्षक सतर्कता और प्रवर्तन विभाग, हैदराबाद ग्रामीण हैदराबाद आंध्र प्रदेश	श्री सैयद इब्राहिम हेड कान्सटेबल एआर मुख्यालय, जिला निजामाबाद आंध्र प्रदेश
श्री जुलापल्ली रामा राव पुलिस निरीक्षक मुल्तानाबाद, जिला करीमनगर आंध्र प्रदेश	श्री सूगाली सोमला नायक हेड कांस्टेबल कुरनूल -III नगर पुलिस स्टेशन, जिला कुरनूल आंध्र प्रदेश
श्री अलहरि वेंकट राव उप निरीक्षक काउन्टर इन्टेलीजेंस सेल, विशेष शाखा, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	श्री मधुप कुमार तिवारी उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, ईटानगर अरूणाचल प्रदेश
श्रीमती. पी. वर लक्ष्मी सहायक उपनिरीक्षक (डब्ल्यू) पीसीआर, विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश	श्री सांगे नोरबू फौचूलुपा निरीक्षक तवांग, ईटानगर अरूणाचल प्रदेश
श्री पोथूराजू रामचन्द्रैया सहायक उप निरीक्षक, जिला नेल्लोर आंध्र प्रदेश	श्री अनुराग टंका उप पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा मुख्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी असम
श्री रघुनाथ साहू ओ/एस पुलिस उप निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशाखापट्टनम रेंज आंध्र प्रदेश	श्री ए वाई वेंकट कृष्णा उप पुलिस महानिरीक्षक (एसआर) सिलचर, असम

श्री मुन्ना प्रसाद गुसा
उप पुलिस महानिरीक्षक
सीआईडी, गुवाहाटी
असम

श्री गुनीन्द्र मोहन चौधरी
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
गुवाहाटी,
असम

श्री जनेन्द्र शर्मा
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध, गुवाहाटी
असम

श्री नलिनी कांत दत्ता
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
दीमा हसाव जिला, दीमा हसाव (हाफलोंग)
असम

श्री भूदेश्वर बोरा
हवलदार / जीडी
1 ए पी बटालियन, लिगरीपूखरी, शिवसागर
असम

श्री दिलीप गोगोई
नाईक (यूबी)
जोरहट, डीईएफ, जोरहट
असम

श्री नरेन चन्द्र बोरो
कांस्टेबल (यूबी)
दीमा हसाव जिला, दीमा हसाव (हाफलोंग)
असम

श्री कृष्णा मोहन दास
कांस्टेबल (यूबी)
दीमा हसाव जिला, दीमा हसाव (हाफलोंग)
असम

श्री भृगु श्रीनिवासन
पुलिस महानिरीक्षक
पटना जोन, पटना
बिहार

श्री सौरभ कुमार
पुलिस अधीक्षक
रेलवे, पटना
बिहार

श्री शशि भूषण पाण्डेय
उप पुलिस अधीक्षक
सीआईडी मुख्यालय, पटना
बिहार

श्रीमती. कुमारी आशा ठाकुर
पुलिस निरीक्षक
सतर्कता पटना
बिहार

श्री जगतपति प्रसाद कर्ण
सार्जेंट मेजर
पुलिस लाइन, नालंदा
बिहार

श्री गिरधारी कुमार मिश्रा
उप निरीक्षक
राज्य सतर्कता ब्यूरो, पटना
बिहार

श्री स्वपन कुमार घोष
उप निरीक्षक
फोटो अनुभाग, विशेष शाखा, पटना
बिहार

श्री धनेश्वर उराँव
उप निरीक्षक (सशस्त्र)
बीएमपी-14, पटना
बिहार

श्री मुरली मनोहर सिंह सहायक पुलिस उप निरीक्षक नक्सल अनुभाग, विशेष शाखा, पटना बिहार	श्री पुरुषोत्तम गौतम सहायक. पुलिस महानिरीक्षक (चयन) पुलिस मुख्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़
श्री लालबिहारी ठाकुर हवलदार बीएमपी-14, पटना बिहार	श्री मोतीराम पिप्पल कंपनी कमांडर 1 बटालियन सीएएफ भिलाई छत्तीसगढ़
श्री बीरेन्द्र कुमार गुप्ता सिपाही विशेष शाखा, पटना बिहार	श्री महाराज सिंह रावत प्लाटून कमांडर 12 वीं बटालियन सी ए एफ रामानुजगंज छत्तीसगढ़
श्री अशोक कुमार सिंह सिपाही बम खोजी और निरोधक दस्ता, विशेष शाखा, पटना बिहार	श्री ओमप्रकाश सोनी सहायक प्लाटून कमांडर 5 वीं बटालियन सीएएफ जगदलपुर छत्तीसगढ़
श्री योगेन्द्र कुमार सिंह आरक्षी सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना बिहार	श्री थेओतियुस लकड़ा आरक्षी तीसरी बटालियन सी ए एफ रायपुर छत्तीसगढ़
श्री इन्द्रजीत सिंह आरक्षी सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना बिहार	श्री अनिल कुमार मित्तल निरीक्षक पी आर ओ शाखा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री मुकेश गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक आसूचना पुलिस मुख्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़	श्री काली चरण उप निरीक्षक पी अनुभाग/विशेष आयुक्त/विशेष सैल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री गुरजिन्दर पाल सिंह निदेशक खेल और युवा कल्याण, रायपुर छत्तीसगढ़	श्री उदय वीर शर्मा सहायक उप निरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती पुष्पा
सहायक उपनिरीक्षक (डब्ल्यू)
दक्षिण जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री विरेन्द्र सिंह
हेड कांस्टेबल
डीसीपी/विभागीय जांच सैल, पुलिस मुख्यालय,
दरिया गंज, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री भोज राज
हेड कांस्टेबल
दक्षिण जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती जान अम्बा
हेड कांस्टेबल (महिला)
सुरक्षा इकाई, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री निहाल सिंह
आरक्षी
दक्षिण जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री गिरिश कुमार
आरक्षी
दक्षिण जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री सतपाल सिंह
आरक्षी
दक्षिण जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री हरी किशन
आरक्षी
दक्षिण जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री कुसुम पाल सिंह
आरक्षी
संचार, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री घनश्याम दास
आरक्षी
सीएडब्ल्यू सैल/पश्चिम जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री सुरेश जयराम राउत
उप निरीक्षक
डीजीपी के रीडर, पणजी
गोवा

श्री फजल महमूद गार्ड
पुलिस अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण)
पुलिस भवन, गांधीनगर,
गुजरात

श्री राजेन्द्रकुमार ब्रह्मभट
उप पुलिस महानिरीक्षक
सीआईडी आईबी, पुलिस भवन, गांधीनगर
गुजरात

श्री कन्दर्प एस त्रिवेदी
शस्त्ररहित पुलिस निरीक्षक
जीयूवीएनएल पुलिस स्टेशन साबरमती, अहमदाबाद
गुजरात

श्री भुवा करशनभाइ रामभाइ
पुलिस निरीक्षक
संयुक्त पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर,
गुजरात

श्री सामंतसिंह वी. जाडेजा
सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भावनगर
गुजरात

श्री रविन्द्र विश्वनाथ निकम
शस्त्ररहित पुलिस उप निरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, सूरत रेंज, अथवालाइन्स,
निकट पुलिस मुख्यालय, सूरत
गुजरात

श्री महमदसलीम साठी
शस्त्ररहित पुलिस उप निरीक्षक
डीसीबी, राजकोट शहर
गुजरात

श्री ताजमहमद अबुभाइ संधी
शस्त्ररहित सहायक उप निरीक्षक
एसओजी जिला-भावनगर
गुजरात

श्री सहदेवसिंह खोडुभा झाला
शस्त्ररहित पुलिस हेड कांस्टेबल
ए डिवीजन पुलिस स्टेशन राजकोट शहर
गुजरात

श्री हठुभा चन्द्रसिंह सरवैया
शस्त्ररहित हेड कांस्टेबल
स्थानीय अपराध शाखा, जिला-भावनगर
गुजरात

श्री पंडया जितेन्द्रकुमार नटवरलाल
शस्त्ररहित पुलिस हेड कांस्टेबल
सतर्कता शाखा, महानिदेशक एवं
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय गांधीनगर
गुजरात

श्री दशरथसिंह बारीआ
आसूचना अधिकारी
एडीजीपी का कार्यालय, आसूचना, गांधीनगर
गुजरात

श्री प्रद्युमनसिंह वजुभा परमार
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, राजकोट ग्रामीण जिला,
राजकोट
गुजरात

श्री नवदीप सिंह विर्क
उप पुलिस महानिरीक्षक
अपराध शाखा, गुडगांव
हरियाणा

श्री श्रीकान्त जादव
उप पुलिस महानिरीक्षक
एचपीए, मधुबन
हरियाणा

डॉ. सुमन मंजरी
उप पुलिस महानिरीक्षक
एचपीए, मधुबन
हरियाणा

श्री परमजीत सिंह अहलावत
उप पुलिस महानिरीक्षक
अपराध शाखा, हिसार
हरियाणा

श्री निहाल सिंह
निरीक्षक
एसवीबी मुख्यालय, पंचकुला
हरियाणा

श्री तीर्थ राम
निरीक्षक
जीआरपी अम्बाला कैंट.
हरियाणा

श्री रघबीर सिंह
उप निरीक्षक
पुलिस लाइन, फरीदाबाद
हरियाणा

श्री राम किशन
उप निरीक्षक
सी.पी का रीडर, गुडगांव
हरियाणा

श्री चन्द्र प्रकाश
सहायक उप निरीक्षक,
दक्षिण /डीसीपी, का कार्यालय गुडगांव
हरियाणा

श्री एन वेणु गोपाल
उप पुलिस महानिरीक्षक
सीआईडी, शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पुनीता भारद्वाज
पुलिस अधीक्षक,
सिरमौर, जिला सिरमौर
हिमाचल प्रदेश

श्री दौलत राम
निरीक्षक
1 आईआरबी बनगढ़, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार यादव
उप पुलिस महानिरीक्षक
आर पी एच क्यू, राजौरी
जम्मू और कश्मीर

श्री शफकत अली वटाली
उप पुलिस महानिरीक्षक
एसकेआर अनंतनाग
जम्मू और कश्मीर

श्री अशोक कुमार अतरी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक जम्मू के एस ओ
जम्मू और कश्मीर

श्री अजीत लाल डोंगरा
पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा)
राजभवन, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री रफी अहमद मीर
पुलिस अधीक्षक
डीपीटी जम्मू व कश्मीर के एसओ, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री सोधागर मल जंगराल
उप पुलिस अधीक्षक
जेकेएपी 5 वीं बटालियन,
जम्मू और कश्मीर

श्री शमशेर सिंह समयाल
उप पुलिस अधीक्षक
एसडीपीओ सिटी, उत्तर जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री सैयद फयाज अहमद
निरीक्षक
एस. एच. ओ., एन.जी.ओ. हंडवारा
जम्मू और कश्मीर

श्री राजेन्द्र कुमार भारद्वाज
निरीक्षक
एसएचओ जीआरपी, (जे)
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहम्मद अशरफ राथर
निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय
जम्मू और कश्मीर

श्री फयाज अहमद वांडे
निरीक्षक (एम)
एन. जी. ओ., पुलिस मुख्यालय,
जम्मू और कश्मीर

श्री वशीर अहमद कुमार
सहायक उप निरीक्षक (एम)
पुलिस मुख्यालय,
जम्मू और कश्मीर

श्री शोकत अली
हेड कांस्टेबल
जेकेएपी 13वीं बटालियन डोडा
जम्मू और कश्मीर

श्री बी दयानंद
उप पुलिस महानिरीक्षक
राज्य आसूचना, बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री अमृत पौल
उप पुलिस महानिरीक्षक और कमांडर
नक्सल विरोधी बल, करकला, उडुपी जिला,
कर्नाटक

श्री जे अरूण चक्रवर्ती
उप पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक
बीएमटीसी, बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री टी जी कृष्ण भट्ट
पुलिस उपायुक्त
प्रशासन, बेंगलूरु सिटी
कर्नाटक

श्री बी चंद्रमोहन सिंह
पुलिस अधीक्षक
आसूचना बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री शिवालिंगप्पा
पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट
होम गार्ड और नागरिक रक्षा अकादमी, बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री बी जया भंडारी
उप पुलिस अधीक्षक
डीसीआरबी, पांडेश्वरा मंगलौर
कर्नाटक

श्री एम. कृष्णप्पा,
उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता प्रकोष्ठ, मेसकाम मरोली, मंगलौर
कर्नाटक

श्री एम .शंकरप्पा
उप पुलिस अधीक्षक
विशेष पूछताछ, सीआईडी, बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री एन रुद्रमुनी
उप पुलिस अधीक्षक
हिरियूर
कर्नाटक

श्री एन.टी प्रमोदराव
पुलिस निरीक्षक
सीएसपीएस कुम्ता
कर्नाटक

श्री मोहम्मद बुदन
पुलिस निरीक्षक
आसूचना बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री एस के तमन्ना शास्त्री
पुलिस उप निरीक्षक
आसूचना, बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री एल पुतास्वामी
पुलिस सब इंस्पेक्टर (वायरलेस)
महानिदेशक कंट्रोल रूम, बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री ए.वी प्रकाश
सहायक उपनिरीक्षक (वायरलेस)
बेंगलूरु
कर्नाटक

श्री के जी प्रेमशंकर
पुलिस महानिदेशक
एमडी केएसएफडीसी
केरल

श्री ए.जे. थॉमसकुट्टी
पुलिस अधीक्षक
सीबी, सीआईडी ओसीडब्ल्यू 1-मुतुडा
पीओ तिरुवनंतपुरम, केरल

श्री के विजयन
पुलिस अधीक्षक,
सीबी सीआईडी ओसीडब्ल्यू-III पलक्कड
केरल

श्री ए वेणु गोपाल
उप पुलिस अधीक्षक
सीबी सीआईडी, ईओडब्ल्यू III, कोझीकोड उप यूनिट,
कोझीकोड, केरल

श्री वी बी सुकेशन
उप पुलिस अधीक्षक,
दूरसंचार मुख्यालय पट्टम, तिरुवनंतपुरम
केरल

श्री ए बी पोनप्पन
उप-निरीक्षक
वीएसीबी एरनाकुलम
केरल

श्री चार्ल्स एलेकजेंडर
सहायक पुलिस उप निरीक्षक (ग्रेड)
पेताह, पुलिस स्टेशन, तिरुवनंतपुरम
केरल

श्री आर.एस. जॉन
हेड कांस्टेबल (ग्रेड)
वीएसीबी विशेष प्रकोष्ठ, मैडिकल कॉलेज,
पीओ तिरुवनंतपुरम, केरल

श्री टी ए अजित कुमार
हेड कांस्टेबल (ग्रेड)
वीएसीबी दक्षिण रेंज, तिरुवनंतपुरम
केरल

श्री राजेश गुप्ता
उप महानिरीक्षक
आसूचना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री संजीव शर्मा
उप महानिरीक्षक
एस.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री वेद प्रकाश शर्मा
उप महानिरीक्षक
रतलाम रेंज, रतलाम
मध्य प्रदेश

श्री अनंत कुमार सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक
एसएएफ रेंज, ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री संजय तिवारी
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के एडीसी
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री दीपक वर्मा
पुलिस अधीक्षक (रेलवे)
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री भागवत सिंह चौहान
पुलिस अधीक्षक
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश

श्री लखन लाल उप पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, जबलपुर मुख्यालय मध्य प्रदेश	श्री विवेक परांजपे सूबेदार (एम) विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल मध्य प्रदेश
श्री देव प्रकाश गुप्ता उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज, मुरैना मध्य प्रदेश	डॉ. सुखविंदर सिंह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एटीएस, मुंबई महाराष्ट्र
श्री बक्शीश सिंह भुल्लर निरीक्षक एस.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल मध्य प्रदेश	श्री विनीत अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केन्द्रीय, क्षेत्र, मुंबई शहर महाराष्ट्र
श्री मनोज कुमार रत्नाकर निरीक्षक पुलिस स्टेशन टिगरा, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश	श्री रामचंद्र बाबू केंडे सहायक कमांडेंट एसआरपीएफ प्रशिक्षण केन्द्र, ननवीज, दौण्ड, महाराष्ट्र
श्री परवेज अनवर खान कंपनी कमांडर 13 वीं बटालियन एसएएफ, ग्वालियर मध्य प्रदेश	श्री शांताराम तुकाराम तायडे पुलिस निरीक्षक पुणे शहर महाराष्ट्र
श्री खोगराज शर्मा हेड कांस्टेबल एमटी, रेडियो हेडक्वार्टर, भोपाल मध्य प्रदेश	श्री रमेश पदमनाभ महाले पुलिस निरीक्षक डीसीबी, सीआईडी, मुंबई शहर महाराष्ट्र
श्री चंद्र प्रकाश चौबे हेड कांस्टेबल 32 वीं बटालियन एसएएफ, उज्जैन मध्य प्रदेश	श्री रमेश जयतिर्थ पंढरपूर पुलिस निरीक्षक सीआईडी, एमएस पुणे महाराष्ट्र
श्री राकेश मोहन दीक्षित निरीक्षक (एम) पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, ग्वालियर अंचल, मध्य प्रदेश	श्री सुनील लक्ष्मण दरेकर पुलिस निरीक्षक यातायात नियंत्रण, पुणे शहर महाराष्ट्र

श्री बाजीराव राजाराम भोसले
पुलिस निरीक्षक
भद्रकाली पुलिस स्टेशन नासिक शहर
महाराष्ट्र

श्री सुरेश तुकाराम मालवदकर
पुलिस निरीक्षक वॉयरलेस
वॉयरलेस ट्रेनिंग केन्द्र, पुणे
महाराष्ट्र

श्री विलास बालकू गंगावणे
पुलिस निरीक्षक
डीसीबी, सीआईडी, मुंबई
महाराष्ट्र

श्री संजय आनन्द ताठे
पुलिस निरीक्षक
एसीबी, पुणे
महाराष्ट्र

श्री दिनेश मनोहर कटके
पुलिस निरीक्षक
एसीबी, मुंबई
महाराष्ट्र

श्री राजेंद्र वसंत गलांडे
पुलिस निरीक्षक
एसीबी, मुंबई
महाराष्ट्र

श्री दिनेश परशुराम कदम
पुलिस निरीक्षक
एटीएस मुंबई
महाराष्ट्र

श्री प्रल्हाद निवृत्ती खाडे
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक
एसआरपीएफ जीआर-11, नवी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री सतीश रघुवीर गोवेकर
पुलिस निरीक्षक
सीपी. कार्यालय पुणे शहर
महाराष्ट्र

श्री सोमनाथ रामचंद्र शेटकर
सहायक पुलिस निरीक्षक
एस.बी.(II) सीआईडी, मुंबई शहर
महाराष्ट्र

श्री अहमदखान शहजादेखान पठाण
सशस्त्र सहायक उपनिरीक्षक
एसआरपीएफ जीआर VI, धुले
महाराष्ट्र

श्री दत्तात्रय धोंडीराम पोवार
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
कुरुन्डवाड पुलिस स्टे. कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री भास्कर भिमाजी आव्हाड
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
डीसीबी सीआईडी, मुंबई शहर
महाराष्ट्र

श्री शिवराम नरसिंगराव गुरुतवाड
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
एसीबी, नांदेड
महाराष्ट्र

श्री ईश्वर वैजू चिमणे
सशस्त्र सहायक उपनिरीक्षक
एसआरपीएफ. जीआर .XI, नवी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री श्रीपतराव मासू गोरुले
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
अग्नीपाडा पुलिस स्टे. मुंबई शहर
महाराष्ट्र

श्री अनिल नारायण जाधव
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
गोरेगांव पुलिस स्टेशन मुंबई शहर
महाराष्ट्र

श्री सयाजी भिवा तांदलेकर
सशस्त्र सहायक उपनिरीक्षक
एसआरपीएफ जीआर.VIII, मुंबई
महाराष्ट्र

श्री रमेश बाबूराव बर्गे
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुणे
महाराष्ट्र

रामदास मोतीराम देवरे
पुलिस हेड कांस्टेबल
स्थानीय अपराध शाखा, नंदुरबार
महाराष्ट्र

श्री धर्मराज दत्तात्रय भोईर
पुलिस हेड कांस्टेबल
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रायगढ़
महाराष्ट्र

श्री आनंदा शंकर दावणे
पुलिस हेड कांस्टेबल
एन एम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन. मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री चंदु खंडु पाचारणे
सशस्त्र पुलिस हेड कांस्टेबल
एसआरपीएफ, जीआर.II, पुणे
महाराष्ट्र

श्री प्रफुल मधुकर पाटील
पुलिस हेड कांस्टेबल
डीसीबी सीआईडी, मुंबई शहर
महाराष्ट्र

श्री मज़हर सफदर शेख
पुलिस हेड कांस्टेबल
पीसीआर धुले
महाराष्ट्र

श्री सुनिल चंद्रकांत गोंधली
पुलिस हेड कांस्टेबल
एसीबी, रायगढ़
महाराष्ट्र

श्री नासीरखान मिरसाहेब पठाण
पुलिस हेड कांस्टेबल
करवीर पुलिस स्टेशन, कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री थियांगलीमा पचांड
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय इम्फाल
मणिपुर

श्री राघव रमेशन
हवलदार
5 वीं आईआरबी, थिन्गुचीन्गजिन, इम्फाल पूर्व जिला,
मणिपुर

श्री अरामबम लोकेन्द्रो सिंह
हवलदार
5 वीं आईआरबी, थिन्गुचीन्गजिन, इम्फाल पूर्व जिला,
मणिपुर

श्री शींगम ईनाउचा सिंह
हवलदार
एमपीटीसी, पनगेई आई/ई पीओ पनगेई
मणिपुर

श्री सेमीनार एस. किंजीग
प्रधानाचार्य
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, शिलांग
मेघालय

श्री हरीमोहन हजुअरीया
कंपनी हवलदार मेजर
। एमएलपी, ट्रेनिंग सेंटर
मेघालय

श्री एच. रामथलेगलियाना
कमाण्डेंट
2 आईआरबी, खावजवाल,
मिजोरम

श्री लालरिनथंगा रालते
निरीक्षक
सीआईडी एसबी
मिजोरम

श्री लिमतुन्गरी थेंचमो लोथा
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय कोहिमा
नागालैंड

श्री राधा किशन शर्मा
उप पुलिस महानिरीक्षक
दक्षिणी रेंज, बेरहमपुर
उड़ीसा

श्रीमती रितु अरोडा
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
भुवनेश्वर, कटक
उड़ीसा

श्री सौमेन्द्र कुमार प्रियदर्शी
उप पुलिस महानिरीक्षक
एसडब्ल्यूआर, कोरापुट
उड़ीसा

श्री अक्षय कुमार साहू
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
सतर्कता प्रभाग, संबलपुर
उड़ीसा

श्री गुरुदास कुन्डू
उप अधीक्षक, पुलिस
डीपीओ, कटक
उड़ीसा

श्री निर्मल कुमार सतपथी
सहायक पुलिस आयुक्त
ओएसएपी, 7 बटालियन भुवनेश्वर
उड़ीसा

श्री रघुनाथ बेहरा
हवलदार मेजर
ओएस एपी, 4 बी एन .राउरकेला
उड़ीसा

श्री निरंजन भोल
कांस्टेबल
राज्य एचआरपीसी, कटक
उड़ीसा

श्री वरिन्द्र कुमार
उप पुलिस महानिरीक्षक
जालंधर
पंजाब

श्री नरेश कुमार
उप पुलिस महानिरीक्षक
आसूचना-1, चंडीगढ़
पंजाब

श्री परमराज सिंह ऊमरानंगल
उप पुलिस महानिरीक्षक
लुधियाना
पंजाब

श्री हरिन्द्र सिंह चहल
उप पुलिस महानिरीक्षक
फिरोजपुर
पंजाब

श्रीमती अनीता पुंज उप निदेशक एस वी पी, एनपीए, हैदराबाद पंजाब	श्री सतपाल सिंह निरीक्षक 4वीं आईआरबी, कपूरथला पंजाब
श्री अनंनया गौतम उप पुलिस महानिरीक्षक आसूचना-II, चंडीगढ़ पंजाब	श्री जगदेव सिंह निरीक्षक (एलआर) सतर्कता ब्यूरो एफएस-II पटियाला पंजाब
श्री राम सिंह उप पुलिस महानिरीक्षक सीमा रेंज, अमृतसर पंजाब	श्री दीपक मलिक उप निरीक्षक सीआईडी /मुख्यालय, चंडीगढ़ पंजाब
श्री बी चन्द्र शेखर उप पुलिस महानिरीक्षक सीआईएसएफ, नीसा, हैदराबाद पंजाब	श्री शिवदेव सिंह हेड कांस्टेबल डीपीओ रूपनगर पंजाब
श्री सतिन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और सुरक्षा, जालंधर पंजाब	श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव उप पुलिस महानिरीक्षक आतंकवादी रोधी दस्ता, जयपुर, राजस्थान
श्री जतिन्द्र सिंह औलख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूपनगर पंजाब	श्री अशोक कुमार राठौड उप पुलिस महानिरीक्षक सशस्त्र-बटालियनों I, जयपुर, राजस्थान
श्री मुकंद सिंह मल्ली पुलिस अधीक्षक डीजीपी के स्टाफ अधिकारी, चंडीगढ़ पंजाब	डॉ (श्रीमती) मालिनी अग्रवाल उप पुलिस महानिरीक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण, नगरपालिका निगम और एम डी, जयपुर, राजस्थान
श्री सुमन कुमार उप पुलिस अधीक्षक पीपीए, फिल्लौर पंजाब	श्री हरि राम गहलोत उप पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर शहर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

श्री कैलाश चन्द्र चौहान
उप पुलिस अधीक्षक
सीआईडी (एसएसबी), सीएम सुरक्षा, जयपुर,
राजस्थान

श्री राम सिंह चारण
पुलिस निरीक्षक
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर
राजस्थान

श्री गोप सिंह
सब इंस्पेक्टर
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय जिला जालोर
राजस्थान

श्री रोहिणी रमन धाभाई
सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)
पुलिस टेली कम्युनिकेशन, जयपुर,
राजस्थान

श्री दुली चंद
हेड कांस्टेबल
5 वीं बटालियन, आरएसी, जयपुर,
राजस्थान

श्री चैना राम सुथार
हेड कांस्टेबल
1 बटालियन, आरएसी जोधपुर,
राजस्थान

श्री नरेन्द्र सिंह
हेड कांस्टेबल
जीआरपी लाइन, अजमेर,
राजस्थान

श्री शरफुद्दीन खान
हेड कांस्टेबल
एसपी का कार्यालय, जिला करौली
राजस्थान

श्री कैलाश चन्द्र
हेड कांस्टेबल
सीआईडी (सीबी), जयपुर
राजस्थान

श्री प्रीतम सिंह
हेड कांस्टेबल
5 वीं बटालियन आरएसी, जयपुर
राजस्थान

श्री गिरधारी लाल जाट
कांस्टेबल
उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
सर्कल कार्यालय नावलगढ़, जिला झुनझुनु
राजस्थान

श्री सूजा राम वर्मा
कांस्टेबल
सी आई डी (सीबी), जयपुर,
राजस्थान

श्री चन्द्र पाल गुरूंग
सब इंस्पेक्टर
रिजर्व लाइन
सिक्किम

श्री पी सी ललवम सांगा
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
तटीय सुरक्षा समूह, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री एस निजामुद्दीन
पुलिस अधीक्षक
त्रिची जिला
तमिलनाडु

श्री बी सुब्रामण्यम
पुलिस अधीक्षक
वीडियो पैरसी सेल, सीबी सीआईडी, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री एफ एम हुसैन
पुलिस अधीक्षक
तमिलनाडु कमांडो स्कूल, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री एस अब्दुल कानी
कमाण्डेंट
तमिलनाडु विशेष पुलिस X बटालियन, उलूनडूरपेट
तमिलनाडु

श्री एस सुब्बैया
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
विशेष जांच प्रकोष्ठ, वी और एसी, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री आर मोहन
उप पुलिस अधीक्षक
विशेष शाखा सीआईडी, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री पी. नाचीमुथू
सहायक कमांडेंट
XIV बटालियन, पलानी
तमिलनाडु

श्री एस मारकथा सुन्दरम
उप पुलिस अधीक्षक
क्यू शाखा, सीआईडी, मदुरै
तमिलनाडु

श्री के.एन मुरली
सहायक पुलिस आयुक्त
थोराईपक्कम रेंज, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री के. पेरियासामी
उप पुलिस अधीक्षक
सीसीआईडब्ल्यू, सीआईडी, सेलम
तमिलनाडु

श्री आर. रंगराजन
उप पुलिस अधीक्षक
वी एण्ड एसी, तंजावुर
तमिलनाडु

श्री पी. बालासुब्रमणियन
उप पुलिस अधीक्षक
वी एण्ड एसी, थेनी,
तमिलनाडु

श्री आर कृष्णासामी
उप पुलिस अधीक्षक
वी एण्ड एसी, वेल्लोर
तमिलनाडु

श्री सी. पंचतचारम
पुलिस निरीक्षक
तमिलनाडु कमांडो स्कूल, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री के. सबरीनाथन
पुलिस उप निरीक्षक
केन्द्रीय जांच इकाई, पुलिस महानिरीक्षक
प्रवर्तन का कार्यालय, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री एन अरुमुगम
पुलिस उप निरीक्षक
सशस्त्र रिजर्व, शिवगंगा जिला
तमिलनाडु

श्री ए. मोहन
पुलिस के विशेष उप निरीक्षक
तमिलनाडु कमांडो स्कूल, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री के. कादरखान
हेड कांस्टेबल
विशेष कार्य बल, इरोड,
तमिलनाडु

श्री नित्यानन्द देबनाथ
उप पुलिस अधीक्षक (डीआईबी)
अगरतला, जिला पश्चिम त्रिपुरा
त्रिपुरा

श्री जय प्रकाश यादव
नायब सूबेदार (जी डी)
मुख्यालय 1 बटालियन टीएसआर गोकुलनगर,
पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा

श्री राखाल चन्द्र चौधरी
उप निरीक्षक(यूबी)
(एस.बी) मुख्यालय, अगरतला
त्रिपुरा

श्री प्रीतीश भट्टाचार्य
पुलिस निरीक्षक
पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) का कार्यालय, अगरतला
त्रिपुरा

श्री ध्रुव कान्त ठाकुर
उप पुलिस महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री प्रकाश डी
उप पुलिस महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
बरेली
उत्तर प्रदेश

श्री जय नारायण सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मेरठ
उत्तर प्रदेश

श्री मुथा अशोक जैन
उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश

श्री राज कुमार
उप पुलिस महानिरीक्षक
आजमगढ़ रेंज, आजमगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री दीपक कुमार भट्ट
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
इलाहाबाद पुलिस मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

कु. साधना गोस्वामी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री करन सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
पी टी एस मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री चन्द्रिका प्रसाद
उप पुलिस अधीक्षक
एल आई यू - जिला गोरखपुर
उत्तर प्रदेश

श्री अविनाश चन्द्र पाण्डेय
उप पुलिस अधीक्षक
आसूचना मुख्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री जयदेव सिंह तोमर
उप पुलिस अधीक्षक
जिला फतेहपुर,
उत्तर प्रदेश

श्री धरम सिंह मार्शल
उप पुलिस अधीक्षक
जिला-वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री राम किशन मगन
उप पुलिस अधीक्षक
पीसीएल कानपुर
उत्तर प्रदेश

श्री जनार्दन तिवारी
उप पुलिस अधीक्षक
जिला इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री विजय कपिल
उप पुलिस अधीक्षक एल आई यू
जिला आगरा
उत्तर प्रदेश

श्री सतीश कुमार सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
जिला-एटा
उत्तर प्रदेश

श्री चन्द्र पाल शर्मा
राज्य रेडियो अधिकारी
लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री घिराऊ ओझा
कांस्टेबल
सशस्त्र पुलिस, पुलिस लाइन देवरिया
उत्तर प्रदेश

श्री शाहनेवाज
प्लाटून कमांडर
39 बटालियन पीएसी, मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

श्री सुधीर कुमार पाण्डेय
निरीक्षक
विशेष जांच दल, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री कालू राम
निरीक्षक
सिविल पुलिस ई ओ डब्ल्यू, मेरठ
उत्तर प्रदेश

श्री कुंवर पाल सिंह
हेड कांस्टेबल (पी)/ आईटीआई
डॉ. बी आर ए पुलिस अकादमी, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री राम सनेही
हेड कांस्टेबल
सशस्त्र पुलिस, पुलिस लाइन, रामबाईनगर
उत्तर प्रदेश

श्री नन्द लाल सिंह
कांस्टेबल/ ड्राइवर
जिला जौनपुर,
उत्तर प्रदेश

श्री सिराज अहमद
कांस्टेबल
जिला-आजमगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री बृज राज सिंह
कांस्टेबल
सिविल पुलिस, जिला- कन्नौज
उत्तर प्रदेश

श्री सदरे आलम
उप निरीक्षक (एमटी)
34 बटालियन पीएसी, वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री भगवती प्रसाद खण्डूरी
उप निरीक्षक (एम)
सीबी सीआईडी, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री रामशब्द पाण्डेय उप निरीक्षक सिविल पुलिस, जिला-इटावा, उत्तर प्रदेश	श्री रमेश चन्द्र जोशी उप पुलिस अधीक्षक एटीसी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड
श्री भरत राज सिंह उप निरीक्षक सिविल पुलिस, जिला- फैजाबाद उत्तर प्रदेश	श्री राम कल्याण अधिकारी विशेष महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सीआईडी, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री ओम प्रकाश मिश्रा उप निरीक्षक (एम)/स्टेनो आसूचना मुख्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश	श्री शशिकान्त पुजारी उप पुलिस महानिरीक्षक मालदा रेंज, पीओ- बेलतला पार्क, बेलूरघाट, जिला दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल
श्री वीरेन्द्र कुमार निरीक्षक सिविल पुलिस, जिला-लखनऊ उत्तर प्रदेश	श्री उत्सव कुमार मौलिक सहायक पुलिस आयुक्त रिजर्व बल-18, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री राजमणि मिश्रा कांस्टेबल सिविल पुलिस, जिला-रायबरेली उत्तर प्रदेश	श्री विश्वनाथ सारखल पुलिस निरीक्षक सतर्कता आयोग, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री कुमार विश्वजीत उप पुलिस महानिरीक्षक (पी० और एम०) पुलिस मुख्यालय देहरादून उत्तराखण्ड	श्री बिद्युत कुमार राय पुलिस निरीक्षक यातायात विभाग, साउथ डिवीजन, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री दीपम सेठ उप पुलिस महानिरीक्षक/अपर सचिव. गृह एवं मुख्यमंत्री के अपर सचिव सचिवालय एनेक्सी, देहरादून उत्तराखण्ड	श्री चन्द्रिका प्रसाद ओझा पुलिस सूबेदार 6 बटालियन केएपीबीजी लाइन, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री पूरन सिंह रावत पुलिस अधीक्षक जिला- अल्मोड़ा उत्तराखण्ड	श्री तपन कान्ती घोश पुलिस उप निरीक्षक आईबी, कोलकाता पश्चिम बंगाल

श्री पार्थ प्रतीम गुहा
उप निरीक्षक
पीटीसी, बैरकपुर
पश्चिम बंगाल

श्री जयंत चंदा
उप निरीक्षक
सीआईडी,
पश्चिम बंगाल

श्री स्वपन कुमार पाल
उप निरीक्षक (यूबी)
इबी, अलीपुर, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री प्रदीप सिंह दमाई
पुलिस इन्स्पेक्टर
पीटीसी, बैरकपुर
पश्चिम बंगाल

श्री प्रशान्त धारा
कांस्टेबल
पीटीसी, बैरकपुर
पश्चिम बंगाल

श्री राम चन्द्र रजक
कांस्टेबल
यातायात शाखा मुख्यालय
पश्चिम बंगाल

श्री बिसवदेब मजुमदार
कांस्टेबल
आईबी, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री आशुतोष चक्रवर्ती
कांस्टेबल
यातायात (एस), सीआईडी,
पश्चिम बंगाल

श्री मनोरंजन सोरेन
कांस्टेबल
यातायात (एस) सी आई डी
पश्चिम बंगाल

श्री राधेश्याम माइती
कांस्टेबल
डीएपी बांकुरा
पश्चिम बंगाल

श्री दीपांकर चक्रवर्ती
सहायक उप निरीक्षक (स्थानापन्न)
डीएपी (मुख्यालय)
पश्चिम बंगाल

श्री महादेव वर
सहायक पुलिस उप निरीक्षक (यूबी)
दूरसंचार मुख्यालय, 3 माणिक बंदोपाध्याय सरणी,
टॉलीगंज, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री सोलेस केस
उप निरीक्षक
सीमा चौकी, किशोरी नगर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

श्री रमेशसिंह मोहनसिंह चौहाण
पुलिस उप निरीक्षक
पिपरिया सीमा चौकी
दादरा और नगर हवेली

श्री मोहनलाल रामभाई रोहित
पुलिस निरीक्षक
प्रभारी यातायात प्रकोष्ठ,
दमन और दीव

डॉ. वी.जे. चंद्रन
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट
आई आर बटालियन मुख्यालय, न.2, दुमास स्ट्रीट,
पुडुचेरी

श्री अधीमूलम गुनाशेगरन
उप राज्यपाल के एडीसी/पुलिस अधीक्षक
उप राज्यपाल सचिवालय, राज निवास,
पुडुचेरी

डॉ. हीरा सिंह मातोलिया
निदेशक (चिकित्सा)
बल मुख्यालय, शिलांग
असम राइफल्स

श्री शशिधरन ए वी
सूबेदार मेजर (क्लर्क)
बल मुख्यालय, शिलांग
असम राइफल्स

श्री रमेश चन्द्रा
सूबेदार मेजर,
4 असम राइफल्स, सेरचिप, मिजोरम
मार्फत 99 एपीओ, असम राइफल्स

श्री राजेन्द्र प्रसाद गौड
नायब सूबेदार (सामान्य इयूटी)
6 असम राइफल्स मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री बची सिंह
सूबेदार मेजर
सोमसई, 17 असम राइफल्स मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री गजेन्द्र सिंह
नायब सूबेदार (सामान्य इयूटी)
केथलमनबी (मणिपुर), 28 असम राइफल्स,
मार्फत 99 एपीओ, असम राइफल्स

श्री बल बहादुर थापा
नायब सूबेदार (सामान्य इयूटी)
केथलमनबी (मणिपुर) 28 असम राइफल्स,
मार्फत 99 एपीओ, असम राइफल्स

श्री दीना नाथ
सूबेदार
विष्णुपुर (मणिपुर) 33 असम राइफल्स, मार्फत 99 ए पी ओ
असम राइफल्स

श्री षष्ठी बल्लभ भट्ट
नायब सूबेदार(क्लर्क)
एल ओ ए आर, दिल्ली
असम राइफल्स

श्री लोकानन्द जोशी
नायब सूबेदार (क्लर्क)
मुख्यालय, 26 सेक्टर, असम राइफल्स, मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री सफदर इमाम
हवलदार (क्लर्क)
कम्पोजिट अस्पताल, सोखुवी,
पीओ-दीमापुर (नागालैंड)
असम राइफल्स

श्री इंगर सिंह विजेता
हवलदार
एफएचक्यू, शिलांग
असम राइफल्स

डॉ. कृष्ण दत्ता शर्मा
महानिरीक्षक (चिकित्सा)
सीएच. कदमताला, पीओ-सिलीगुड़ी, जिला,
दार्जिलिंग, (पश्चिम बंगाल) सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा
उपमहानिरीक्षक (कल्याण)
प्रशासनिक निदेशालय, एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री महेन्द्र पाल सिंह खुराना
उपमहानिरीक्षक
एएम एफटीआर, पीओ-उमपलिंग, शिलांग
सीमा सुरक्षा बल

श्री परविन्दर सिंह बैस उपमहानिरीक्षक एसएचक्यू, गुरदासपुर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल	श्री सन्त सिंह चौहान उप कमांडेंट 122 बटालियन पलौरा कैम्प, जम्मू सीमा सुरक्षा बल
श्री इन्द्रधूमन शर्मा उप महानिरीक्षक बीएसएफ, अकादमी टेकनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश सीमा सुरक्षा बल	श्री जमन सिंह उप कमांडेंट 182 बटालियन मार्फत 56 ए पी ओ सीमा सुरक्षा बल
श्री मौहम्मद फरीद खान उप महानिरीक्षक एफटीआर मुख्यालय, मालदा, गाँव-अराधपुर, पीओ-नारायणपुर, (पश्चिम बंगाल) सीमा सुरक्षा बल	श्री पारथा साराथि लाहिरी उप कमांडेंट एसएचक्यू, कोलकाता पोस्ट आलम बाजार, पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा बल
श्री अंजमल सिंह कठात उप महानिरीक्षक एसएचक्यू बेहरमपुर, पीओ-रोशनबाग, जिला, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) सीमा सुरक्षा बल	श्री डम्बर सिंह गुरँग उप कमांडेंट 126 बटालियन, कोलकाता सीमा सुरक्षा बल
श्री वीरेन्द्र कुमार उप महानिरीक्षक एसएचक्यू, भुज, कच्छ, गुजरात सीमा सुरक्षा बल	श्री राजेन्द्र बहादुर मिश्रा उप कमांडेंट 35 बटालियन धनखरे, पीओ-नई तुरा, जिला पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय सीमा सुरक्षा बल
श्री सुनील कुमार त्यागी उप महानिरीक्षक मुख्यालय, महानिरीक्षक (विशेष ऑप्स), नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल	श्री बलवीर सिंह संधु उप कमांडेंट /ईई (सिविल) ए एम, एफटीआर, पीओ-उमपलिंग, शिलांग, मेघालय सीमा सुरक्षा बल
श्री उमेश कुमार नयाल उप महानिरीक्षक एसएचक्यू, मालदा, पोस्ट नारायणपुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा बल	श्री सतपाल डोगरा सहायक कमांडेंट 182 बटालियन, मार्फत 56 एपीओ सीमा सुरक्षा बल
श्री बालकृष्ण टोकस सेकण्ड इन कमाण्ड एसएचक्यू, पलौरा कैम्प, जम्मू सीमा सुरक्षा बल	श्री सुरेन्द्र सिंह रौतेला सहायक कमांडेंट 2 बटालियन पंथाचौक, श्रीनगर सीमा सुरक्षा बल

श्री सुधाकरन सी.के
सहायक कमांडेंट
118 बटालियन पीओ-धर्मानगर, पानीसागर, त्रिपुरा
सीमा सुरक्षा बल

श्री अलेक्स कोचुकोशि
सहायक कमांडेंट
एफटीआर मुख्यालय, एम एंड सी, मसीमपुर,
पीओ-अरूणाचल, जिला, कछार, असम
सीमा सुरक्षा बल

श्री सतविर सिंह शर्मा
सहायक कमांडेंट
8 बटालियन, पीओ-भोंडसी, जिला, गुडगांव
सीमा सुरक्षा बल

श्री कडबा वेंकटाचलपति श्रीधरा
सहायक कमांडेंट पी एस /
मुख्यालय महानिरीक्षक (विशेष ऑप्स), नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री अशोक कुमार पेशिन
सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय)
मुख्यालय महानिरीक्षक (विशेष ऑप्स), नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुधीर कुमार मिश्रा
सहायक कमांडेंट
25 बटालियन, एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री माहा सिंह
निरीक्षक
60 बटालियन, पीओ-रोहनबाग, जिला मुर्शिदाबाद
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजवीर सिंह
निरीक्षक
सीएसडब्ल्यूटी, इंदौर (म. प्र.)
सीमा सुरक्षा बल

श्री एस रंगानाथन
निरीक्षक
82 बटालियन, पीओ-कराहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक
सीमा सुरक्षा बल

श्री चन्द्र सिंह
निरीक्षक
137 बटालियन, पीओ-नागौर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री राम सिंह
निरीक्षक
161 बटालियन, बाइमेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री मीर बाक्स खान
निरीक्षक
59 बटालियन, पीओ-पैंथी, साम्बा, जम्मू और कश्मीर
सीमा सुरक्षा बल

श्री रान सिंह
निरीक्षक
वैयक्तिक निदेशालय, एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री राम चन्द्र यादव
निरीक्षक (अनुसचिवीय)
प्रशिक्षण निदेशालय, एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री अरक्कल चाको जोस
निरीक्षक / पीए
एफएचक्यू, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री अरुन कुमार मिश्रा
निरीक्षक/ फार्मासिस्ट
एफएचक्यू, अस्पताल-II, टिगरी, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुबे सिंह उप-निरीक्षक उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) एफ एच क्यू, नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल	श्री रनबीर सिंह कांस्टेबल /स्वीपर 61 बटालियन, खसीयामंगल तिलियामोरा, दक्षिण त्रिपुरा सीमा सुरक्षा बल
श्री शमशेर सिंह उप-निरीक्षक 54 बटालियन, जैसलमेर, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल	डॉ. विनय भारती उपमहानिरीक्षक (चिकित्सा अधीक्षक) सीएच बीएसएफ, जोधपुर, पीओ-बीएसएफ परिसर, जिला जोधपुर, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल
श्री महेन्द्र कुमार उप-निरीक्षक 182 बटालियन मापत 56 एपीओ सीमा सुरक्षा बल	श्री एस सुरेश उप पुलिस महानिरीक्षक एसीबी जयपुर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
श्री ओम प्रकाश उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) 98 बटालियन, पीओ- माफत, शिलांग सीमा सुरक्षा बल	श्री पी एस सालुंके उप पुलिस महानिरीक्षक एसीबी मुंबई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
श्री के माधवन पिल्लै उप निरीक्षक/गूढलेख 126 बटालियन मोहनपुर, जिला, नादिया (पश्चिम बंगाल) सीमा सुरक्षा बल	श्री जी नागेश्वरा राव उप पुलिस महानिरीक्षक एसीबी विशाखापट्टनम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
श्री नारायण सिंह उप निरीक्षक (फिटर) एफटीआर मुख्यालय, एम एंड सी, मासीमपुर, जिला-कछार (असम) सीमा सुरक्षा बल	श्री दीपक कुमार कबि उप पुलिस अधीक्षक, राउरकेला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
श्री फकिर हुसैन हेड कांस्टेबल 161 बटालियन, जलीपा, बाडमेर (राजस्थान) सीमा सुरक्षा बल	श्री आशीष कुमार उप पुलिस अधीक्षक, एएचडी रांची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
श्री धान सिंह कांस्टेबल /डब्ल्यूसी हजारीबाग, टीसी एंड एस, मेरु, झारखंड सीमा सुरक्षा बल	श्री पार्था मुखर्जी उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी कोलकाता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एम. सुन्दरवेल
पुलिस निरीक्षक
एस यू चेन्नई
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री प्रभंजन चक्रवर्ती
पुलिस निरीक्षक
एसीबी पटना
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्रीमती चंदा रानी
पुलिस निरीक्षक
बीएस एंड एफसी बंगलूर
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री ईश्वर सिंह
पुलिस उप निरीक्षक
ईओ-1 नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अजीत सिंह
पुलिस उप निरीक्षक
ईवो-111 नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री कैलाश शिवन्ना बोरे
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
एसीबी नागपुर
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अमर सिंह
हेड कांस्टेबल
एस. सी 11, नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री नरेश कुमार
हेड कांस्टेबल
एस यू दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

मोहम्मद महमूद अली खान
हेड कांस्टेबल
सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री त्रिभुवन शंकर
कांस्टेबल
एसीबी, देहरादून
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अजित नारायण महापात्र
उप महानिरीक्षक
ए पी एस (ई एंड एन ई) हेडक्वाटर कोलकाता
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री होनगुथि हनुमंतप्पा
सीनियर कमाण्डेन्ट
बीडीएल कंचनबाग
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री कृष्ण कान्त श्रीवास्तव
निरीक्षक
ए एस जी बंगलूर
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गोपाल कृष्णन नायर
निरीक्षक
एनआईएसए, हैदराबाद
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सुनील कुमार सिंह
निरीक्षक
लखनऊ हवाई अड्डा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बिरेन्द्र नाथ जाना
सहायक उप निरीक्षक,
यूनिट डीएसपी दुर्गापुर, जिला, बर्दवान (पश्चिम बंगाल)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री के. कन्नन
उप निरीक्षक,
वी एस पी, विशाखापत्तनम
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एस रविन्द्रन
सहायक उप निरीक्षक,
एन एच पी सी, सुबांसरी
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव
सहायक उप निरीक्षक,
यूनिट बीएसपी भिलाई, सेक्टर 1, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गुरदेव सिंह
हेड कांस्टेबल
एनएफसी, हैदराबाद
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री हकुम चन्द चौहान
हेड कांस्टेबल
आईएसपी बर्नपुर, बर्दवान (पश्चिम बंगाल)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री के सांता राम
हेड कांस्टेबल
आर टी सी अरक्कोणम, वेल्लोर जिला (तमिलनाडु)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री कमलाकर द्विवेदी
हेड कांस्टेबल
बीएसपी भिलाई, सेक्टर -1, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एम.एच. चालवेटकर
हेड कांस्टेबल
बैंगलूर हवाई अड्डे
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नारायणा श्रीधरन
हेड कांस्टेबल
हवाई अड्डा लखनऊ,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री आर रविन्द्रन पिल्लै
हेड कांस्टेबल
एनएफसी हैदराबाद
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राधे श्याम सैनी
हेड कांस्टेबल
ओएनजीसी, नाजीरा जिला - शिवसागर, असम
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रामेश्वर सिंह
हेड कांस्टेबल
आईएसपी बर्नपुर, बर्दवान (पश्चिम बंगाल)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अदिकन्दा डे
कांस्टेबल/स्वीपर
आरएसपी राउरकेला उडीसा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बी नागा रमेश
पुलिस महानिरीक्षक
विशेष सेक्टर, तेलीबंधा, रायपुर (छत्तीसगढ.)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री भानु प्रताप सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार सेक्टर,
पटना (बिहार) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जसबीर सिंह सन्धू
उप पुलिस महानिरीक्षक
ग्वालियर क्षेत्र मुख्यालय, नयागांव, ग्वालियर (म.प्र.)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राकेश सिंह चौहान
उप पुलिस महानिरीक्षक
आर टी सी, धरमपुर, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जयदीप मिश्र
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक (ऑप्स) का कार्यालय कश्मीर,
जीवन कैम्प-II, श्रीनगर (जम्मू एण्ड कश्मीर)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री राजीव कुमार शर्मा
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, आरएएफ, नई दिल्ली
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ. राजश्री नायक,
उप पुलिस महानिरीक्षक (चिकित्सा)
कम्पोजिट अस्पताल, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री नीरज कुमार
कमाण्डेन्ट
101 बटालियन, आरएएफ, शांति पुरम, पीओ-फाफामऊ,
जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री संदीप यादव
कमाण्डेन्ट
111 बटालियन, कर्ली, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़.)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दर्शन लाल गोला
कमाण्डेन्ट
91 बटालियन, सेक्टर जी, आशियाना, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राजीव रंजन कुमार
कमाण्डेन्ट
उपपुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, सी विंग, केंद्रीय सदन,
सीवीडी बेलापुर, नवी मुंबई
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
कमाण्डेन्ट
आर टी सी, हमहमा, श्रीनगर (जम्मू एण्ड कश्मीर),
मार्फत 56 एपीओ
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
डॉ. पूर्णचन्द्र त्रिपाठी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजी)
कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ. सुरेन्द्र कुमार परिमल
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजी)
कम्पोजिट अस्पताल नीमच, (म.प्र.)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सरबजीत सिंह घुमन
सेकण्ड इन कमाण्ड
उप पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, गांधीनगर रेंज
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बिनय कुमार
सेकण्ड इन कमाण्ड
136 बटालियन, गांव-सरीयाथोली, मिलनपुर पीओ,
जिला, नलबाडी (असम)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रेशम सिंह
सेकण्ड इन कमाण्ड
उप पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,
चेन्नई रेंज, अवाडी, चेन्नई, (तमिलनाडु)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री लक्षमण केशव
उप कमांडेंट
55 बटालियन, बवाना नई दिल्ली
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री किशोर क्षेत्री
उप कमांडेंट
गुप सेंटर, झड़ोदा कला, नई दिल्ली
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रताप सिंह उप कमांडेंट 132 बटालियन, श्रीनगर, मार्फत 56 ए पी ओ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री उन्नी कृष्णन कल्लिंगल वरिष्ठ वैयक्तिक सचिव विशेष महानिदेशक का कार्यालय, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र जम्मू (जम्मू और कश्मीर) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री सुभाष चंद्र उप कमांडेंट 06 बटालियन, शिवशक्ति धर्म शाला, कटरा (जम्मू कश्मीर) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्रीमती. फिलोमिना बेबी सिस्टर इन-चार्ज कम्पोजिट अस्पताल, अजमेर (राजस्थान) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री सुरेश चन्द्र शर्मा सहायक कमांडेंट 120 बटालियन, तुरा (मेघालय) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	प्रभाष चन्द्र पाण्डे निरीक्षक 119 बटालियन, पुलिस परिसर, जोरहाट (असम) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री जगमाल सिंह सहायक कमांडेंट ग्रुप केन्द्र-II, अजमेर (राजस्थान) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री अनेसो सिंह निरीक्षक 180 बटालियन, ट्राल, जिला, पुलवामा (जम्मू व कश्मीर) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री शंभू दयाल सहायक कमांडेंट 70 बटालियन, बवाना दिल्ली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री सूरत सिंह निरीक्षक ग्रुप सेंटर, झफान, मुजफ्फरपुर (बिहार) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री के. शशीधरन संयुक्त सहायक निदेशक पीएओ, महावीर नगर नई दिल्ली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री अब्दुर रहमान चौधरी निरीक्षक ग्रुप सेंटर, गांधी नगर, गुजरात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री टी के शशिधरन अनुभाग अधिकारी संचार शाखा एफ एच क्यू, नई दिल्ली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री बाबूलाल यादव निरीक्षक / आरओ 3 सिगनल बटालियन, सेक्टर 5, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री शिबा पाडा सरकार प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप सेंटर, सिन्दरी, धनबाद (झारखंड) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री रतन सिंह शेखावत उप निरीक्षक 160 बटालियन, चैन्नई, हिम्मत, जम्मू (जम्मू कश्मीर) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बलराम राम

उप निरीक्षक

26 बटालियन, चास बोकारो झारखंड,

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हुकम सिंह

उप निरीक्षक

उप पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,

ग्रुप सेंटर बंगरसिया, भोपाल (मध्य प्रदेश)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरेन्दर सिंह

उप निरीक्षक

29 बटालियन, रावलपुरा, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर मा

(जम्मू एवं कश्मीर मार्फत 56 एपीओ)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बलकार सिंह

उप निरीक्षक/एमटी

151 बटालियन, प्रीत नगर जम्मू (जम्मू व कश्मीर)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशफी सिंह

उप निरीक्षक

35 बटालियन हमहामा, श्रीनगर, 56 ए पी ओ

(जम्मू एण्ड कश्मीर)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मणि मोहन शर्मा

उप निरीक्षक

120 बटालियन, तुरा (मेघालय)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दीनानाथ राम

उप निरीक्षक

101 बटालियन, आरएफ, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम नन्दन शर्मा

फार्मासिस्ट (ग्रेड-1)

कम्पोजिट अस्पताल, दयापुर, सिलचर, पीओ-उधारबंद,

जिला-कचर (आसाम)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अनंत राम

हेड कांस्टेबल

13 बटालियन, अमृतसर (पंजाब)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

मोहम्मद हाफिज खान

हेड कांस्टेबल

86 बटालियन, लम्फेलपट, इम्फाल (मणिपुर)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पी कनियप्पन

हेड कांस्टेबल

22 बटालियन, हजारीबाग, झारखंड,

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री समशेर सिंह

हेड कांस्टेबल

122 बटालियन, नई दिल्ली

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री तिलक सिंह

कांस्टेबल

उपपुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,

भर्नी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कमला प्रसाद

वाटर कैरिअर

2 बटालियन साबरी नगर, सुकमा दांतेवाडा, छत्तीसगढ़

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरी सिंह

कांस्टेबल /नाई

155 बटालियन, बोकाजन, कार्बी, आँगलॉग, असम

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अरविन्द कुमार

उप निदेशक

मुख्यालय, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री मनमीत सिंह नारंग
उप निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

डॉ श्रीमती प्रशाखा माथुर
उप निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री जग मोहन
उप निदेशक
देहरादून
गृह मंत्रालय

श्री ए. पी. भास्करन
सहायक निदेशक
चेन्नई
गृह मंत्रालय

श्री एस एस मूर्ती
सहायक निदेशक
बैंगलूर
गृह मंत्रालय

श्री दिलीप कुमार सिंह
सहायक निदेशक
भोपाल
गृह मंत्रालय

श्री सतीश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक
मेरठ
गृह मंत्रालय

श्री बाल कृष्ण
सहायक निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री शशि भूषण कुमार
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
पटना
गृह मंत्रालय

श्री अजिमेष कुमार त्रिपाठी
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
लखनऊ
गृह मंत्रालय

श्री एन प्रकाश राव
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी
हैदराबाद
गृह मंत्रालय

श्री रमेश कन्नन
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी
चेन्नई
गृह मंत्रालय

श्री सुभाष दास
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/डब्ल्यू टी
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री सुब्रातो पाल
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी
कोलकाता
गृह मंत्रालय

श्री जेड टी अंगामी
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी
कोहिमा
गृह मंत्रालय

श्री प्रदीप कुमार
सहायक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री बृज भूषण शर्मा
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/ जी
दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री अशोक ए शिन्दे
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/ जी
मुंबई
गृह मंत्रालय

श्री कुन्जअगस्ती पी.एम
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/एमटी
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री देविन्दर सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, मसूरी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

डॉ. श्रीमती. एस के. ढिल्लों
उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)
सी एच, चंडीगढ़
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री आनन्द पाल सिंह निम्बाडिया
कमाण्डेंट
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राजेन्द्र सिंह
उप कमाण्डेंट
एसएचक्यू, अमृतसर
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता
उप कमाण्डेंट (अभियन्ता)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, मसूरी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री प्रसिन्दा राम राणा
सूबेदार मेजर /स्टेनो
एसएचक्यू, अमृतसर
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सते सिंह
निरीक्षक / जीडी
8 वीं बटालियन, गौचर, जिला.-चमोली
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री गणेश दत्त
निरीक्षक / जीडी
42 बटालियन, करेरा (म.प्र.)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री छेरिंग मोरुप
कांस्टेबल / डब्ल्यूसी
एसएचक्यू, लद्दाख, मार्फत 56 एपीओ
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री हनुमन्त सिंह रावत
ग्रुप कमाण्डर
प्रशिक्षण, केन्द्र, मानेसर, गुडगांव
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्रीमती. शिखा गुप्ता
ग्रुप कमाण्डर
मुख्यालय सीआरओ, पालम, नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री सी.पी. विजयानन्दन
सहायक कमाण्डर 1
सीआरओ मुख्यालय, नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री रामफल
सीटीएम/ एस के
12 एसआरजी, मानेसर, गुडगांव
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री संजीव कुमार सिंघल
महानिरीक्षक
एफटीआर मुख्यालय, गुवाहाटी
सशस्त्र सीमा बल

श्री समीर करमाकर
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू मुख्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)
सशस्त्र सीमा बल

श्री हरदयाल सिंह गाडे
कमान्डेन्ट
4 बटालियन, टीएसी मुख्यालय, आकाशनगर
पीओ-बछेली, जिला-दांतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)
सशस्त्र सीमा बल

श्री दिलीप पॉल
क्षेत्र ऑर्गनाइजर
रंगिया कामरूप, असम
सशस्त्र सीमा बल

श्री जय सिंह
उप कमांडेंट
टीसी समसी, जिला. कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)
सशस्त्र सीमा बल

श्री रानू राम
सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय)
एफएचक्यू, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री भगवती प्रसाद गैरोला
उप क्षेत्र ऑर्गनाइजर
एसएसबी अकादमी श्रीनगर, गढ़वाल उत्तराखंड,
सशस्त्र सीमा बल

श्री नरमुनि सिंह
निजी सचिव
एफएचक्यू, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री जय सिंह
हेड कांस्टेबल
6 बटालियन, नानपारा, जिला. बहराइच (उत्तर प्रदेश)
सशस्त्र सीमा बल

श्री जगदीश सिंह
सहायक क्षेत्र अधिकारी (वीईटीवाई)
एफटीआर मुख्यालय, पटना, बिहार.
सशस्त्र सीमा बल

श्री पीयूष पाण्डेय
उप महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा दल

श्री नवनीत कुमार मेहता
सहायक महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा दल

श्री चमन सिंह
सुरक्षा अधिकारी - II (टी)
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा दल

श्री प्रदीप सिंह स्लाथिया
सुरक्षा अधिकारी-II (एमटी)
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा दल

श्री दिलीप सीएच बिस्वास
उप निरीक्षक
उमसा, उमयाम, मेघालय
पूर्वांतर पुलिस अकादमी

श्री भुपिन्दर सिंह राणा
उप प्रधानाचार्य
सीडीटीएस, चंडीगढ़,
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

डॉ. (श्रीमती) ऋता तिवारी
सांख्यिकी सहायक
एफ एच क्यू, नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री जगदीश लाल
स्टाफ कार ड्राइवर
एफ एच क्यू, नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री छत्रपाल सिंह नागरा
सहायक निदेशक
एफ एच क्यू, नई दिल्ली
पुलिस वॉयरलेस समन्वय निदेशालय

श्री वीरेन्द्र सिंह झाल
अधीक्षक
नई दिल्ली
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

श्री हरभजन सिंह
डेटा प्रोसेसिंग सहायक/ग्रेड बी
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री सतिंदर पाल सिंह
उप महानिरीक्षक
नई दिल्ली.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सुश्री. अनुपम कुलश्रेष्ठ
उप निदेशक
हैदराबाद,
एसवीपी एनपीए

श्री एस अरूल राज
ड्रिल अनुदेशक
हैदराबाद
एस वी पी एनपीए

श्री चाको वर्गोस
हेड कांस्टेबल (ड्राइवर)
हैदराबाद
एसवीपी एनपीए

श्री मिर्जा तहर बेग
सहायक सुरक्षा आयुक्त (सीए)
नागर विमानन ब्यूरो सुरक्षा, नई दिल्ली
नागर विमानन मंत्रालय

श्री विजय महादेव कांबले
हेड कांस्टेबल
नागर विमानन ब्यूरो, सुरक्षा, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई
नागर विमानन मंत्रालय

श्री बलबीर सिंह
हेड कांस्टेबल
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी

श्री राम चरण मीना
कमाण्डेन्ट
6 बटालियन, गांधीनगर, गुजरात
एनडीआरएफ

श्री देश राज शर्मा
सहायक कमांडेंट
7 वीं बटालियन, भटिंडा, पंजाब
एनडीआरएफ

श्री दुष्यंत सिंह
मुख्य सुरक्षा अधिकारी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री बाबा बैद्यनाथ मिश्र
उप महानिरीक्षक/ प्राचार्य
आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, मौला-अली, हैदराबाद
रेल मंत्रालय

श्री राम स्वार्थ प्रसाद
सहायक सुरक्षा आयुक्त
आरपीएफ, पश्चिम रेलवे, मुंबई
रेल मंत्रालय

श्री मुनिश्वर प्रसाद शर्मा
निरीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक एवं सीएससी
आरपीएफ कार्यालय एनसीआर/इलाहाबाद
रेल मंत्रालय
श्री जगन्नाथ विठ्ठल महाले
सहायक उप निरीक्षक अभियोजन
मुंबई सेंट्रल /पश्चिम रेलवे, आर पी एफ
रेल मंत्रालय

श्री आशीष शेन गुप्ता
निरीक्षक
आरपीएफ, पोस्ट, बोरा, न्यू जलपाईगुडी
रेल मंत्रालय

श्री एम एफ मोहिदीन
निरीक्षक
चेन्नई एगमोर, चेन्नई प्रभाग, दक्षिण रेलवे
रेल मंत्रालय

श्री राम प्रकाश पाण्डे
डाइवर (मास्टर क्राफ्टमैन)
रिजर्व लाइन, जबलपुर संभाग, आर पी एफ
रेल मंत्रालय

श्री इन्द्रमणि प्रसाद द्विवेदी
हेड कांस्टेबल
एसआईबी मुख्यालय जबलपुर संभाग, आर पी एफ
रेल मंत्रालय

श्री मल्लिकार्जुन
उप निरीक्षक
आर पी एफ, बैंगलूरु
रेल मंत्रालय

श्री फागू सिंह
निरीक्षक आरपीएफ/टीसी
एन ई रेलवे, गोरखपुर
रेल मंत्रालय

श्री महेन्द्र शर्मा
उप निरीक्षक/आरमोरर
10 बटालियन, आरपीएसएफ, धनबाद,
पीओ-धनबाद (झारखंड)
रेल मंत्रालय
श्री छोटे लाल
हेड कांस्टेबल
4 बटालियन, आरपीएसएफ पोस्ट, भक्तिनगर,
जिला-जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल)
रेल मंत्रालय

श्री वी नतेशन
हेड कांस्टेबल
5 वीं बटालियन, आर पी एस एफ, त्रिची
रेल मंत्रालय

श्री लक्ष्मीकान्त चौधरी
उप निरीक्षक
6 बटालियन, आरपीएसएफ, डीबीएसआई दिल्ली
रेल मंत्रालय

2. ये पदक सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करने हेतु विनियमित नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

दिनांक 15 मार्च 2011

सं. 39-प्रेज/2011--भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-I में शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 1996 को प्रकाशित इस सचिवालय की दिनांक 15 अगस्त, 1996 की अधिसूचना सं. 80-प्रेज/96 के तहत श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक, थाना प्रभारी चौकी, वापू धाम, चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ सरकार को सराहनीय सेवा के लिए दिये गये पुलिस पदक को एतद्वारा रद्द किया जाता है और पुलिस पदक को शासित करने वाले नियमों के नियम 8 के तहत उस पदक को जब्त किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय
दिनांक 14 मार्च, 2011

संकल्प

विषय: इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(2)/2011-डी-1 (.) तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 1986 के अपने संकल्प सं.एससी-1(1)/86 डी-III के तहत इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद का गठन किया था जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, लोहा और इस्पात के उत्पादक और उपभोक्ता, भवन निर्माताओं और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे। दिनांक 25 फरवरी, 2010 के संकल्प संख्या-5(3)/2009-डी-1 के तहत इस्पात उपभोक्ता परिषद का पुनर्गठन किया गया था। इस इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्य केंद्र सरकार को लोहा और इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, गुणवत्ता और इनके बाजार रूख से संबंधित मामलों पर सलाह देना और सहायता करना है।

2. अधिसूचना सं. 5(3)/2009-डी। दिनांक 25 फरवरी, 2010 के तहत गठित इस्पात उपभोक्ता परिषद तथा तत्पश्चात की अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है तथा इस परिषद को निम्न प्रकार से पुनः गठित किया जाता है:-

(क)	(क)	माननीय इस्पात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
	(ख)	सचिव, इस्पात मंत्रालय	उपाध्यक्ष
	(ग)	संयुक्त सचिव (इस्पात विकास विंग प्रभारी), इस्पात मंत्रालय तथा अध्यक्ष, संयुक्त संयंत्र समिति,	सदस्य सचिव

(ख) इस्पात उपभोक्ता परिषद के सदस्य निम्न होंगे:-

(i) भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों (प्रत्येक) से एक प्रतिनिधि:-

1. रेल मंत्रालय
2. कोयला मंत्रालय
3. वाणिज्य विभाग
4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
5. विकास आयुक्त, लघु उद्योग (डीसीएसएसआई)
6. विद्युत मंत्रालय
7. राजस्व विभाग
8. खान मंत्रालय

(ii) सचिव/निदेशक (उद्योग) के स्तर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों (प्रत्येक) से एक सरकारी प्रतिनिधि।

(iii) लोहा और इस्पात के मुख्य और प्रमुख उत्पादकों से एक प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक)

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
3. टाटा स्टील लिमिटेड,
4. एस्सार स्टील लिमिटेड,
5. इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
6. जेएसडब्ल्यू लिमिटेड,

(iv) निम्नलिखित उद्योग एसोसिएशनों से एक प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक)

1. ऑल असम स्माल्स स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गोवाहाटी
2. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मुम्बई
3. ऑल इंडिया इंडवशन फर्नेस एसोसिएशन, दिल्ली
4. ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ओर्गनाइजेशन, कोलकाता
5. ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन, गांधियाबाद
6. ऑल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
7. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थाने
8. अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पंजाब
9. एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
10. एसोसिएशन ऑफ इंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेस, नई दिल्ली
11. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री, पुणे
12. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
13. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
14. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
15. कास्ट आयरन सप्ल पाइप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, कोलकाता
16. चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल फास्टनर्स, एसोसिएशन
17. कोल्ड-रोल्ड स्टील मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
18. कांफ्रेंडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली
19. कौंसिल ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
20. इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स प्रमोशन कौंसिल, नई दिल्ली
21. फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
22. फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
23. फैडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, दिल्ली
24. हावड़ा फाउंड्री एसोसिएशन, हावड़ा
25. इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
26. इंडियन फेरोअलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मुम्बई
27. इंडियन फाउंड्री एसोसिएशन, कोलकाता
28. इंडियन स्टेनलैस स्टील डवलपमेंट एसोसिएशन, गुडगाँव
29. इंडियन टीनप्लेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
30. आयरन एंड स्टील स्क्रैप शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
31. इंस्टीट्यूट फोर स्टील डवलपमेंट एंड ग्रोथ
32. लारसेन एंड टबरो लिमिटेड, चेन्नई
33. मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स
34. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता
35. मुम्बई ब्राइट बार मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
36. नेशनल कॉर्पोरेटिव हाउसिंग फैडरेशन, नई दिल्ली
37. शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (इंडिया)
38. स्मॉल स्केल वॉयर ड्राइंग यूनिट्स एसोसिएशन
39. सोसाइटी फोर इंडियन ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन
40. स्पंज आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
41. स्टील चैम्बर ऑफ इंडिया, मुम्बई
42. स्टील फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
43. स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोलकाता
44. स्टील वॉयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोलकाता
45. लुधियाना इलैक्ट्रोप्लेटर्स एसोसिएशन, लुधियाना
46. यूनाइटेड साइकिल्स एंड पार्ट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, लुधियाना

3. उपरोक्त के अलावा इस इस्पात उपभोक्ता परिषद में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से इस्पात उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में इस्पात मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य हो सकते हैं।

4. यह परिषद तब तक बनी रहेगी जब तक इसके अध्यक्ष इस्पात मंत्री के पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से अवधि बढ़ाए जाने अथवा कम किए जाने की स्थिति को छोड़कर, प्रारंभ में इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष होगा। इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी।

आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति प्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

दिनांक 15 मार्च 2011

संकल्प

सं0 14(1)/2010-टीडब्ल्यू। इस्पात मंत्रालय के दिनांक 27 सितम्बर, 2010 के संकल्प सं0 14(1)/2010-टीडब्ल्यू के आंशिक संशोधन द्वारा इस्पात मंत्रालय ने कथित संकल्प के पैरा 2 के उप पैरा 2.2 के संदर्भ में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को उत्कृष्ट निष्पादन करने के लिए 'प्रधान मंत्री ट्रॉफी' का पुरस्कार देने की योजना में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जैसे-

1. योजना के पैरा 4.2 और 4.4 में 'इम्प्लाइज सैटिसफैक्शन इन्डेक्स' का ब्यौरा हटा दिया जाए।
2. योजना का पैरा 5.12 हटा हुआ माना जाएगा और न्यायधीशों के पैनेलों का उनके संयंत्रों में दौरे के दौरान मूल्यांकन करने के लिए इनमें शामिल तीन विशिष्ट प्राचल अपने निर्धारित वेटेज के साथ पैरा 5.13 के तहत शामिल रहेंगे। परिणामतः पैरा 13 के तहत प्राचलों का कुल वेटेज 25 से बढ़कर 30 हो जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ० दलीप सिंह
संयुक्त सचिव

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. 1/1/2009-पीडी--

सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सोसाइटी का दिनांक 26 जून, 2009 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगे:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | भारत के माननीय प्रधानमंत्री
(डॉ. मनमोहन सिंह)
प्रधानमंत्री कार्यालय
कमरा सं. 148-बी, साउथ ब्लॉक
नई दिल्ली-110 011 | अध्यक्ष |
| 2. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री प्रवचन कुमार बंसल)
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन
2, रफी मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | उपाध्यक्ष |
| 3. | वित्त मंत्री
(श्री प्रणब मुखर्जी)
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 4. | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री आनंद शर्मा)
उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110 011 | सदस्य |
| 5. | श्री कपिल सिब्बल
मानव संसाधन विकास मंत्री
शास्त्री भवन,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली-110 001 | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|-------|
| 6. | डॉ. के. कस्तूरीरंगन
सदस्य, योजना आयोग
योजना भवन,
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 7. | डॉ. एस. बैनर्जी
अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग
अणुशक्ति भवन
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग
मुंबई - 400 001 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 8. | डॉ. अशोक झुनझुनवाला
प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग
ईएसबी-331-बी
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास
चेन्नै - 600 036 (तमिलनाडु) | सदस्य |
| 9. | श्री ओमप्रकाश भट्ट
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन
मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 10. | डॉ. आनंद जी. महिन्द्रा
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ग्रुप
महिन्द्रा टॉवर्स, जीएम भोसले मार्ग
वर्ली
मुंबई - 400 018 | सदस्य |
| 11. | सुश्री चंदा कोचर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
9वीं मंजिल, साउथ टावर्स, आईसीआईसीआई टावर्स
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051 (महाराष्ट्र) | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|-------|
| 12. | श्री आर एस बुतोला
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट ऑफिस
3079/3, जेबी टीटो मार्ग
सादिक नगर,
नई दिल्ली - 110 049 | सदस्य |
| 13. | डॉ. देश बन्धु गुप्ता
अध्यक्ष
ल्यूपिन लिमिटेड
बी/4, लक्ष्मी टावर्स
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बान्द्रा (पश्चिम)
मुम्बई - 400 051 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 14. | श्री अजीम एच. प्रेमजी
अध्यक्ष
विप्रो लिमिटेड
डोडाकनेली, सरजापुर रोड
बेंगलूर - 560 035 | सदस्य |
| 15. | सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन
निदेशक
ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड
35, नुंगम्बक्कम हाई रोड
नुंगम्बक्कम
चेन्नै - 600 034 | सदस्य |
| 16. | प्रो. एम.एम. शर्मा, एफआरएस
पूर्व निदेशक
रसायन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विभाग
2/3, जसवन्त बाग
ए के बारेली के पीछे
वी एन पूर्व मार्ग
मुम्बई - 400 071 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 17. | प्रो. एम. गौरी देवी
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर (तंत्रिका विज्ञान)
फ्लैट न. : 09
वसुंधरा एन्कलेव
नई दिल्ली - 110 096 | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|-------|
| 18. | श्री मुकुल जोशी
सचिव
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 19. | श्री आर पी सिंह
सचिव
औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग
कमरा नं. 157, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110 011 | सदस्य |
| 20. | श्री आर. चन्द्रशेखर
सचिव (अतिरिक्त कार्यभार)
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003 | सदस्य |
| 21. | डॉ. शैलेश नायक
सचिव
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
महासागर भवन, ब्लॉक नं. 12
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003 | सदस्य |

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के नियमों एवं विनियमों के नियम 3 (घ) के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शारी निकाय के निर्मांकित सदस्य शारी निकाय के सदस्य रहने तक सीएसआईआर सोसाइटी के सदस्य रहेंगे:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 22. | प्रो. एस. के. ब्रह्मचारी
महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन
2, रफ़ी मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | पदेन-सचिव |
|-----|--|-----------|

- | | | |
|-----|---|-------|
| 23. | सुश्री सुषमा नाथ
वित्त सचिव
वित्त मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 24. | डॉ. गिरिश साहनी
निदेशक
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान
सेक्टर-39 ए,
चण्डीगढ़ - 160 036 | सदस्य |
| 25. | प्रो. इन्द्रनील मन्ना
निदेशक
केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान
196, राजा एस.सी. मलिक रोड
कोलकाता - 700 032 (पश्चिम बंगाल) | सदस्य |
| 26. | सुश्री अनुराधा आचार्य
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ओसिमम बायोसॉल्यूशन लि.
छठवां तल, रिलायंस क्लासिक रोड नं. 1
बंजारा हिल्स
हैदराबाद - 500 034 (आंध्र प्रदेश) | सदस्य |
| 27. | श्री बी.पी. राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
“बीएचईएल हाऊस”
सीरी फोर्ट
नई दिल्ली-110 049 | सदस्य |
| 28. | प्रो. एम. विजयन
मानद प्रोफेसर/प्रतिष्ठित जैव प्रौद्योगिकविद
मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस
बेंगलूरु - 560 012 (कर्नाटक) | सदस्य |
| 29. | श्री एच.एम. नेरुरकर
प्रबंध निदेशक
टाटा स्टील लि.
जमशेदपुर - 831001 (झारखंड) | सदस्य |
| 30. | डॉ. अमित मित्रा
महासचिव
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाऊस
तानसेन मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|--|
| 31. | डॉ. टी. रामासामी
सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
टेक्नोलॉजी भवन
न्यू महरौली रोड
नई दिल्ली -110 016 | सदस्य |
| 32. | डॉ. के. राधाकृष्णन
अध्यक्ष इसरो एवं
सचिव, अंतरिक्ष विभाग
अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड
बेंगलूरु - 560 094 (कर्नाटक) | सदस्य

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव |

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2011

संकल्प

सं. के-11033/19/2006-पुरा/एनएफआरडी--

वर्ष 1984 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (एनएफआरडी) की स्थापना ग्रामीण विकास क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए व्यक्तियों, निगमित एवं गैर-निगमित निकायों से निधियां जुटाने के लिए की गई थी। इस निधि में अर्जित धनराशि का उपयोग ग्रामीण विकास के क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किया जाना था। अप्रैल, 2004 के बाद इस निधि में कोई अंशदान नहीं मिला। चूंकि एनएफआरडी में अंशदान अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत कम था इसलिए सरकार ने एनएफआरडी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, एनएफआरडी को समाप्त कर दिया गया है। एनएफआरडी के अंतर्गत उपलब्ध निधियां 2 वर्षों के दौरान एनएफआरडी के मूल उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित परियोजनाएं शुरू करने के लिए लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपाट) जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, को अंतरित कर दी गई है।

आदेश दिया गया है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस संकल्प को आम लोगों की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. रुक्मणी
अवर सचिव

PRESIDENT SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2011

No. 14—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Param Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:-

1. IC-23375 LIEUTENANT GENERAL KAPILESWAR PRASAD DHAL SAMANTA, AVSM, VSM REGIMENT OF ARTILLERY (RETIRED)
2. IC-24652 LIEUTENANT GENERAL RAJ KUMAR KARWAL, AVSM, BAR TO SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER DIRECTORATE GENERAL NATIONAL CADET CORPS
3. IC-24656 LIEUTENANT GENERAL PRADEEP KHANNA, AVSM, VSM, AIDE-DE-CAMP, ARMoured CORPS / HEADQUARTER SOUTHERN COMMAND
4. IC-24718 LIEUTENANT GENERAL PREM KRISHAN GOEL, AVSM, VSM REGIMENT OF ARTILLERY (RETIRED)
5. IC-25066 LIEUTENANT GENERAL ARVINDER SINGH LAMBA, AVSM, REGIMENT OF ARTILLERY
6. IC-25135 LIEUTENANT GENERAL VISHNU KANT CHATURVEDI, AVSM, SM, REGIMENT OF ARTILLERY
7. IC-25156 LIEUTENANT GENERAL JASWINDER PAL SINGH, AVSM, ARMoured CORPS
8. IC-25189 LIEUTENANT GENERAL GAUTAM BANERJEE, AVSM, YSM, CORPS OF ENGINEERS / OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI
9. IC-25408 LIEUTENANT GENERAL MAHESH CHANDER BHADANI, VSM, CORPS OF ENGINEERS
10. IC-25442 LIEUTENANT GENERAL SWATANTARTA NAND HANDA, AVSM, VSM, INFANTRY

11. IC-25562 LIEUTENANT GENERAL PARTHA MOHAPATRA, AVSM, AIDE-DE-CAMP, CORPS OF SIGNALS
12. IC 25646 LIEUTENANT GENERAL VIRENDER SINGH TONK, AVSM, INFANTRY
13. IC-27026 LIEUTENANT GENERAL PRAKASH MENON, AVSM, VSM, INFANTRY / NATIONAL DEFENCE COLLEGE
14. IC-27034 LIEUTENANT GENERAL JASBIR SINGH, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER NORTHERN COMMAND
15. IC-32782 LIEUTENANT GENERAL BALLACHANDA KUTTAPPA CHENGAPA, AVSM, INFANTRY (RETIRED)
16. IC-32844 LIEUTENANT GENERAL RAM PRATAP, AVSM, VSM, CORPS OF ARMY AIR DEFENCE
17. MR-03434 LIEUTENANT GENERAL HIRA LAL KAKRIA, AVSM, BAR TO VSM, ARMY MEDICAL CORPS
18. MR-03831 LIEUTENANT GENERAL DEVENDER PAUL VATS, SM, VSM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE, PUNE
19. DR-10270 LIEUTENANT GENERAL SURRENDER BHUSHAN SEHAJPAL, AVSM, VSM, ARMY DENTAL CORPS
20. VICE ADMIRAL ANUP SINGH, AVSM, NM (01424-K)
21. VICE ADMIRAL D K DEWAN, AVSM, (01396-Y)
22. VICE ADMIRAL DEVENDRA KUMAR JOSHI, AVSM, YSM, NM, VSM (01507-Z)
23. AIR MARSHAL NIRDOSH VATSYAYAN TYAGI AVSM VM VSM (12765) FLYING (PILOT)
24. AIR MARSHAL SUMIT MUKERJI SC VSM (12925) FLYING (PILOT)
25. AIR MARSHAL PARAMJIT SINGH BHANGU AVSM VM (12932) FLYING (PILOT) (RETIRED)

26. AIR MARSHAL KISHAN KUMAR NOHWAR VM (13132) FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL GURDIP SINGH KOCHAR AVSM VM (13149) FLYING (PILOT)
28. AIR MARSHAL PUTHIYAVEETIL MADHUSOODANAN AVSM VSM (29428) MEDICAL (RETIRED)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 15–Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Uttam Yuddh Seva Medal**” to the undermentioned personnel for the distinguished service of an exceptional order during hostilities:

1. IC-27203 LIEUTENANT GENERAL SHRI KRISHNA SINGH, AVSM, INFANTRY / HEADQUARTER 14 CORPS
2. IC-27215 LIEUTENANT GENERAL NAND KISHORE SINGH, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 3 CORPS
3. IC-27645 LIEUTENANT GENERAL RAMESHWAR ROY, AVSM, YSM, INFANTRY / HEADQUARTER 16 CORPS
4. IC-27972 LIEUTENANT GENERAL GYAN BHUSHAN, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 4 CORPS

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 16—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Ati Vishisht Seva Medal” to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-25833 LIEUTENANT GENERAL GOVINDA MOHAN NAIR, SM, VSM, INFANTRY
2. IC-25836 LIEUTENANT GENERAL HARINDER PAL SINGH KLAIR, SM, INFANTRY / DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE
3. IC-25909 LIEUTENANT GENERAL VINOD KUMAR SHARMA
CORPS OF SIGNALS / MILITARY COLLEGE OF
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
4. IC-27616 LIEUTENANT GENERAL KONGARA SURENDRA NATH, VSM, MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTER 10 CORPS
5. IC-27667 LIEUTENANT GENERAL KAMAL MOHEY
ARMY SERVICE CORPS / ARMY SERVICE CORPS CENTRE AND
COLLEGE
6. IC-27701 LIEUTENANT GENERAL DALBIR SINGH SIDHU, VSM,
ARMoured CORPS / HEADQUARTER 33 CORPS
7. IC-27967 LIEUTENANT GENERAL SURINDER PAL SINGH, VSM,
REGIMENT OF ARTILLERY
8. IC-30010 LIEUTENANT GENERAL DIGVIJAY SINGH THAKUR,
INFANTRY / HEADQUARTER 15 CORPS
9. IC-30068 LIEUTENANT GENERAL SURENDRA PRATAP TANWAR,
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER UTTAR BHARAT
AREA
10. IC-30516 LIEUTENANT GENERAL KULDIP SINGH
ARMY AIR DEFENCE / ARMY AIR DEFENCE COLLEGE
11. MR-03435 LIEUTENANT GENERAL BHAGIRATH SINGH
RATHORE, VSM ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)

12. IC-25511 MAJOR GENERAL BRAJESH KUMAR, VSM,
CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
13. IC-27978 MAJOR GENERAL ARUN SINGH CHAND, CORPS OF
ENGINEERS
14. IC-30710 MAJOR GENERAL ANIL KUMAR MISRA REGIMENT OF
ARTILLERY / HEADQUARTER EASTERN COMMAND
15. IC-30723 MAJOR GENERAL ASHOK SINGH, SM, VSM,
INFANTRY / HEADQUARTER 12 INFANTRY DIVISION
16. IC-30892 MAJOR GENERAL YASHPAL SINGH RAWAT, SM,
INFANTRY
17. IC-31011 MAJOR GENERAL VINOD KUMAR NAIK, KC,
INFANTRY / HEADQUARTER 6 MOUNTAIN DIVISION
18. IC-31052 MAJOR GENERAL SHAKTI GURUNG, VSM, INFANTRY /
HEADQUARTER 57 MOUNTAIN DIVISION
19. IC-31324 MAJOR GENERAL KOTHENETH SURENDRANATH, SM,
VSM, ARMoured CORPS / HEADQUARTER 26 INFANTRY
DIVISION
20. IC-31351 MAJOR GENERAL RAJ NANDAN SINGH, SM, VSM,
INFANTRY / HEADQUARTER 56 INFANTRY DIVISION
21. IC-31705 MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH, SM, VSM,
INFANTRY / INSPECTORATE GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)
22. IC-31739 MAJOR GENERAL CHANGALI ANANDA KRISHNAN
INFANTRY / INSPECTORATE GENERAL ASSAM RIFLES (SOUTH)
23. IC-31962 MAJOR GENERAL VIJAI PRAKASH SHRIVASTAVA
CORPS OF SIGNALS
24. IC-33235 MAJOR GENERAL DEEPINDER SINGH, SM, VSM,
ARMoured CORPS (RETIRED)
25. IC-34003 MAJOR GENERAL MAN MOHAN SINGH RAI, VSM,
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTER COUNTER
INSURGENCY FORCE (UNIFORM)
26. IC-34019 MAJOR GENERAL DEEPENDRA SINGH HOODA, BAR TO
VSM, INFANTRY/HEADQUARTER 57 MOUNTAIN DIVISION

27. IC-36119 MAJOR GENERAL SURESH KUMAR KHAJURIA, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 8 MOUNTAIN DIVISION
28. IC-36269 MAJOR GENERAL ANIL SINGH NANDAL, SM, INFANTRY / HEADQUARTER COUNTER INSURGENCY FORCE (VICTOR)
29. IC-36294 MAJOR GENERAL NAVTEJ SINGH BAWA, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER COUNTER INSURGENCY FORCE (DELTA)
30. MR-04133 MAJOR GENERAL BHUSHAN KUMAR CHOPRA ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
31. DR-10309 MAJOR GENERAL SUSHANTA KARKUN ARMY DENTAL CORPS / HEADQUARTER EASTERN COMMAND
32. MR-03856 BRIGADIER VELU NAIR, BAR TO VSM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
33. REAR ADMIRAL RAVINDER KHANNA, VSM, (50514-B) (RETIRED)
34. REAR ADMIRAL SUNIL LANBA, (01823-T)
35. REAR ADMIRAL RAHUL KUMAR SHRAWAT, (50570-F)
36. REAR ADMIRAL RAMA KANT PATTANAIK, YSM (01860-A)
37. REAR ADMIRAL MICHAEL TITUS MORAES, (01888-R)
38. REAR ADMIRAL PARASURAM NAIDU MURUGESAN, VSM, (01958-Z)
39. REAR ADMIRAL VIJAYA KUMAR NAMBALLA, NM, (40689-Z)
40. AIR MARSHAL DALJIT SINGH VM (14553) FLYING (PILOT)
41. AIR MARSHAL JAGDISH CHANDRA VSM (14613) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
42. AIR VICE MARSHAL RAVI KANT SHARMA VM (14088) FLYING (PILOT)
43. AIR VICE MARSHAL NAVIN RATTAN VSM (14242) MEDICAL
44. AIR VICE MARSHAL AZEEZ JAVEED VSM (14386) ADMINISTRATION

45. AIR VICE MARSHAL AMIT ANEJA VM VSM (14668) FLYING (PILOT)
46. AIR VICE MARSHAL NAGINDER MOHAN VAISHNAVI VSM (14822), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
47. AIR VICE MARSHAL SUBHASH CHANDER LUTHRA VSM (15105) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
48. AIR VICE MARSHAL SHIRISH BABAN DEO VM VSM (15681) FLYING (PILOT)
49. AIR COMMODORE SHYAM BIHARI PRASAD SINHA VM (16053) FLYING (PILOT)
50. AIR COMMODORE HARJIT SINGH ARORA (16557) FLYING (PILOT)
51. AIR COMMODORE ARJUN SUBRAMANIAM (16592) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 17—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Yuddh Seva Medal” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-40364 BRIGADIER GAJENDRA PRASAD, VSM, DOGRA REGIMENT/ HEADQUARTER 9 SECTOR ASSAM RIFLES
2. IC-40421 BRIGADIER SANJAY KUMAR BHANOT RAJPUT REGIMENT / HEADQUARTER 26 SECTOR ASSAM RIFLES
3. IC-46832 COLONEL AMAR RAMDASANI GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-50275 COLONEL VIKRAM SINGH CHAUHAN PARACHUTE REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 18—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-31118 MAJOR GENERAL BALVINDER SINGH SACHAR, SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 2 MOUNTAIN DIVISION
2. IC-34385 MAJOR GENERAL ANIL KUMAR AHUJA, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER NORTHERN COMMAND

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 19—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-25839 LIEUTENANT GENERAL BALJEET SINGH
REGIMENT OF ARTILLERY
2. IC-30702 LIEUTENANT GENREAL PHILIP CAMPOSE
MECHANISED INFANTRY/HEADQUARTER STRATEGIC FORCES
COMMAND
3. IC-27945 MAJOR GENERAL TAJUDDIN MOULALI MHAISALE,
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING /
HEADQUARTER TECHNICAL GROUP ELECTRONICS AND
MECHANICAL ENGINEERING
4. IC-30143 MAJOR GENERAL ARUN KUMAR CHADHA, SM,
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTER INTEGRATED DEFENCE
STAFF
5. IC-30327 MAJOR GENERAL INDERPAL SINGH
ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS ARMY TRAINING
COMMAND
6. IC-31012 MAJOR GENERAL YOHANNAN CHACKO THARAKAN,
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
7. IC-31087 MAJOR GENERAL RASQUINHA NEVILLE MARK
INFANTRY
8. IC-31131 MAJOR GENERAL POLLATH VAKAYIL KRISHNA
KUMAR MENON, ARMY ORDNANCE CORPS
9. IC-31134 MAJOR GENERAL GAUTAM MOORTHY
ARMY ORDNANCE CORPS

10. IC-31323 MAJOR GENERAL SANJEEV MADHOK
INFANTRY / HEADQUARTER 18 INFANTRY DIVISION
11. IC-31341 MAJOR GENERAL SANJEEV ANAND
MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTER 5 MOUNTAIN
DIVISION
12. IC-31505 MAJOR GENERAL SUBROTO MITRA, SM
INFANTRY/SELECTION CENTRE SOUTH
13. IC-31653 MAJOR GENERAL ANIL KUMAR BHALLA
ARMOURED CORPS / HEADQUARTER 31 ARMOURED DIVISION
14. IC-35036 MAJOR GENERAL NITIN KUMAR KOHLI
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTER ANDHRA, TAMIL NADU,
KERALA AND KARNATAKA AREA
15. IC-35874 MAJOR GENERAL CHINNAN SREE KUMAR NAIR
JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
16. MR-03954 MAJOR GENERAL MOHAN PRALHADRAO
MUTTAGIKAR, ARMY MEDICAL CORPS / HEADQUARTER
EASTERN COMMAND
17. DR-10288 MAJOR GENERAL MAHESH CHANDER, ARMY
DENTAL CORPS
18. IC-34605 MAJOR GENERAL RAKESH SHARMA, 11 GORKHA
RIFLES / HEADQUARTER 10 CORPS
19. IC-34971 BRIGADIER R SUBRAMANIAM, CORPS OF SIGNALS /
MILITARY COLLEGE OF TELECOMMUNICATION ENGINEERING
20. IC-35171 BRIGADIER RAJBIR SINGH, 3 GORKHA RIFLES /
HEADQUARTER PUNE SUB AREA
21. IC-35210 BRIGADIER BASANT KUMAR DHINGRA, SM,
REGIMENT OF ARMY AIR DEFENCE / ARMY AIR DEFENCE
CENTRE
22. IC-35789 BRIGADIER RANJIT SINGH, ARMY EDUCATION CORPS
/SAINIK SCHOOLS SOCIETY
23. IC-37793 BRIGADIER NAVNEET KHANNA, JUDGE ADVOCATE
GENERAL DEPARTMENT / HEADQUARTER EASTERN
COMMAND
24. IC-38673 BRIGADIER MANJEET MEHTA, SM, JAMMU AND
KASHMIR RIFLES / HEADQUARTER 82 MOUNTAIN BRIGADE

25. IC-39437 BRIGADIER SHASHANK TARAKANT UPASANI, SM, JAT REGIMENT / HEADQUARTER 21 SECTOR ASSAM RIFLES
26. IC-39441 BRIGADIER RAJBIR SINGH, PARACHUTE REGIMENT / HEADQUARTER 15 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
27. IC-39465 BRIGADIER AMARJEET SINGH BEDI, GARHWAL RIFLES / HEADQUARTER 5 MOUNTAIN BRIGADE
28. IC-39492 BRIGADIER ANIL CHAUHAN, 11 GORKHA RIFLES / HEADQUARTER 59 MOUNTAIN BRIGADE
29. IC-39930 BRIGADIER VINOD PRAKASH SINGH BHAKUNI DOGRA REGIMENT / HEADQUARTERS 9 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
30. IC-40948 BRIGADIER KALISIPUDI RAVI PRASAD, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER 21 MOUNTAIN ARTILLETY BRIGADE
31. IC-41753 BRIGADIER MANGAL MURTI MASUR, REGIMENT OF ARTILLERY / NEHRU INSTITUTE OF MOUNTAINEERING, UTTARKASHI
32. MR-03915 BRIGADIER VENKATARAMAN RAVISHANKAR ARMY MEDICAL CORPS / MILITARY HOSPITAL (CTC) PUNE
33. MR-03994 BRIGADIER ANUPAM SAHA ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
34. MR-03998 BRIGADIER GOURI SHANKAR RAMESH ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
35. MR-04767 BRIGADIER KRISHNA VENKATESH BALIGA ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL, SOUTHERN COMMAND
36. MR-05230 BRIGADIER YOGENDRA KUMAR ARORA ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
37. NR-15556 BRIGADIER HARJINDER BHULLAR MILITARY NURSING SERVICE / HEADQUARTER SOUTH WESTERN COMMAND

38. IC-41224 BRIGADIER GURINDER PAL SINGH SANDHU,
MAHAR REGIMENT / HEADQUARTER 'N' AREA
39. IC-37648 COLONEL SUDHIR KUMAR TIWARI, 162 INFANTRY
BATTALION (TERRITORIAL ARMY), JAMMU AND KASHMIR
LIGHT INFANTRY
40. IC-37865 COLONEL SANAL SURESH KUMAR
MADRAS REGIMENT / 15 CORPS BATTLE SCHOOL
41. IC-42771 COLONEL SANJAY SINGH, SM
PARACHUTE REGIMENT
42. IC-43266 COLONEL ROMESH CHANDER KHAJURIA
ASSAM REGIMENT / ASSAM REGIMENTAL CENTRE
43. IC-43285 COLONEL DEVENDRA PRATAP PANDEY
SIKH LIGHT INFANTRY
44. IC-45556 COLONEL RAJEEV PANWAR
1 GORKHA RIFLES / 12 ASSAM RIFLES
45. IC-45963 COLONEL VINEET SETH, PARACHUTE REGIMENT /
PARACHUTE REGIMENT TRAINING CENTRE
46. IC-46761 COLONEL DEEPAK SHARMA
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
47. IC-46798 COLONEL RAJENDRA KUMAR, SM
5TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
48. IC-46889 COLONEL SUKHMEET SINGH, BAR TO SHAURYA
CHAKRA, REGIMENT OF ARTILLERY / 3 ASSAM RIFLES
49. IC-49082 COLONEL AMIR SINGH
12TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
50. IC-49117 COLONEL SS BHOGAL
KUMAON REGIMENT / 23 ASSAM RIFLES
51. IC-50009 COLONEL SARTAJ DHILLON
15TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
52. IC-50099 COLONEL INDERDEEP SINGH BHALLA
MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES
53. IC-50104 COLONEL DINESH SINGH BISHT, SM, MARATHA
LIGHT INFANTRY / HEADQUARTER SOUTHERN COMMAND

54. IC-50556 COLONEL AJIT KUMAR BORAH
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
55. IC-50864 COLONEL SARVESH SHARMA
KUMAON REGIMENT / 46 ASSAM RIFLES
56. IC-50880 COLONEL AJOY MUKHERJEE, BAR TO SM,
PARACHUTE REGIMENT / 31 RASHTRIYA RIFLES
57. IC-51395 COLONEL R SHANMUGA SUNDARAM, SM, 601
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING BATTALION
58. IC-51706 COLONEL VINOD S, SM
MARATHA LIGHT INFANTRY / 56 RASHTRIYA RIFLES
59. IC-51948 COLONEL PARANVIR SINGH PUNIA, SM
19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
60. IC-51949 COLONEL MANISH SINHA
SIKH LIGHT INFANTRY / 21 ASSAM RIFLES
61. IC-52349 COLONEL C KARTIK SESHADRI
4/8 GORKHA RIFLES
62. MR-04427 COLONEL RAKESH KUMAR
ARMY MEDICAL CORPS / 92 BASE HOSPITAL
63. MR-05143 COLONEL ANURAG KHANNA
ARMY MEDICAL CORPS / 153 GENERAL HOSPITAL
64. MR-05515 COLONEL BHUPESH KUMAR GOYAL, ARMY
MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH AND
REFERRAL)
65. MR-05531 COLONEL SANDEEP THAREJA, ARMY MEDICAL
CORPS / COMMAND HOSPITAL, WESTERN COMMAND
66. SL-02742 COLONEL PUTHIYA KOVILAKATH MURALIDHARAN
RAJA, SM, ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS
67. IC-48812 LIEUTENANT COLONEL BHAVIK KAUL
202 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
68. IC-55450 LIEUTENANT COLONEL SANJAY KUMAR
9TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT

69. MR-06262 LIEUTENANT COLONEL PANKAJ TALWAR, ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH AND REFERRAL)
70. MR-06517 LIEUTENANT COLONEL RAVINDRA KUMAR ANADURE, ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
71. MR-06551 LIEUTENANT COLONEL ANUJ KUMAR SHARMA ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
72. MR-08541 CAPTAIN AMIT PANDEY ARMY MEDICAL CORPS / KUMAON SCOUTS
73. JC-588171 SUBEDAR CHHEWANG MUTUP 3 LADAKH SCOUTS
74. 9923885 HAVILDAR SONAM PALJOR 3 LADAKH SCOUTS
75. SURGEON REAR ADMIRAL MANISHA JAIPRAKASH, (75986-W)
76. COMMODORE VIPAN KUMAR WADHWA, (40739-N)
77. COMMODORE JASVINDER SINGH MANN, NM, (50701-B)
78. COMMODORE HARPHOOL SINGH, (50743-Z)
79. COMMODORE MAHITOSH MISRA, (70201-Y) (RETIRED)
80. COMMODORE G ASHOK KUMAR, (02470-N)
81. COMMODORE AJENDRA BAHADUR SINGH, (02619-A)
82. COMMODORE MS CHANDRA SHEKHAR, (02625-R)
83. COMMODORE SATYANARAYANA ALAMANDA, (41192-T)
84. CAPTAIN AJAY VINAY BHAVE, (03030-K)
85. SURGEON CAPTAIN KHALIL ISAAC MATHAI, (75298-F)
86. SURGEON CAPTAIN CHANDU SUDEEP NAIDU, (75343-H)
87. CAPTAIN ANTONY GEORGE, NM, (03182-F)
88. CAPTAIN PAVAN CHAUHAN, (03378-A)
89. COMMANDER AN SATISH, (03955-N),
90. YASHWANT RAI, MCME II, (163455-R)

91. AIR VICE MARSHAL SATISH KUMAR GAGNEJA (14544)
ACCOUNTS
92. AIR COMMODORE HERIKUDRU BABU RAJARAM (14939)
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
93. AIR COMMODORE PRADEEP MALLAPPA KATTI (15005) FLYING
(PILOT)
94. AIR COMMODORE MILAN RAMLALJI AHIR (15267)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
95. AIR COMMODORE ROHIT BHALLA (15591)
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
96. AIR COMMODORE GILES GOMEZ (16527) MEDICAL
97. AIR COMMODORE MICHAEL FERNANDEZ VM (16967) FLYING
(PILOT)
98. AIR COMMODORE SANJAY NIMESH (17862) FLYING (PILOT)
99. GROUP CAPTAIN EDAVAN PULIACHERETH PADMARAJ
NAMBIAR (16886) ACCOUNTS
100. GROUP CAPTAIN LOVEMEET SINGH BACHHER (16995) FLYING
(PILOT)
101. GROUP CAPTAIN NITIN SHANKAR
VAIDYA(17208)ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
102. GROUP CAPTAIN VINOD KUMAR (17430)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
103. GROUP CAPTAIN MUSUNURI DURGA NAGESWARA PRASAD
(17741) ADMINISTRATION
104. GROUP CAPTAIN PUSHPENDRA KUMAR (18002)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
105. GROUP CAPTAIN SHIV RATAN SINGH VM (18083) FLYING
(PILOT)
106. GROUP CAPTAIN VIVEK PILLAI (18217)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
107. GROUP CAPTAIN SANJAY KUMAR PANDEY (18477)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

108. GROUP CAPTAIN ASHUTOSH DIXIT VM (18558) FLYING (PILOT)
109. GROUP CAPTAIN SURAT SINGH VM (18563) FLYING (PILOT)
110. GROUP CAPTAIN LALY JOSEPH (18643) LOGISTICS
111. GROUP CAPTAIN GABRIEL RAYMOND RUEBEN (18814)
FLYING (PILOT)
112. GROUP CAPTAIN ASHISH DUREHA (19074)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
113. GROUP CAPTAIN SUSHANT DUTTA (19243) LOGISTICS
114. WING COMMANDER DEEPAK BANA (18742)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
115. WING COMMANDER CHELLAPPAN PILLAI RATNAMMA SREEJI
(20286) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
116. WING COMMANDER PRAKASH ANGADI (24126)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
117. 659970 MASTER WARRANT OFFICER DALJIT KHOKHAR
WEAPON FITTER
118. 695575 JUNIOR WARRANT OFFICER RAJENDER KUMAR
YADAV, AIR FRAME FITTER

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 20–Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-55907 MAJOR KU KARUMBIAH, SM
4 GORKHA RIFLES/29 ASSAM RIFLES
2. IC-56123 MAJOR SAURABH SHAH, SM
15TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
3. IC-59171 MAJOR RAJIV SHANKAR, SM
ARMY SERVICE CORPS / 55 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-67187 CAPTAIN SANDEEP SREEDHARAN, SM
MARATHA LIGHT INFANTRY / 39 ASSAM RIFLES

5. IC-69120 CAPTAIN ISHWAR SINGH RAWAT, SM
16TH BATTALION THE JAT REGIMENT

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 21—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-52415 COLONEL GURPAL SINGH
1ST BATTALION THE LADAKH SCOUTS
2. IC-51499 LIEUTENANT COLONEL AMIT SHARMA, ARMY
AVIATION / 23 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND
OBSERVATION FLIGHT
3. IC-52922 LIEUTENANT COLONEL SIDDHARTH KHANNA
ARMY AVIATION / 22 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND
OBSERVATION FLIGHT
4. IC-54001 LIEUTENANT COLONEL SUMIT MOHAN GARG
MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES
5. IC-56084 MAJOR RS RAJEEV
8TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
6. IC-56156 MAJOR KULDEEP SIROHI
GARHWAL RIFLES / 15 ASSAM RIFLES
7. IC-59056 MAJOR KSHITIJ BALHARA
BRIGADE OF THE GUARDS / 42 ASSAM RIFLES
8. IC-59145 MAJOR PANKAJ RAWAT, 666 ARMY AVIATION
SQUADRON (RECONNAISSANCE AND OBSERVATION)
9. IC-59385 MAJOR GAURAV BHATIA
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
10. IC-59510 MAJOR JAIVEER SINGH
RAJPUT REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES
11. IC-59516 MAJOR SANJAY NAIR
ASSAM REGIMENT / 59 RASHTRIYA RIFLES

12. IC-60538 MAJOR MRIDUL KAMAL GAIND
9TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
13. IC-60543 MAJOR RANJEET SINGH, ELECTRICAL AND
MECHANICAL ENGINEERS / 53 RASHTRIYA RIFLES
14. IC-60968 MAJOR PRASHANT MISHRA, JAMMU AND KASHMIR
LIGHT INFANTRY / 31 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-61137 MAJOR AJAY SINGH
MECHANISED INFANTRY / 34 ASSAM RIFLES
16. IC-61720 MAJOR ANIL KUMAR SHARMA
GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES
17. IC-61825 MAJOR SAURABH TIWARI
REGIMENT OF ARTILLERY / 34 ASSAM RIFLES
18. IC-62973 MAJOR KARAN BHATIA
6TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT
19. IC-63398 MAJOR RAJ ABHINAV
RAJPUTANA RIFLES / 21 ASSAM RIFLES
20. IC-63527 MAJOR ANIL SINGH CHAUHAN
MECHANISED INFANTRY / 26 RASHTRIYA RIFLES
21. IC-63997 MAJOR KAUSHALENDRA SINGH
RAJPUTANA RIFLES / 23 ASSAM RIFLES
22. IC-64102 MAJOR MRINAL KUMAR SHEKHAR
MARATHA LIGHT INFANTRY / 28 ASSAM RIFLES
23. IC-64460 MAJOR ASHISH SWAROOP
ARMOURED CORPS / 8 ASSAM RIFLES
24. IC-64573 MAJOR SUNIL KUMAR NAUTIYAL
MECHANISED INFANTRY / 26 RASHTRIYA RIFLES
25. IC-64691 MAJOR SHIV KUMAR SHARMA
CORPS OF ENGINEERS / 44 RASHTRIYA RIFLES
26. IC-65745 MAJOR HAMEER SINGH
BRIGADE OF THE GUARDS / 24 ASSAM RIFLES
27. IC-66234 MAJOR NIKHIL WAGH
GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES

28. IC-66241 MAJOR JAIVARDHAN SINGH
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
29. IC-66862 MAJOR MUNISH SHARMA
RAJPUT REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-67290 MAJOR TRIVEDI JIGAR BHARATKUMAR
CORPS OF ENGINEERS / 31 ASSAM RIFLES
31. IC-67360 MAJOR VINEET D KALOKHE
CORPS OF ENGINEERS / 10 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-69559 MAJOR AMIT KUMAR THENGE
CORPS OF SIGNALS / 37 RASHTRIYA RIFLES(POSTHUMOUS)
33. SS-40279 MAJOR AMIT KANWAR
PUNJAB REGIMENT / 26 ASSAM RIFLES
34. SS-41028 MAJOR ADITYA PATIL
ARMOURED CORPS / 12 ASSAM RIFLES
35. SS-41156 MAJOR MUNISH THAKUR, 1ST BATTALION THE
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
36. SS-41798 MAJOR NAVRATNA JAIMAN
CORPS OF SIGNALS / 16 RASHTRIYA RIFLES
37. SC-00356 MAJOR GULAM MOHAMMAD KHAN
6TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT
38. IC-64583 CAPTAIN C NAREN BABU
19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
39. IC-64638 CAPTAIN ABHAY CHANDAN CHAUDHARY
REGIMENT OF ARTILLERY / 11 RASHTRIYA RIFLES
40. IC-67813 CAPTAIN SACHIN SINHA
CORPS OF ENGINEERS / 44 RASHTRIYA RIFLES
41. IC-67943 CAPTAIN SANDEEP SINGH
RAJPUT REGIMENT / 34 ASSAM RIFLES
42. IC-68103 CAPTAIN PRASHANT THAKUR
ARMY AIR DEFENCE / 63 RASHTRIYA RIFLES
43. IC-68313 CAPTAIN MRINAL SHARMA
CORPS OF SIGNALS / 22 RASHTRIYA RIFLES

44. IC-68881 CAPTAIN PAWAN KUMAR SACHAN
CORPS OF SIGNALS / 8 ASSAM RIFLES
45. IC-69166 CAPTAIN KELSHIKAR SHAMSHER KIRAN
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
46. IC-69967 CAPTAIN MANOJ KUMAR PANDEY
3RD BATTALION THE MADRAS REGIMENT
47. SS-41529 CAPTAIN MADHUSUDAN B S
REGIMENT OF ARTILLERY / 28 ASSAM RIFLES
48. SS-41563 CAPTAIN TARANDEEP SINGH GILL
SIKH REGIMENT / 45 ASSAM RIFLES
49. SS-42798 CAPTAIN ABHISHEK BHARDWAJ
7TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
50. AR-182 SECOND-IN-COMMAND BHAG SINGH DOGRA
12 ASSAM RIFLES
51. IC-70184 LIEUTENANT AJEEV RAJEEV, 21ST BATTALION THE
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
52. IC-70428 LIEUTENANT VARUN KHAJURIA
16TH BATTALION THE GRENADIERS
53. IC-70787 LIEUTENANT LALIT MOHAN PALARIYA
15TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
54. IC-70802 LIEUTENANT LAKSHAY
1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT
55. IC-71477 LIEUTENANT DEEPAK KUMAR PRASHAR
9TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
56. IC-71977 LIEUTENANT SAGAR DESHPANDE, 5/1 GORKHA
RIFLES
57. SS-43380 LIEUTENANT DEEPAK CHANDER GANOLA
8TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
58. SS-43646 LIEUTENANT BHAGWATI SINGH RATHORE
ARMY ORDNANCE CORPS / 15TH BATTALION THE DOGRA
REGIMENT
59. JC-412905 SUBEDAR RAGHBIR SINGH
6TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT

60. JC-499219 SUBEDAR LAKHWINDER SINGH
3RD BATTALION THE SIKH REGIMENT
61. JC-590197 SUBEDAR SHRI PRASAD THAPA
1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT
62. JC-634721 SUBEDAR TOPGAY BHUTIA, VSM, GORKHA RIFLES /
11 GORKHA RIFLES REGIMENTAL CENTRE
63. JC-122982 NAIB SUBEDAR GANGA SINGH, 12 ASSAM RIFLES
64. JC-273537 NAIB SUBEDAR BIRBAL RAM
REGIMENT OF ARTILLERY / 315 FIELD REGIMENT
65. JC-413273 NAIB SUBEDAR LALMAN PALSRA, 9TH BATTALION
THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
66. JC-G/2600636 NAIB SUBEDAR PAOKHOLEN KUKI, 26 ASSAM
RIFLES
67. 3393099 HAVILDAR SURJIT SINGH
157 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND
HEARTH) SIKH / 54 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
68. 2598370 HAVILDAR LOGANATHAN S
19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
69. 2792851 HAVILDAR ANWARASAB AGASIBAGIL
12TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
70. 2888398 HAVILDAR NARESH PAL
2ND BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
71. 3392345 HAVILDAR JARNAIL SINGH
3RD BATTALION THE SIKH REGIMENT
72. 3395086 HAVILDAR KARAN SINGH
DOGRA REGIMENT / 31 RASHTRIYA RIFLES
73. 4473390 HAVILDAR BALJINDER SINGH
9TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
74. 4564889 HAVILDAR BODELE DHARMSHEEL SURYAKANT
8TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
75. 9096612 HAVILDAR MOHAMMED FAROOQ
162 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) JAMMU
AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / 47 RASHTRIYA RIFLES

76. 13619305 HAVILDAR RANJIT KUMAR
15TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
77. G/123955 HAVILDAR ALI HUSSAIN, 12 ASSAM RIFLES
78. G/2900484 HAVILDAR VIJAY SINGH KALURA, 29 ASSAM RIFLES
79. G/2900924 HAVILDAR K MANI CHANDRA SINGHA, 29 ASSAM RIFLES
80. G/3400678 HAVILDAR DEV RAM, 34 ASSAM RIFLES
81. 13756706 LANCE HAVILDAR RAVINDER SINGH
12TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
82. 2601288 NAIK R NANDA KUMAR
19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
83. 2602081 NAIK YASHAVANT KHANNUKAR
8TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
84. 2996580 NAIK RAJENDRA SINGH
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
85. 3996163 NAIK RAKESH KUMAR
DOGRA REGIMENT / 11 RASHTRIYA RIFLES
86. 4571151 NAIK HUSAN LAL, PARACHUTE REGIMENT / 19
KUMAON REGIMENT (POSTHUMOUS)
87. 5045349 NAIK BHAKTA BAHADUR GURUNG, 5/1 GORKHA
RIFLES
88. 5045437 NAIK RAN BAHADUR KAUCHA, 5/1 GORKHA RIFLES
89. 13623869 NAIK HARENDRA KUMAR PANDAY
6TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (POSTHUMOUS)
90. 13696417 NAIK ANIRUDDHA KUNDU
BRIGADE OF THE GUARDS / 59 RASHTRIYA RIFLES
91. 13759846 NAIK SURINDER SINGH
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 3 RASHTRIYA RIFLES
92. 14703305 NAIK CHANDRA SHEKHAR UPRETI
1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT
93. 14703419 NAIK SAHENI LOHRII
NAGA REGIMENT / 60 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

94. 2798833 LANCE NAIK SURENDER SINGH
8TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
95. 2893475 LANCE NAIK PAWAN
5TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
96. 3997868 LANCE NAIK PRITAM SINGH
15TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
97. 3998854 LANCE NAIK JAIMON PK,
19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
98. 4365794 LANCE NAIK SURESH KUMAR
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 RASHTRIYA RIFLES
99. 12984108 LANCE NAIK TANVIR AHMED
163 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND
HEARTH) SIKH LIGHT INFANTRY/ 58 RASHTRIYA RIFLES
100. 13622152 LANCE NAIK VIJAY SINGH
21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)
101. 15143917 LANCE NAIK RAJENDRA KUMAR
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
102. 2611892 SEPOY PANNEER SELVAM RAJENDRAN
8TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT(**POSTHUMOUS**)
103. 2613731 SEPOY NAGALINGAM PANCHAVARNAM
8TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT(**POSTHUMOUS**)
104. 2613951 SEPOY SARAVANAN UDAYA KUMAR
8TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT(**POSTHUMOUS**)
105. 2804168 SEPOY BHOSALE VIKRANT HINDURAO
MARATHA LIGHT INFANTRY / 27 RASHTRIYA RIFLES
106. 3001635 SEPOY JAI KUMAR, RAJPUT REGIMENT / 44
RASHTRIYA RIFLES
107. 3999904 SEPOY JASBIR SINGH,
DOGRA REGIMENT / 62 RASHTRIYA RIFLES
108. 4003665 SEPOY SUNIL KUMAR, 15TH BATTALION THE DOGRA
REGIMENT

109. 4197636 SEPOY RAJENDRA SINGH BISHT
KUMAON REGIMENT / 26 RASHTRIYA RIFLES
110. 4573544 SEPOY CHANDRA SHEKHAR NUT
8TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
111. 4577408 SEPOY VIRENDER, MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA
RIFLES
112. 12944488 SEPOY AJAZ AHMED
159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME &
HEARTH) DOGRA / 11 RASHTRIYA RIFLES
113. 14830124 SEPOY RAKESH KUMAR GUPTA
5031 ARMY SERVICE CORPS BATTALION (MECHANICAL
TRANSPORT) (POSTHUMOUS)
114. 14934162 SEPOY DILJIT SINGH,
MECHANISED INFANTRY / 42 RASHTRIYA RIFLES
115. 57582 RIFLEMAN SHIJUMON ABRAHAM, 5 ASSAM RIFLES
116. 57760 RIFLEMAN CH LOVINGSON, 5 ASSAM RIFLES
117. 4087013 RIFLEMAN RAM PRASAD
GARHWAL RIFLES / 48 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
118. 4089094 RIFLEMAN SURAJ KUMAR
GARHWAL RIFLES / 48 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
119. 9103770 RIFLEMAN KULDEEP SINGH
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/26 RASHTRIYA
RIFLES
120. G/193586 RIFLEMAN NAR BAHADUR THAPA, 45 ASSAM RIFLES
121. G/2851169 RIFLEMAN BIRENDRA SINGH, 28 ASSAM RIFLES
122. G/2851534 RIFLEMAN S YAOREISHANG, 28 ASSAM RIFLES
123. G/2851603 RIFLEMAN RAN BAHADUR BHANDARI, 28 ASSAM
RIFLES
124. G/2901665 RIFLEMAN SUKHAN ORAON, 29 ASSAM RIFLES
125. G/2901698 RIFLEMAN LABH SINGH, 29 ASSAM RIFLES
126. G/2901883 RIFLEMAN PRADIP MEDHI, 29 ASSAM RIFLES
127. G/5004716 RIFLEMAN YOGESH KUMAR, 28 ASSAM RIFLES

128. G/5009236 RIFLEMAN B BENJAMIN, 28 ASSAM RIFLES
129. G/5009920 RIFLEMAN KULJIT SINGH, 8 ASSAM RIFLES
130. 15576686 SAPPER HARPREET SINGH
CORPS OF ENGINEERS / 48 RASHTRIYA RIFLES
131. 13627026 PARATROOPER JUGRAJ SINGH
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)
132. 15173085 GUNNER SATYAVIR
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
133. 15618801 GUARDSMAN PRINCE R
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
134. 15485730 SOWAR MASTAN KHAN
ARMOURED CORPS / 60 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
135. 15489651 SOWAR DEBA YADAV
ARMOURED CORPS / 22 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 22—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. COMMANDER NAVEEN THAPA,(03644-F)
2. BIJENDER, POA (AH), (174619-N)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 23—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. WING COMMANDER SUSHIL CHATURVEDI (21720) FLYING
(PILOT)
2. WING COMMANDER MANJIT SINGH SIDHU (22334) FLYING
(PILOT)
3. SQUADRON LEADER VIKAS BHUSHAN (27450) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 24—Pres/2011— The President is pleased to approve the award of the **“Bar to Sena Medal/Army Medal”** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-34086 MAJOR GENERAL BAL KRISHAN SHARMA, SM,
INFANTRY / HEADQUARTER 27 MOUNTAIN DIVISION
2. IC-54627 COLONEL NIRANJAN RAJKUMAR JAKHAR, SM,
GRENADIERS / 55 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 25—Pres/2011— The President is pleased to approve the award of the **“Sena Medal/Army Medal”** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-31062 MAJOR GENERAL SHISHIR HARI MAHAJAN, VSM,
INFANTRY / HEADQUARTER NORTHERN COMMAND
2. IC-31336 MAJOR GENERAL SUNIL SADANAND JOG, VSM
INFANTRY / HEADQUARTER 21 MOUNTAIN DIVISION
3. IC-31729 BRIGADIER KALYAN KUMAR ROY CHOUDHURY,
VSM, MAHAR REGIMENT / HEADQUARTER 21 SUB AREA
4. IC-34066 BRIGADIER AMULYA MOHAN, VSM, RAJPUT
REGIMENT / HEADQUARTER 111 SUB AREA
5. IC-35204 BRIGADIER UMESH SINGH BAWA, VIR CHAKRA
JAT REGIMENT / HEADQUARTER STRATEGIC FORCES
COMMAND
6. IC-35376 BRIGADIER GAUTAM DEB, VSM,
CORPS OF INTELLIGENCE / HEADQUARTER EASTERN
COMMAND
7. IC-35480 BRIGADIER SURINDER SINGH, VSM
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / EMBASSY OF INDIA, KABUL
8. IC-35486 BRIGADIER SUBHASH CHANDER RANGI, VSM,
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS
NATIONAL SECURITY GUARD
9. IC-38028 BRIGADIER SUNIL BHANDARI
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER STRATEGIC
FORCES COMMAND

10. IC-38886 BRIGADIER RAJEEV PANT
DOGRA REGIMENT / HEADQUARTER 27 SECTOR ASSAM
RIFLES
11. IC-39676 BRIGADIER DHARAM VIR SINGH RANA, VSM
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HEADQUARTER 11
MOUNTAIN BRIGADE
12. MR-04155 BRIGADIER AMITAVA DATTA
ARMY MEDICAL CORPS / HEADQUARTER 14 CORPS
13. MR-04556 BRIGADIER SUBHASH CHANDRA GODARA
ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES MEDICAL STORE
DEPOT, DELHI CANTONMENT
14. MR-05294 BRIGADIER ARUN TYAGI, ARMY MEDICAL CORPS /
COMMAND HOSPITAL, NORTHERN COMMAND
15. IC-43307 COLONEL N RAJKUMAR
154 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) BIHAR
16. IC-48516 COLONEL VINOD NAMBIAR
670 ARMY AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND
OBSERVATION)
17. IC-49086 COLONEL SHANTANU KASHYAP, 663 ARMY
AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND
OBSERVATION)
18. IC-49115 COLONEL BHASKAR SINGH BISHT
RAJPUTANA RIFLES / 9 RASHTRIYA RIFLES
19. IC-49469 COLONEL PRASHANT SRIVASTAVA, 2ND BATTALION
THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
20. IC-49680 COLONEL VIKAS LAKHERA
4TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
21. IC-49926 COLONEL VIJAY KUMAR PUROHIT
PUNJAB REGIMENT / 53 RASHTRIYA RIFLES
22. IC-49992 COLONEL ZOHAIR IBN SALMA YAZDANI
REGIMENT OF ARTILLERY / 44 FIELD REGIMENT
23. IC-50189 COLONEL RAJESHWAR SINGH, SHAURYA CHAKRA,
MADRAS REGIMENT / 29 ASSAM RIFLES
24. IC-50369 COLONEL SAISH SUDHAKAR SHETE
3RD BATTALION THE SIKH REGIMENT

25. IC-50772 COLONEL RAJESH KUMAR SHIVRAIN
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) / 39 ASSAM RIFLES
26. IC-50895 COLONEL PEEYUSH KHURANA
GARHWAL RIFLES / 14 RASHTRIYA RIFLES
27. IC-50996 COLONEL BABRU BHAN YADAV, SHAURYA CHAKRA,
SIKH LIGHT INFANTRY / 45 ASSAM RIFLES
28. IC-51135 COLONEL ANIL KUMAR PUNDIR
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 SPECIAL ACTION GROUP
29. IC-51261 COLONEL SAMEER SHARAN KARTIKEYA
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 34 ASSAM RIFLES
30. IC-51568 COLONEL RAVROOP SINGH
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 ASSAM RIFLES
31. IC-51709 COLONEL MANJEET SINGH KALRA
2ND BATTALION THE BIHAR REGIMENT
32. IC-51964 COLONEL AMARDEEP SINGH
12 MARATHA LIGHT INFANTRY
33. MR-04868 COLONEL KANAKAPURA SURYANARAYANA
KUMAR, ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL,
WESTERN COMMAND
34. MR-05050 COLONEL KADLOOR SATYANAND
ARMY MEDICAL CORPS / MILITARY HOSPITAL, JAIPUR
35. IC-50222 LIEUTENANT COLONEL K C IYAPPA
ARMOURED CORPS, COMBAT VEHICLES RESEARCH AND
DEVELOPMENT ESTABLISHMENT
36. IC-52391 LIEUTENANT COLONEL AVTAR SINGH SEKHON
INTELLIGENCE CORPS / 21 COUNTER INSURGENCY
INTELLIGENCE UNIT
37. IC-55258 LIEUTENANT COLONEL RAMESH KUMAR SHARMA, 8
GORKHA RIFLES / 51 SPECIAL ACTION GROUP
38. IC-55484 LIEUTENANT COLONEL N SRI RAMESH
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING /
COMBAT VEHICLES RESEARCH AND DEVELOPMENT
ESTABLISHMENT

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 26—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. COMMODORE SUNIL JETLY, (02054-T)
2. COMMODORE ANIL KUMAR SAXENA, (40974-Y)
3. COMMODORE UDAY CHANKRAKANT TALWELKAR, (41023-H)
4. COMMODORE VIJAY KUMAR PISHARODY, (02604-T)
5. CAPTAIN HAMPIHOLI MAKARAND ARVIND, (02859-Y)
6. CAPTAIN PHILIPOSE GEORGE PYNUMOOTIL, (02973-F)
7. COMMANDER SUDEEP SEN, (51046-N)
8. KAMALUDHEEN FIROSE, MECH (AR) 3 (121855-W)

BARUN MITRA

Joint Secy.

No. 27—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. AIR VICE MARSHAL CHANDRASHEKHARAN HARI KUMAR, VSM (15881) FLYING (PILOT)
2. AIR COMMODORE DEPTENDU CHOUDHURY, VSM (17335) FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN MEHTAB SINGH DESWAL (20131) FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN SIRUVURI SRIDHAR (20138) FLYING (PILOT)
5. WING COMMANDER RAVURI SHEETAL (20490) FLYING (PILOT)
6. WING COMMANDER TEJPAL SINGH (20724) FLYING (PILOT)
7. WING COMMANDER ANANT MATHUR (20727) FLYING (PILOT)
8. WING COMMANDER PHILIP THOMAS (20743) FLYING (PILOT)
9. WING COMMANDER RAHUL BHASIN (20745) FLYING (PILOT)
10. WING COMMANDER VIKAS SHARMA (20757) FLYING (PILOT)

11. WING COMMANDER JOY THOMAS KURIEN (20782) FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER GANAPATHIRAJU SRINIVAS (21505) FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER ASHISH SINGH (21517) FLYING (PILOT)
14. WING COMMANDER NONGTHOMBAM LOKENDRO (22714) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 28—Pres/2011 – The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for “Mention in Despatches” received by the **Raksha Mantri** from the “Chief of the Army Staff”:-

OPERATION RAKSHAK

1. IC-59752 MAJOR ATUL CHAVAN, 666 ARMY AVN SQN (R&O)
2. IC-62535 MAJOR RAHUL SHANKAR BHARADWAJ, MAHAR, 30 RR
3. IC-68949 MAJOR ABHISHEK JAGANNATH BHAPKAR, SIGS, 30 RR
4. JC-593547 SUBEDAR SHER SINGH, JAK LI, 26 RR
5. 9925507 NAIK TUNDUP PALJOR, 5 LADAKH SCOUTS

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 29–Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Kirti Chakra**” to the under mentioned persons for the acts of conspicuous gallantry:-

1. **IC-67257 MAJOR RAHUL GURUNG, CORPS OF ENGINEERS / 12 ASSAM RIFLES**

[Effective date of the award: 17 February 2010]

Based on explicit intelligence regarding movement of terrorists in Ukhrul district of Manipur, Major Rahul Gurung meticulously planned multiple ambushes in General Areas South of the Valley. At 0330 hours on 11 February 2010, Major Rahul Gurung, maintaining high state of surprise and vigil, noticed suspicious movement on track leading to the village. He alerted his ambush party and challenged the suspects to prove their identity. On being challenged, the suspects opened indiscriminate fire. Major Rahul Gurung, who missed certain death by a whisker, remained unfazed and crawled on the rugged terrain towards a rock to take cover under the volley of bullets. From there he brought down accurate fire on terrorists. Major Gurung killed two terrorists and saved life of his men who were under direct fire of terrorists.

On 17 February 2010, inputs were received regarding movement of undergrounds through the Corridor in Ukhrul district of Manipur. Major Rahul Gurung, planned multiple ambushes in the areas of the River and the Valley. At 2250 hours the infiltrating party of terrorists was intercepted by Major Gurung's ambush and in the firefight Major Gurung shot dead one terrorist. Another terrorist took cover behind a tree and was firing on the ambush party. Major Gurung sensing the urgency of situation, displaying undaunted bravery and inspirational courage, crawled towards the hiding terrorist and with disregard to his life shot the terrorist from point blank range. The terrorists broke contact but Major Rahul Gurung with his party chased this group and subsequently three more terrorists were gunned down.

Major Rahul Gurung displayed outstanding leadership, immaculate planning and utter disregard to his personal safety under intimidating hostile fire.

2. **SS-42132 CAPTAIN DEEPAK SHARMA, CORPS OF SIGNALS / 42 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 04 March 2010]

On 04 March 2010, terrorists were hiding in a room which could not be cleared by any means other than room intervention due to the close proximity of a large Jamia Masjid in Pulwama district of Jammu & Kashmir. At 0815 hours Captain Deepak Sharma alongwith his buddy closed in and entered the house through a small window by lobbing hand grenades. At point blank range he fired and killed one terrorist in the first room. Then he crawled to the next room under heavy volume of fire from the terrorists and lobbed another grenade. On spotting two terrorists under stair case, he charged at them with steely grit and utter disregard to own safety killing them on the spot. During the fire fight, he sustained a gun shot wound on his neck and succumbed to his injuries.

Captain Deepak Sharma displayed unflinching devotion to duty, and indomitable courage in the face of enemy and made the supreme sacrifice in the service of the nation.

3. **IC-70971 LIEUTENANT VIKRANT AJIT DESHMUKH, 8TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 27 June 2010]

On receipt of Intelligence regarding presence of group of terrorists in general area of a village in Kupwara District of Jammu & Kashmir, a search party was set out for a specific search. During the search, the party was fired upon by terrorists at 1840 hours on 27 June 2010. In the ensuing firefight Lieutenant Vikrant Ajit Deshmukh who was part of the search party sustained gun shot wound on his abdomen and inspite of that he opened fire at a close range & killed two terrorists. Terrorists also hurled grenades at his team and he fell down the steep spurs of the ridge without his weapon along with 04 other ranks and got separated from the rest during the fall. He silently held on to his position alone for 03 hours 30 minutes till the search party reached him.

Lieutenant Vikrant Ajit Deshmukh displayed tactical acumen, tenacity, exemplary courage and leadership qualities in the face of heavy odds.

4. **IC-70886 LIEUTENANT VIKAS SHARMA, 6TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT**

[Effective date of the award: 11 August 2010]

Based on own intelligence of terrorist movement in Bandipore district of Jammu & Kashmir, an operation was launched on 10 August 2010 under Lieutenant Vikas Sharma.

Next day, at 1630 hours, the officer noticed movement on a ridge. He divided his party and approached the top from two sides. At 300 meters terrorists presence was confirmed. He immediately engaged them with sniper shooting one terrorist. Two terrorists took cover and returned fire. Lieutenant Vikas directed his sniper to engage the second terrorist from a flank while he and his buddy encircled him from another side. He closed upto 20 meters to take accurate shots and killed him. The third terrorist was entrenched between two rocks and was not coming under effective fire. Lieutenant Vikas Sharma, redeployed his LMG to cover his movement and closed onto him making excellent use of the ground. His move was detected by the terrorist who fired at him. Lieutenant Vikas Sharma was undaunted and fearlessly kept closing onto him and shot him at a 15 meters.

Lieutenant Vikas Sharma displayed indomitable courage and flawless execution while fighting the terrorists.

5. **2894796 NAIK RAJINDER SINGH, 2ND BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES**

[Effective date of the award: 29 August 2010]

At 1430 hours on 29 August 2010, during search of a village in Baramullah district of Jammu & Kashmir scouts were fired upon. Naik Rajinder Singh alongwith other scouts returned effective fire, pinning down terrorists and cutting off their escape route. During firefight, he eliminated one terrorist who was trying to escape.

Intermittent firing continued and terrorist hiding inside cave kept lobbing grenades to prevent troops from closing in. Naik Rajinder Singh crawled towards the cave under intense fire and fired one complete magazine from his weapon. Terrorists from inside lobbed grenade towards him. Displaying astute presence of mind and sharp reflexes, he used a rock to protect himself from grenade splinters.

As intermittent firing commenced in the morning of 30 August 2010, he again volunteered to crawl towards the cave to engage the terrorists. He crawled to

the mouth of cave and brought effective fire on the terrorist eliminating them, after which intermittent fire stopped from inside the cave.

Naik Rajinder Singh displayed indomitable courage, exceptional valour under fire and selflessness beyond the call of duty.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 30—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Shaurya Chakra” to the undermentioned persons for the acts of gallantry:-

1. **12914550 LANCE NAIK MOHAMMAD SHAFFI, 156 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND HEARTH) PUNJAB / 58 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 21 October 2009]

On 20 October 2009 at 2200 hours, based on specific information, an operation was launched in a village in Ramban district of Jammu & Kashmir. The troops cordoned the target dhoks and on challenging the terrorists to surrender, came under effective hostile fire.

Taking initiative, at around 0230 hours on 21 October 2009, Lance Naik Mohammad Shaffi alongwith his buddy closed towards the entrance of the dhok. While his buddy killed one terrorist two others ran out firing indiscriminately and took cover in the adjoining nallah. Despite hostile fire, unmindful of his personal safety, Lance Naik Shaffi crawled into the nallah from a flank and lobbed a grenade killing both the terrorists.

Lance Naik Mohammad Shaffi displayed courage, act of selfless devotion, presence of mind in decimating two terrorists.

2. **G/3101841 RIFLEMAN MILAP SINGH, 31 ASSAM RIFLES**

[Effective date of the award: 14 November 2009]

Based on specific intelligence, an operation was launched in general area in Tingnoupal district of Manipur. At approx 0430 hours on 14 November 2009, contact with the terrorists was established. Rifleman Milap Singh under the covering fire of his buddy, amidst fierce fire fight, showing immense initiative and cold courage, manoeuvred himself to engage the terrorist from a flank. Rifleman Milap Singh closed in with terrorists and with utter disregard to his personal safety eliminated one of the terrorists. Rifleman Milap Singh continuously engaged the terrorists with his personal weapons, crawled towards the second terrorist and eliminated him from a close range. A large quantity of arms and ammunition were recovered from slain terrorists.

Rifleman Milap Singh displayed great feat of valour, cold courage, initiative and firm resolve while fighting the terrorists.

3. **FLIGHT LIEUTENANT MANISH ARORA (28462) FLYING (PILOT)**

[Effective date of the award: 04 February 2010]

On 04 February 2010; Flight Lieutenant Manish Arora was detailed to fly an Air Test profile sortie in a MiG-27 ML aircraft. At an altitude of 10.5 km and a speed of beyond 0.9 Mach, the canopy shattered causing explosive decompression of the cabin and pieces of the shattered canopy hit the pilot on the face. The front instrument panel and the windshield were splattered with blood. Despite a very hostile cockpit environment, aero medical adversities and physical injuries, the pilot meticulously commenced a series of accurate and precisely timed actions for an expeditious recovery. Wind blast severely restricted mobility and the pilot began to suffer from excruciating pain in the right ear and his mask was flooded with blood. The crucial cockpit visibility in front was affected by blood stains. Despite feeling faint and weak, the pilot displayed grit, fortitude and professionalism and landed the aircraft flawlessly under extremely challenging conditions. Any delay in the recovery, or lack of will power on the part of the pilot could have led to catastrophic consequences.

Flight Lieutenant Manish Arora displayed conspicuous courage and professionalism under an extremely demanding situation exacerbated by aero medical adversity and injury, to recover the crippled aircraft safely to base.

4. **4076512 HAVILDAR DAYAL SINGH, 8TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 13 January 2010]

On night of 13 January 2010, the Havildar Dayal Singh who was part of the Battalion Intelligence Team was alerted by his sources about presence of terrorists in a village in Tinsukia district of Assam. The NCO took the lead in guiding the teams to the suspected house.

On reaching the area, his party was tasked to cordon the house. At 2330 hours, while the parties were still getting into position, three terrorists rushed out of the rear door firing indiscriminately. Hav Dayal Singh immediately engaged them and blocked their escape route forcing them to take cover in the vicinity. A firefight ensued with heavy automatic fire. At grave risk to himself, Havildar Dayal Singh fired back very selectively preventing any casualties or collateral damage. Sensible response from him ensured safe evacuation of the trapped civilians while keeping the terrorists pinned down. Finally outnumbered and sensing the terrorists escaping, the NCO, with utter disregard to his own safety, dashed forward and shot dead one terrorist at close quarters. In the process he was struck by a bullet in the left eye. Bleeding profusely, he continued to engage the other two till he lost consciousness and later succumbed to his injury.

Havildar Dayal Singh displayed undaunted courage, exemplary presence of mind and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

5. **2607215 SEPOY CHANNALLI BASAVARAJ, 19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 13 January 2010]

Based on confirmed intelligence regarding movement of terrorists in general area in Ukhrul district of Manipur, a search operation was launched at 0200 hours on 13 January 2010 to establish cordon around the suspected house.

At about 0900 hours, Sepoy Channalli Basavaraj who was No.1 Scout of the search column observed suspicious move of two individuals towards front of the house. Swiftly reacting to the situation, he challenged the individuals to halt. Both the terrorists immediately fired towards own party and attempted to flee into the jungle. Hearing this sound, few civilians in the area also rushed out in panic. Sepoy Basavaraj using his ingenious combat skills and undaunted valour chased the fleeing terrorist for nearly 100 meters and eliminated him. The second terrorist however managed to break contact and hid into the thick jungle. The search columns were accordingly redeployed to cover the escape routes. Sudden burst of fire came on the column. Sepoy Channalli Basavaraj once again rising to the occasion, crawled towards the area and in an absolute daring act pounced on the terrorist and eliminated him in a fierce combat. Large quantity of arms, ammunition and other incriminating documents were recovered from them

Sepoy Channalli Basavaraj displayed extraordinary gallantry, raw courage and sterling combat proficiency in eliminating both the terrorists singlehandedly.

6. **IC-64696 MAJOR RAKESH RAWAT, JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 17 February 2010]

On 17 February 2010 Major Rakesh Rawat was commanding the team tasked to clear a cordoned house suspected to be occupied by two heavily armed, hardcore terrorists in district Baramulla, Jammu & Kashmir.

As Major Rakesh Rawat and his buddy crawled upto the house to clear it, the holed up terrorists lobbed two grenades and fired a heavy volume of fire onto them from a window. Undeterred, Major Rakesh Rawat and his buddy closed in with the room's window and the officer lobbed two grenades inside. The officer then crept up and shot one of the two terrorists at close range.

The second terrorist fled into the adjacent bathroom that could not be accessed by the buddies from this direction. Despite grave danger and sporadic and heavy firing from within, the officer now crept upto the bathroom window and lobbed a grenade to maim and later, shoot the second terrorist.

Major Rakesh Rawat displayed conspicuous gallantry, indomitable fighting spirit and inspirational combat leadership while fighting the terrorists.

7. IC-56111 MAJOR SANJEEV HARYAL, REGIMENT OF ARTILLERY/ 315 FIELD REGIMENT

[Effective date of the award: 17 March 2010]

On receipt of intelligence about movement of terrorist towards a village in Udalguri district of Assam to recruit fresh cadres and regroup the outfit. Maj Sanjeev Haryal mobilised his team, briefed them, planned the ambush and deployed them by 0230 hours on 17 March 2010.

A motorcycle with two riders approached the site. On being challenged, the riders opened indiscriminate fire on own party. Despite the automatic fire of terrorists, the officer led his team from front, retained initiative and held on the command and control of his party. He reacted with speed and with utter disregard to personal safety, he took on the terrorists at close range. In the ensuing fire fight, he shot dead the terrorist.

In another successful ambush earlier in December 2009, the officer led from the front and shot dead two more terrorists. He has till date apprehended 12 cadres/linkmen and recovered six weapons, thus breaking the backbone of the terrorist outfit in and around Udalguri.

Major Sanjeev Haryal displayed raw courage, thorough professionalism, leadership and fearless attitude in fighting the terrorists.

8. 13762552 LANCE NAIK PRAVEEN THAKUR, 12TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

[Effective date of the award: 24 March 2010]

On the night of 23/24 March 2010, Lance Naik Praveen Thakur was ambush commander at the Line of Control in Kupwara district of Jammu & Kashmir. At 0130 hours he noticed movement of four terrorists. Showing resilience and tactical acumen he waited for the terrorists to approach and engaged with effective fire. The terrorists finding themselves trapped mounted a suicide attack on the ambush engaging it with heavy volume of fire and lobbing grenades. Sensing grave danger, he moved his buddy to an alternate position and drawing the entire fire of

the terrorists onto himself thereby saving his life. One terrorist was killed and another one in an outflanking move approached the ambush from the other side. Lance Naik Praveen Thakur showing raw courage and utter disregard to personal safety moved out into the open and killed the second terrorist face to face.

Lance Naik Praveen Thakur displayed exceptional bravery, high degree of motivation and utter disregard to personal safety while fighting the terrorists.

9. **3190786 NAIK VIJAY PAL, 16TH BATTALION THE JAT REGIMENT**

[Effective date of the award: 27 March 2010]

On 27 March 2010, while carrying out search of a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir, Naik Vijay Pal spotted fresh tracks on the snow on western slopes of the Ridge. He alongwith other teams tracked the foot marks of the terrorists for seven hours in heavily snow laden and steep slopes of the ridge. Moving stealthily, Naik Vijay detected two terrorists at close distance in general area Dadua Spring. He immediately deployed his team and signalled the presence of the terrorists to other teams. Displaying extraordinary courage, he closed in with the terrorists, maintaining surprise and engaged them. Surprised by the action of Naik Vijay, the terrorists opened up with heavy automatic fire from concealed positions on own troops. Despite grave personal danger, he charged onto the terrorists and neutralised two of them at close quarters. His bold action and subsequent engagement of the terrorist group resulted in elimination of five terrorists without own casualties.

Naik Vijay Pal displayed raw courage, grit and bravery under effective terrorist fire.

10. **3194985 SEPOY RAVINDER SINGH, 16TH BATTALION THE JAT REGIMENT**

[Effective date of the award: 27 March 2010]

Sepoy Ravinder Singh was carrying out search with his team on the Ridge in Kupwara district of Jammu & Kashmir. He along with his team followed the tracks of the terrorists through treacherous terrain and heavy snow. At about 1215 hours on 27 March, his team observed presence of two terrorists in general area. Sepoy Ravinder immediately deployed himself tactically and in the fire fight which ensued he observed two more terrorists bringing down heavy volume of fire from a covered position. Sensing danger to his team, he crawled through snow and thick foliage to a flank and lobbed a grenade. One of the terrorist who tried to break contact was immediately shot dead by Sep Ravinder at close quarters. With exemplary courage, despite grave personal danger, he closed in and neutralised the second terrorist also. His bold action and subsequent engagement of the terrorist group resulted in elimination of five terrorists without any casualty to own troops.

Sepoy Ravinder Singh displayed raw courage, grit and bravery in face of extreme adverse conditions.

11. 14704137 SEPOY VIJAY SINGH BOHARA, NAGA REGIMENT / 60 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 27 March 2010]

On 27 March 2010 at 0707 hours two heavily armed foreign terrorists were trapped in the cordon of army columns in the dense jungle in Rajouri district of Jammu & Kashmir. Sepoy Vijay Singh Bohara rushed to the encounter site and further tightened the inner cordon. The terrorists had taken position in a nallah and were retaliating effectively against security forces fire. On observing the ineffectiveness of own small arm fire on terrorists, Commander of the team directed Sepoy Vijay Singh Bohara to fire Rocket Launcher. While Sepoy Bohara was crawling towards tactically advantageous position, one of the terrorist's fired a rifle grenade at him which exploded few feet away from him. With utter disregard to his personal safety he continued to move and brought down aimed Rocket Launcher fire on those two holed up terrorists and eliminated them.

Sepoy Vijay Singh Bohara displayed unparallel courage and gallantry much beyond the call of duty while fighting the terrorists.

12. IC-70065 CAPTAIN MANENDRA PRATAP SINGH, ARMY SERVICE CORPS / 8TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT

[Effective date of the award: 01 April 2010]

Captain Manendra Pratap Singh was one of the team leaders which were tasked to carryout a Search Operation in the general area in Rajouri district of Jammu and Kashmir. Contact with terrorists was established at 1400 hours on 01 April 2010 and his team had received the first volley of indiscriminate terrorist fire. Under heavy hostile fire, keeping the nerves of steel he quickly identified the location of terrorists. Captain Singh immediately took position and moved forward and ordered his buddy to cover his move. The terrorists were firing in a suicidal manner. Displaying tremendous courage under fire and complete disregard to personal safety, he kept crawling and closing on to the terrorist till he reached the point blank range and personally killed the first terrorist.

During the intense firefight, two terrorists attempted to escape along a nala. Following excellent battle craft in treacherous hostile terrain, he and his buddy rushed with speed and intercepted them intelligently and took a clean shot at the fleeing terrorist, thereby killing the second terrorist.

Captain Manendra Pratap Singh displayed raw courage, grit and bravery much beyond the call of duty while fighting the terrorists.

**13. 4282393 SEPOY SHAILESH KUMAR SINGH, BIHAR REGIMENT/
63 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 02 April 2010]

On 02 April 2010 during a seek and destroy operation in the forest in Rajouri district of Jammu & Kashmir, Sepoy Shailesh Kumar Singh had taken position fifty meters away from the location of terrorists and was bringing down effective Multi Grenade Launcher fire pinning them down. After a prolonged fire fight two terrorists attempted to break the security forces cordon by firing indiscriminately and charging at own troops. Realising the danger to own troops as they were under inadequate cover, Sepoy Shailesh Kumar Singh with utter disregard to own safety swiftly moved forward firing MGL accurately killing two terrorists thereby saving precious lives of own troops. In the fire fight Sepoy Shailesh Kumar Singh sustained gun shot wound near bridge of nose and made the supreme sacrifice.

Sepoy Shailesh Kumar Singh displayed outstanding courage, great sense of commitment, camaraderie, concern for the lives of peers in the face of danger and made the supreme sacrifice.

**14. 14438439 LANCE NAIK ANOOP KUMAR SHARMA, REGIMENT
OF ARTILLERY / 30 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 07 May 2010]

On the night of 06/07 May 2010 surveillance cum multiple ambushes were launched based on input of presence of terrorists in general area in Baramulla district of Jammu & Kashmir. Lance Naik Anoop Kumar Sharma was the scout of one such party. On challenging, the terrorists opened indiscriminate fire. Realising the safety of his comrades at stake, Lance Naik Sharma with utter disregard to personal safety, retaliated with effective fire dashed towards the terrorists tactically. In spite of being grievously injured in the process he with his effective and accurate fire eliminated two terrorists before falling unconscious. Lance Naik Sharma made supreme sacrifice and made this operation a roaring success wherein ultimately six terrorists were eliminated.

Lance Naik Anoop Kumar Sharma displayed indomitable determination, exceptional bravery and made the supreme sacrifice for the Nation while fighting the terrorists.

15. IC-67498 MAJOR MANISH BARAL, MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 08 May 2010]

On 08 May 2010 Major Manish Baral was carrying out search in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir. On getting specific information regarding presence of terrorists in the village, he moved diligently maintaining surprise. The officer quickly appreciated and deployed parties in close cordon of the target house covering all escape routes. Ghatak Platoon Commander showed presence of mind and evacuated all school children to safety located adjacent to the target house. At about 1655 hours terrorists tried to break cordon, firing indiscriminately at close range. The officer in broad daylight with utter disregard to his safety led from the front, guided all parties and daringly eliminated two dreaded terrorists single handedly. He ensured safety of all his comrades and there was no property damage.

Major Manish Baral displayed thorough professionalism and bold courage of highest order by leading his party from the front in the face of terrorist's fire.

16. 4579271 SEPOY SANGAT SINGH, MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 11 May 2010]

On 11 May 2010 based on information about presence of terrorists in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir, close cordon was laid on target house. At approximately 1355 hours the terrorists tried to break the cordon and troops came under indiscriminate fire of terrorists from close range. Realising chances of terrorists escaping and safety of his comrades, Sepoy Sangat Singh with utter disregard to his personal safety, crawled through indiscriminate fire and further closed in to the nala next to the target house. Though critically injured, he took suitable position, brought down effective fire from point blank range and lobbed grenade thereby eliminating two hardcore terrorists single handedly till he fell down unconscious and later succumbed to his injuries.

Sepoy Sangat Singh displayed raw courage, exceptional bravery and made the supreme sacrifice for the Nation while fighting the terrorists.

17. 2497584 PARATROOPER KAPIL DEV, 1ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

[Effective date of the award: 31 May 2010]

Paratrooper Kapil Dev was part of Assault Team which had been heli dropped to carry out search and destroy operation in general area in Baramulla district, Jammu and Kashmir.

At 0630 hours on 31 May 2010 Paratrooper Kapil Dev volunteered to search the contact site. While carrying out deliberate search, he came under indiscriminate fire from terrorists hiding in dense undergrowth. Exhibiting remarkable initiative and outstanding field craft Paratrooper Kapil Dev crawled forward and killed one terrorist at close range. He instantly drew heavy automatic fire from another terrorist and sustained gun shot wound in his left thigh. Profusely bleeding but undeterred, he changed his position, lobbed grenades, outmaneuvered the terrorist and killed him in a fierce hand-to-hand fight.

Paratrooper Kapil Dev displayed exceptional valour, unmindful of his personal safety and heroic initiative beyond call of duty while fighting the terrorists.

18. IC-51655 COLONEL NEERAJ SOOD, RAJPUTANA RIFLES / 18 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 22 June 2010]

On receiving inputs of significant movement of terrorists in general area in Kupwara district of Jammu & Kashmir, Colonel Neeraj Sood generated incisive intelligence network, which resulted in contact with terrorists at 2105 hours on 22 June 2010 in the area. Astutely sensing that terrorist movement would evade the cordon, the Commanding Officer swiftly deployed his troops to tactically advantageous positions boldly leading from the front.

In the ensuing gunfight, Colonel Sood personally targeted and injured one terrorist. Identifying the key role of Colonel Sood, the terrorists concentrated their fire on him. In the fierce gun battle that ensued, the Officer sustained fatal gunshot injury.

Colonel Neeraj Sood displayed bold and dynamic leadership, raw courage, resoluteness under fire and made supreme sacrifice in the best traditions of the Army.

19. **14703933 LANCE NAIK KS KHARWUNG, 1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT**

[Effective date of the award: 02 July 2010]

On 02 July 2010, Ghatak Platoon established contact with terrorists in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir. Terrorists occupying advantageous position brought down indiscriminate fire on the column. Lance Naik KS Kharwung, part of the assault team, to prevent escape of terrorists, manoeuvred himself under heavy fire, utter disregard to personal safety, engaged the terrorist at close proximity and killed him instantly.

The second terrorist taking cover of a rock brought down intense grenade fire. Lance Naik KS Kharwung, realising the threat of UBGL grenade to the column, with exceptional bravery, moved out of cover and ran into the terrorist during the fierce fire fight. The terrorist fired another grenade at the individual. Closely escaping the splinters, undaunted by the hostile situation, closed in and engaged the terrorists in close gun battle. After fearsome exchange of fire, Lance Naik KS Kharwung eliminated the second terrorist at close quarter, thereby saving the lives of his comrades.

Lance Naik KS Kharwung displayed conspicuous gallantry, indomitable courage, selflessness in fighting the terrorists.

20. **16014589 RIFLEMAN UDHAY SINGH, 2ND BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES**

[Effective date of the award: 29 August 2010]

Rifleman Udhay Singh was part of small team deployed at a village in Baramullah district of Jammu & Kashmir. On 29 August 2010, at about 0400 hours noises of sound of tree branches creaking and barking of dogs along the Nala were heard. At first light the team moved into the area and observed fresh trails in undergrowth. Rifleman Udhay Singh was the leading scout of the small team. While following the trail, he alongwith other scout spotted a jacket under a rock and recovered two AK-47 Rifles.

During search, scouts came under intense fire from terrorists hiding in a rocky area. Being leading scout, he came under effective fire from terrorist. Under covering fire from his fellow scout, he safely relocated himself to advantageous position and eliminated one terrorist. As fire fight launched, he successfully engaged one more terrorist who was firing from the cave.

Rifleman Udhay Singh displayed exceptional operational zeal and conspicuous gallantry under intense terrorists' fire.

21. **IC-72002 LIEUTENANT VIKRAM BAHADUR SINGH, ARMY SERVICE CORPS / 3RD BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 11 September 2010]

Based on intelligence of newly infiltrated track, surveillance-cum-ambushes were launched in the thickly forested, mountainous area astride the Ridge in Bandipore district of Jammu & Kashmir.

On 11 September 2010 at 1730 hours, Lieutenant Vikram Bahadur Singh sighted two terrorists moving along the Nala. Quickly readjusting his position, he effectively engaged the terrorists injuring one with initial volley. The terrorists took cover behind boulders and a fierce fire-fight ensued. Sensing that terrorists would escape in fading light, Lt Vikram moved with lightening speed in the face of heavy fire and in a daring act neutralised one terrorist with his fire. The second terrorist took cover under a natural hide and effectively engaged own troops, lobbing grenades to dissuade troops from closing in. Unmindful of personal safety, displaying exemplary field-craft, Lieutenant Vikram Bahadur Singh crawled to within 30 meters of the terrorist and lobbed two grenades thereby effectively silencing him.

Lieutenant Vikram Bahadur Singh displayed unparalleled act of gallantry, raw courage, initiative and determination in fighting the terrorists.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 31-Pres/2011 – The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2011 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :-

SHRI ANIL KUMAR NATH
ASSISTANT DIRECTOR
ARUNACHAL PRADESH

SHRI NOREN SINGH NAMEIRAKPAM
DIRECTOR
MANIPUR

SHRI JENAMANI RANJAN BIDHUSEKHAR
DY. FIRE OFFICER
ORISSA

SHRI NARAHARI BARIK
LEADING FIREMAN
ORISSA

SHRI PRADEEP KUMAR ROUT
STATION OFFICER
ORISSA

SHRI YOGESH BABU DWIVEDI
CHIEF FIRE OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI BIRENDER SINGH
ASSTT. SUB-INSPECTOR (FIRE)
CISF, MHA

DR. KHEM CHAND WADHWA
SCIENTIST "F"(ADDITIONAL DIRECTOR)
DRDO, M/O DEFENCE

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 32-Pres/2011 – The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2011 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers :-

SHRI CHILUKURI SATYANARAYANA
DISTT. FIRE OFFICER
ANDHRA PRADESH

SHRI LAKSHMANA SWAMY KATTA
STATION FIRE OFFICER
ANDHRA PRADESH

SHRI ABDUL GAFFOOR
LEADING FIREMAN
ANDHRA PRADESH

SHRI ANANTA NARAYANA EVANI
FIREMAN
ANDHRA PRADESH

SHRI RATISH RANJAN DEY
STATION OFFICER
ARUNACHAL PRADESH

SHRI BRAHMEDEO PRASAD SINGH
ASSTT. STATE FIRE OFFICER
BIHAR

SHRI JAGDISH CHOUDHARY
FIRE STATION OFFICER
BIHAR

SHRI LUXMI BHAGAT
LEADING FIREMAN
BIHAR

SHRI RAMESHWAR PRASAD
LEADING FIREMAN DRIVER
BIHAR

SHRI SATISH CHANDRA JHA
FIREMAN
BIHAR

SHRI CHHANIYABHAI MANGALBHAI ROHIT
LEADING FIREMAN
DADRA & NAGAR HAVELI

SHRI MANGUBHAI LAXMAN HALPATI
ASSTT. STATION FIRE OFFICER
DAMAN & DIU

SHRI DHARAMPAL
ASSTT. DIVISIONAL OFFICER
DELHI

SHRI MAHAK SINGH
RADIO TELEPHONE OPERATOR
DELHI

SHRI DATTARAM DHARMAJI REDKAR
SR. STATION FIRE OFFICER
GOA

SHRI MADAN LAL THAKUR
SUB FIRE OFFICER
HIMACHAL PRADESH

SHRI JAVAGAL HIRIYANNAGOWDA RAVI SHANKAR
REGIONAL FIRE OFFICER
KARNATAKA

SHRI GOVINDAIAH
FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI H. UMAPATHI
LEADING FIREMAN
KARNATAKA

SHRI K. SANJEEVA
FIREMAN DRIVER
KARNATAKA

SHRI KAMASAMUDRA VENKATAGOWDA KRISHNAPPA
FIREMAN
KARNATAKA

SHRI SIVADASAN K.V.
STATION OFFICER
KERALA

SHRI RAJAN P.K. KUMARAN
LEADING FIREMAN
KERALA

SHRI V.S. RAVEENDRAN
FIREMAN DRIVER CUM PUMP OPERATOR
KERALA

SHRI DEVENDRA PRABHAKAR POTPHODE
DIVISIONAL FIRE OFFICER
MAHARASHTRA

SHRI RAYBA BHAGWAN PATIL
FIRE STATION OFFICER
MAHARASHTRA

SHRI NABACHANDRA SINGH LAISHRAM
SUB OFFICER
MANIPUR

SHRI LALREMTLUANGA VARTE
STATION OFFICER
MIZORAM

SHRI BHIMSEN LENKA
ASSTT. STATION OFFICER
ORISSA

SHRI NATABARA NAYAK
LEADING FIREMAN
ORISSA

SHRI KAMALA KANTA PUHAN
FIREMAN
ORISSA

SHRI PHURDEN LEPCHA
ASSTT. SUB FIRE OFFICER
SIKKIM

SHRI THIRUVAN MUTHU
DIVISIONAL OFFICER
TAMIL NADU

SHRI S. ARUMUGA POOMALAI
STATION OFFICER
TAMIL NADU

SHRI ANTHONY ARULANDU
LEADING FIREMAN
TAMIL NADU

SHRI KANNAN RAJENDRAN
DRIVER MECHANIC
TAMIL NADU

SHRI GOUSE MOHAMMED HUSSAIN
FIREMAN DRIVER
TAMIL NADU

SHRI GOVINDAN BALAN
FIREMAN
TAMIL NADU

SHRI ZAKIR HUSAIN
CHIEF FIRE OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI VIRENDRA PRATAP SINGH
CHIEF FIRE OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI SOUMYENDRA NATH GHOSAL
DIVISIONAL FIRE OFFICER
WEST BENGAL

SHRI SANTI RANJAN GUHA
STATION OFFICER
WEST BENGAL

SHRI KRISHNA BHOWMICK
LEADER
WEST BENGAL

SHRI ASHES MAJUMDER
FIRE OPERATOR
WEST BENGAL

SHRI NILKANTA NEOGI
C.M.O.
WEST BENGAL

SHRI RAM AWATAR
LABORATORY ASSISTANT
NFSC, MHA

SHRI NARESH KUMAR SINGH
ASSTT. COMMANDANT (FIRE)
CISF, MHA

SHRI JASWANT SINGH
HEAD CONSTABLE (FIRE)
CISF, MHA

SHRI MAROOF AHMED SHEIKH
MANAGER (FIRE SERVICES)
M/O PETROLEUM & NATURAL GAS

SHRI ALAM SINGH
SENIOR FIRE OFFICER
M/O PETROLEUM & NATURAL GAS

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 33-Pres/2011 - The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Uttar Pradesh Fire Service: -

SHRI AJAY KUMAR CHAND (POSTHUMOUS)
FIREMAN

SHRI HARI LAL YADAV (POSTHUMOUS)
FIREMAN

2. On 31.03.2009 at 1310 hours, a call was received at the Azamgarh Fire Station, informing that fire has broken out in the basement of a paint shop, Mohalla – Harbanshpur, P.S., Sidhari, District Azamgarh, Uttar Pradesh. On receipt of call, Fire Tenders from Azamgarh Fire Station with LFM Afaroz Alam Khan as officer-in-charge rushed to the scene of fire. On reaching the spot, LFM Afaroz Alam Khan saw that the basement of the shop containing drums of paint, thinner and other chemicals had caught fire and spreading fast. FM Harilal Yadav, FM Ajay Kumar Chand, FM Harish Chandra, FM Balajeet Yadav started fire fighting operations and simultaneously the officer- in-charge requisitioned more Water Tenders and of senior officers. In an effort to save life and property from fire, Fireman Ajay Kumar Chand, Harilal Yadav and other crew members got trapped in the fire and received severe burn injuries. Fireman Ajay Kumar Chand and Harilal Yadav died on 8th April, 2009 in Laxmi Medical and Care Centre, Varanasi.

3. Fireman Shri (Late) Ajay Kumar Chand and Shri (Late) Hari Lal Yadav thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.c.f. 31.03.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 34-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Uttar Pradesh Fire Service: -

SHRI AJAY KUMAR SHARMA
FIRE STATION OFFICER

SHRI SULEKH CHAND SHARMA
LEADING FIREMAN

SHRI BRIJ MOHAN SHARMA
LEADING FIREMAN

SHRI BRIJ PAL SINGH
FIREMAN

On 18.12.2009 at 7.40 hours a call was received at Muzaffarnagar Fire Station informing that an explosion followed by fire has taken place in Megma Industries Ltd., Industrial Estate, Begrajpur, Meerut Road, District Muzaffarnagar, U.P. Immediately Shri Ajay Kumar Sharma, Fire Station Officer with fire crew rushed to the scene of fire. On reaching the spot, Sh. Ajay Kumar Sharma saw that the fire was in a Pharmaceutical Company. Highly poisonous, inflammable solvents, hydrogen gas and LPG cylinders were stored in large quantity. There was a high concentration of ammonia gas in and around the factory. It was told that many factory workers are trapped inside the factory. He quickly sized up the situation and placed water jets at strategic locations to fight the fire. Reinforcement from Shamli, Meerut and Saharanpur also reached the spot. Without caring their own lives Shri Ajay Kumar Sharma, Fire Station Officer, Shri Sulekh Chand Sharma, Leading Fireman, Shri Brij Mohan Sharma, Leading Fireman and Shri Brijpal Singh, Fireman fought the fire bravely and saved 13 peoples.

2. Fire Station Officer Shri Ajay Kumar Sharma, Leading Fireman Shri Sulekh Chand Sharma, Leading Fireman Sh. Brij Mohan Sharma and Fireman Shri Brijpal Singh thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 18.12.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 35-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Uttar Pradesh Fire Service: -

SHRI SHANKER SHARAN RAI
FIRE STATION OFFICER

SHRI DEENA NATH TRIPATHI
FIRE STATION 2ND OFFICER

SHRI AFROJ ALAM KHAN
LEADING FIREMAN

SHRI BALJEET YADAV
FIREMAN

SHRI HARISH CHANDRA
FIREMAN

On 31.03.2009 at 1310 hours a call was received at the Azamgarh Fire Station, informing that fire has broken out in the basement of a paint shop; Mohalla – Harbanshpur, P.S., Sidhari, District Azamgarh, Uttar Pradesh. On receipt of call, Fire Tenders from Azamgarh Fire Station with LFM Afaroz Alam Khan as officer-in-charge rushed to the scene of fire. On reaching the spot, LFM Afaroz Alam Khan saw that the basement of the shop containing drums of paint, thinner and other chemicals had caught fire and spreading fast. FM Harilal Yadav, FM Ajay Kumar Chand, FM Harish Chandra, FM Balajeet Yadav started fire fighting operations and simultaneously the officer-in-charge requisitioned more Water Tenders and senior officers. Shri Shanker Sharan Rai, Fire Station Officer and Shri Deena Nath Tripathi, Fire Station 2nd Officer also reached there. In the effort to save life and property from fire, Shri Shanker Sharan Rai, Fire Station Officer, Shri Deena Nath Tripathi, Fire Station 2nd Officer, Shri Afroj Alam Khan, Leading Fireman, Sh. Baljeet Yadav, Fireman and Shri Harish Chandra, Fireman bravely fought the fire and received severe burn injuries and admitted in hospital for further treatment.

2. Fire Station Officer Shri Shanker Sharan Rai, Fire Station 2nd Officer Shri Deena Nath Tripathi, Leading Fireman Shri Afroj Alam Khan, Fireman Shri Baljeet Yadav and Fireman Shri Harish Chandra thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 31.03.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 36-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Uttar Pradesh Fire Service: -

SHRI PRITHVI RAJ TIWARI
FIRE STATION 2ND OFFICER

SHRI RAMESH SINGH CHAUHAN
LEADING FIREMAN

SHRI MITHILESH SHUKLA
FIREMAN

SHRI PYAREY LAL SONKER
FIREMAN

On 17.10.2009 at 14.55 hours a call was received in the Fazalganj Mini Control Room informing that a fire has broken out in H. No. 118/300-301, Hanuman Parkwali Galli, Kausalpuri, P.S. Nazirabad. Immediately on receipt of call, fire tenders were rushed to the scene of fire. On reaching the spot the officer-in-charge saw that the building has collapsed due to explosion in the LPG cylinder. A large portion of ceiling of the building was precariously hanging. It was informed that about 17 families were living in the building and people are trapped inside. Without loss of time, the officer-in-charge placed fire fighting jets at strategic locations to control the fire and rescue the trapped persons. Without caring for their own lives Shri Prithviraj Tiwari, Fire Station 2nd Officer, Shri Ramesh Singh Chauhan, Leading Fireman, Shri Mithilesh Shukla, Fireman and Shri Pyareylal Sonker, Fireman entered into the building in a very dangerous situation and rescued Mrs. Kiran Bala Ghambir, Vijay Maurya, Hari Shanker Dixit and Mrs. Pushpa Devi. A body of a boy named Sonu was also retrieved from underneath the debris.

2. Fire Station 2nd Officer Shri Prithvi Raj Tiwari, Leading Fireman Shri Ramesh Singh Chauhan, Fireman Shri Mithilesh Shukla and Fireman Shri Pyarey Lal Sonker thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 17.10.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 37-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of the Ministry of Petroleum and Natural Gas: -

SHRI NAIZU AMBATT VARKEY
DY. MANAGER (FIRE & SAFETY)

SHRI BIMAL RAJ VELAYUDHAN LEELABAI
DY. MANAGER (FIRE & SAFETY)

SHRI SATISH JAGJIWAN ALONE
SR. ENGINEER (FIRE & SAFETY)

On 11.12.2009 at 01.00 hours on-duty security sergeant on duty at the housing colony gate saw that an ammonia tanker loaded with 15 tons of liquefied un-hydrous ammonia has over turned near BPCL-Kochi Refinery Housing Colony gate at Ambalamugal. The trailer got detached from the prime mover. He immediately alerted the refinery Fire Station. On getting this alert the department head of fire & safety, the section head of fire services and a fire & safety engineer rushed to the scene of accident. They found that due to impact of the accident there was profuse leakage of ammonia through the 3 inch nozzle of the ammonia gas bullet. It was difficult to reach closer to the tanker due to thick vapor cloud of ammonia which was moving fast towards the refinery premises and engulfing the refinery main Fire Station, process units and other areas of the refinery endangering many lives. Dy. Manager (Fire & Safety) Shri Naizu Ambatt Varkey, Dy. Manager (Fire & Safety) Shri Bimal Raj Velayudhan Leclabai and Sr. Engineer (Fire & Safety) Shri Satish Jagjiwan Alone without caring for their own lives dared to reach closer to the leakage point of tanker with water spray jets to dilute the ammonia gas and successfully arrested the leakage to save many lives and properties in the refinery area.

2. Dy. Manager (Fire & Safety) Shri Naizu Ambatt Varkey, Dy. Manager (Fire & Safety) Shri Bimal Raj Velayudhan Leclabai and Sr. Engineer (Fire & Safety) Shri Satish Jagjiwan Alone thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 11.12.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 38-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer of Orissa Fire Service: -

**SHRI PURNA CHANDRA SWAIN
LEADING FIREMAN**

On 26.05.09 at 1800 hours a call was received at Banki Fire Station informing that two persons have fallen in a well at Patapur village, Banki, Distt. Cuttack. On receipt of the call fire crew of Banki Fire Station rushed to the scene of incident. On reaching the spot it was informed that a lady named Smarita Das had fallen in the well while taking bath. Sh. Raju Bhoi who entered the well to rescue the lady is also trapped inside. Local people were anxiously waiting for the Fire Brigade help. At that critical juncture Sh. Purna Chandra Swain, Fireman (now Leading Fireman) with tremendous confidence dared to enter into the well and rescued Smt. Smarita Das and Shri Raju Bhoi one by one in unconscious condition. Sh. Raju Bhoi and Sh. Swain were rushed to the hospital for further treatment.

2. Leading Fireman Shri Purna Chandra Swain, thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 26.05.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 40-Pres/2011- The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2011 to award the Presidents Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers:-

SHRI M MAHENDAR REDDY
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE DEPARTMENT, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI CHINTA RAMCHANDER
SUPERINTENDENT OF POLICE
INTELLIGENCE SECURITY WING, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI AJIT PRASAD ROUT
INSPECTOR GENERAL OF POLICE (LOGISTICS)
PHQ, ULUBARI, GUWAHATI
ASSAM

SHRI RAJESHWAR SHARMA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
BMP-14, PATNA
BIHAR

SHRI ARUN KUMAR SINHA
SERGEANT MAJOR
STF, PATNA
BIHAR

SHRI RAJEEV CHANDRA SHRIVASTVA
COMMISSIONER
CULTURE & ARCHAEOLOGY, RAIPUR
CHHATTISGARH

MOHAMED TAJ HASSAN
JOINT COMMISSIONER OF POLICE
SECURITY, PHQ, NEW DELHI
N.C.T OF DELHI

SHRI REWANT RAM
ASSISTANT SUB INSPECTOR
NORTH-EAST DISTRICT.
N.C.T OF DELHI

SHRI ASHISH BHATIA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
AHMEDABAD RANGE, AHMEDABAD
GUJARAT

SHRI BALJIT SINGH SANDHU
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
LAW AND ORDER, PANCHKULA
HARYANA

SHRI ANIL KUMAR DHAWAN
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
CRIME BRANCH, GURGAON
HARYANA

SHRI K C SADYAL
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
SV&ACB, SHIMLA
HIMACHAL PRADESH

SHRI RAVINDER KOTWAL
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ARMED/IRP, JAMMU ZONE, JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI ASHIT MOHAN PRASAD
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
KSRP, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI V.S. D'SOUZA
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
INTELLIGENCE, O/O THE COMMISSIONER OF POLICE
BENGALURU CITY, KARNATAKA

SHRI KUNDAN SINGH JANGPANGI
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
PHQ, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

DR. ALEXANDER JACOB
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
PRISONS, (PRISONS HQRS) THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI PREMLAL PANDEY
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
TELECOMMUNICATION, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI RAJENDRA KUMAR
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (TRAINING)
PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI BHAWANI PRASAD
HEAD CONSTABLE
SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT
LOKAYUKTA OFFICE, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI HIMMATRAO VITHOBAJI DESHBHRATAR
COMMISSIONER OF POLICE
SOLAPUR CITY
MAHARASHTRA

SHRI RANJIT DADASAHEB DHURE
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
CITY DIVISION, PUNE CITY
MAHARASHTRA

SHRI GANPATI NANA WAGHRALKAR
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR
L.A.III, WORLI POLICE HQRS, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI L. M. KHAUTE
INSPECTOR GENERAL OF POLICE (INTELLIGENCE)
CID HQ IMPHAL,
MANIPUR

SHRI TENNYSON DKHAR
INSPECTOR GENERAL OF POLICE (HQ/ADMN/F&ES)
PHQ, SHILLONG
MEGHALAYA

SHRI P KAMARAJ
DIRECTOR
ACB, AIZAWL
MIZORAM

SHRI G. NEIVOLIE CHADI
INSPECTOR (DEF)
KOHIMA
NAGALAND

SHRI BIJAY KUMAR SHARMA
COMMISSIONER OF POLICE
BHUBANESWAR, CUTTACK
ORISSA

SHRI PURUSOTTAM SAHU
COMMANDANT,
1ST IRBN, UPPER KOLAB, KORAPUT
ORISSA

SHRI M. K. TIWARI
INSPECTOR GENERAL OF POLICE-CUM-MANAGING
DIRECTOR
PPHC, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI NIRMAL SINGH DHILLON
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
BATHINDA
PUNJAB

SHRI SUNIL KUMAR MEHROTRA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ARMED CONSTABULARY, JAIPUR,
RAJASTHAN

SHRI VIJAY SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CID(S.B), ZONE, JAIPUR CITY
RAJASTHAN

SHRI DILLI BAHADUR THAPA
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
PHQ, GANGTOK
SIKKIM

SHRI SANGARAM JANGID
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE/
COMMISSIONER OF POLICE
CHENNAI SUB URBAN POLICE, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI J K TRIPATHY
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI S M MOHAMED IQBAL
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
V&AC, CHENNAI CITY-V, NANDANAM, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI TARUN BARAN ROY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
(AP&OPS), P.O A D NAGAR, AGARTALA
TRIPURA

SHRI JAGMOHAN YADAV
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
ATC SITAPUR,
UTTAR PRADESH

SHRI CHANDRA DEO
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PROSECUTION, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI SUDARSHAN RAM
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT MAHARAJGANJ
UTTAR PRADESH

SHRI JASVANT SINGH
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT PAURI GARHWAL
UTTARAKHAND

SHRI KULDIEP SINGH
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PHQ, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI RAKESH KUMAR GUPTA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
VIGILANCE COMMISSION, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI ASHOK KUMAR JAIN
INSPECTOR GENERAL
TRIPURA FTR, SALBAGAN, AGARTALA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JAGADISH CHANDRA PANDEY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ AIZAWL, PO- DURTLANG, MIZORAM
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MANORANJAN TRIPATHI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
PERS DTE. FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ANIL KAMBOJ
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVE DIRECTORATE, FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

DR. CHANDRA MOHAN R
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FTR, HQ, GUJARAT, GANDHINAGAR
BORDER SECURITY FORCE

SMT SUMAN BALA SAHOO
JOINT DIRECTOR
(HOZ) KOLKATA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI BHUPINDER KUMAR CHHABRA
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
EOU-III, NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI GANESH VERMA
SUPERINTENDENT OF POLICE
ACB, IMPHAL, MANIPUR
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI JOGENDRA NAYAK
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE CELL, NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI PRAKASH CHAND
INSPECTOR OF POLICE
SC-III, NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI HAR PRASAD SINGH RATHOR
COMMANDANT
GBS NEW DELHI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SUDHIR KUMAR SINGH FARTYAL
DEPUTY COMMANDANT
5TH RESERVE BATTALION, GHAZIABAD
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI DEVENDRA KUMAR PATHAK
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
FHQ, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI M NAGESWARA RAO
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
O/O IGP(OPS), BHUBANESWAR, ORISSA
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI B RAJENDRA KAMATH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
O/O DIGP, RAF-II, CBD BELAPUR,
NAVI MUMBAI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAKESH KUMAR UPADHYAY
SECOND-IN-COMMAND
O/O DIGP, LUCKNOW RANGE, LUCKNOW (UP)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI GAJRAJ SINGH
SUB INSPECTOR
FHQ, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PRADEEP KUMAR BHARDWAJ
JOINT DIRECTOR
BHOPAL
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI AKSHAYA KUMAR MISHRA
JOINT DIRECTOR
KOHIMA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DR. M MADANA MOHAN
JOINT DIRECTOR
HYDERABAD
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BINAY KUMAR SINGH
JOINT DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI DINKAR GUPTA
JOINT DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI MURARI LAL
JOINT DEPUTY DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI A K SURESH KUMAR
ASSISTANT DIRECTOR
BANGALORE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BHUPENDRA SINGH KHARAYAT
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
AIZAWL
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DR. T. RAVI PRASAD
INSPECTOR GENERAL/DIRECTOR (MEDICAL)
FHQ, NEW DELHI
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI HARBHAJAN SINGH GORAYA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
BTC, PANCHKULA, HARYANA
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI SARDAR SINGH HARTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FHQ, NEW DELHI
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI PREM SWAROOP SINGH NEGI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FHQ, NEW DELHI
SASHASTRA SEEMA BAL

DR ISH KUMAR
DIRECTOR (NATIONAL POLICE MISSION)
FHQ, NEW DELHI
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI T.N. RAO
JOINT ASSISTANT DIRECTOR
NEW DELHI
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

SHRI P RAMA KRISHNA NAIDU
INSPECTOR GENERAL /JOINT DIRECTOR
NEW DELHI
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

SHRI K N SOMAN
DRILL INSTRUTOR
HYDERABAD
SVP N.P.A

SHRI SANJEEV KUMAR SINGH
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
JASOLA, NEW DELHI
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY

SHRI P.S.B. NAIR
SENIOR COMMANDANT
4 BN, DISTRICT VELLORE, TAMILNADU
NDRF

SHRI SANJAY KUMAR
DIRECTOR VIGILANCE (POLICE)
NEW DELHI
M/O RAILWAYS

SHRI SANTOSH KUMAR ROY
ASSISTANT SECURITY COMMISSIONER/ INSPECTOR
RPF/PASSENGER SECURITY
M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 41-Pres/2011- The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2011 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:-

SHRI AMIT GARG
JOINT COMMISSIONER OF POLICE
PHQ, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI N. BALA SUBRAMANYAM
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE DEPT., HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI B SHIVADHAR REDDY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SPECIAL INTELLIGENCE BRANCH, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SMT SHIKHA GOEL
ADDITIONAL DIRECTOR
ANTI CORRUPTION BUREAU, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI A. RAVICHANDRA
SUPERINTENDENT OF POLICE
GUNTUR RURAL DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI M. SIVAIAH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
KALYANDURG SUB-DIVISION, ANANTAPUR DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI M. SRINIVAS
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
AVANIGADDA SUB-DIVISION, KRISHNA DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI P. RADHA KISHAN RAO
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
C.I. CELL, INTELLIGENCE
ANDHRA PRADESH

SHRI RAJULA RAVISHANKAR REDDY
INSPECTOR
FAC DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
ZONAL INTELLIGENCE OFFICE, TIRUPATI
ANDHRA PRADESH

SHRI D. AMARANATHA NAIDU
INSPECTOR
VIGILANCE AND ENFORCEMENT DEPARTMENT
HYDERABAD RURAL, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI JULAPALLY RAMA RAO
INSPECTOR OF POLICE
SULTHANABAD, KARIMNAGAR DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI ALAHARI VENKATA RAO
SUB-INSPECTOR
COUNTER INTELLIGENCE CELL
SPECIAL BRANCH, NELLORE DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SMT. P. VARA LAKSHMI
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (W)
PCR, VIJAYAWADA CITY
ANDHRA PRADESH

SHRI POTHURAJU RAMACHANDRAIAH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
NELLORE DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI RAGHUNATH SAHU
O/S SUB-INSPECTOR OF POLICE
ANTI CORRUPTION BUREAU, VISAKHAPATNAM RANGE
ANDHRA PRADESH

SHRI P. SIVA BABU SHARMA
O/S SUB-INSPECTOR OF POLICE
INTELLIGENCE DEPARTMENT, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI T. SUBRAHMANYAM
O/S RESERVE SUB-INSPECTOR
A.P. POLICE ACADEMY, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI SYED IBRAHIM
HEAD CONSTABLE
AR HQRS, NIZAMABAD DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI SUGALI SOMLA NAIK
HEAD CONSTABLE
KURNOOL - III TOWN POLICE STATION
KURNOOL DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI MADHUP KUMAR TEWARI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PHQ, ITANAGAR
ARUNACHAL PRADESH

SHRI SANGAY NORBU PHAICHELUPA
INSPECTOR
TAWANG, ITANAGAR
ARUNACHAL PRADESH

SHRI ANURAG TANKHA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SPECIAL BRANCH, HQRS, KAHILIPARA, GUWAHATI
ASSAM

SHRI A Y VENKATA KRISHNA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (SR)
SILCHAR
ASSAM

SHRI MUNNA PRASAD GUPTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CID, GUWAHATI
ASSAM

SHRI GUNINDRA MOHAN CHOUDHURY
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE
GUWAHATI
ASSAM

SHRI JNANENDRA SARMA
ASSISSTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
VIGILANCE & ANTI CORRUPTION, GUWAHATI
ASSAM

SHRI NALINI KANTA DUTTA
ASSISSTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
DIMA HASAO DISTRICT, DIMA HASAO (HAFLONG)
ASSAM

SHRI BUDHESWAR BORAH
HAVILDAR/GD
1ST A P BATTALION, LIGIRIPUKHURI, SIVASAGAR
ASSAM

SHRI DILIP GOGOI
NAIK (UB)
JORHAT DEF, JORHAT
ASSAM

SHRI NIREN CHANDRA BORO
CONSTABLE (UB)
DIMA HASAO DISTRICT, DIMA HASAO (HAFLONG)
ASSAM

SHRI KRISHNA MOHAN DAS
CONSTABLE (UB)
DIMA HASAO DISTRICT, DIMA HASAO (HAFLONG)
ASSAM

SHRI BRIGHU SRINIVASAN
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PATNA ZONE, PATNA
BIHAR

SHRI SAURABH KUMAR
SUPERINTENDENT OF POLICE
RAILWAY, PATNA
BIHAR

SHRI SHASHI BHUSHAN PANDEY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CID HQ, PATNA
BIHAR

SMT. KUMARI ASHA THAKUR
INSPECTOR OF POLICE
VIGILANCE PATNA
BIHAR

SHRI JAGATPATI PRASAD KARNA
SERGEANT MAJOR
POLICE LINE, NALANDA
BIHAR

SHRI GIRDHARY KUMAR MISHRA
SUB-INSPECTOR
STATE VIGILANCE BUREAU, PATNA
BIHAR

SHRI SWAPAN KUMAR GHOSH
SUB-INSPECTOR
PHOTO SECTION, SPECIAL BRANCH, PATNA
BIHAR

SHRI DHANESHWAR ORAON
SUB-INSPECTOR (ARMED)
BMP-14, PATNA
BIHAR

SHRI MURLI MANOHAR SINGH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
NAXAL SECTION, SPECIAL BRANCH, PATNA
BIHAR

SHRI LAL BIHARI THAKUR
HAVILDAR
BMP-14, PATNA
BIHAR

SHRI BIRENDRA KUMAR GUPTA
SEPOY
SPECIAL BRANCH, PATNA
BIHAR

SHRI ASHOK KUMAR SINGH
SEPOY
BOMB DETECTION & DISPOSAL SQUAD
SPECIAL BRANCH, PATNA
BIHAR

SHRI YOGENDRA KUMAR SINGH
CONSTABLE
VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU, PATNA
BIHAR

SHRI INDRAJEET SINGH
CONSTABLE
VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU, PATNA
BIHAR

SHRI MUKESH GUPTA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE, PHQ RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI GURJINDER PAL SINGH
DIRECTOR
SPORTS AND YOUTH WELFARE, RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI PURUSHOTTAM GOUTAM
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE (SELECTION)
PHQ RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI MOTIRAM PIPPAL
COMPANY COMMANDER
1ST BN CAF, BHILAI
CHHATTISGARH

SHRI MAHARAJ SINGH RAWAT
PLATOON COMMANDER
12 TH BN CAF RAMANUJGANJ
CHHATTISGARH

SHRI OMPRAKASH SONI
ASSISTANT PLATOON COMMANDER
5TH BN CAF JAGDALPUR
CHHATTISGARH

SHRI THEOTIUS LAKRA
CONSTABLE
3RD BN CAF RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI ANIL KUMAR MITTAL
INSPECTOR
PRO BRANCH
N.C.T OF DELHI

SHRI KALI CHARAN
SUB-INSPECTOR
P. SEC./SPECIAL COMMISSIONER/ SPECIAL CELL
N.C.T OF DELHI

SHRI UDAY VIR SHARMA
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
PHQ
N.C.T OF DELHI

SMT. PUSHPA .
ASSISTANT SUB-INSPECTOR(W)
SOUTH DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI VIRENDER SINGH
HEAD CONSTABLE
DCP/ DEPARTMENTAL ENQUIRY CELL
PHQ, DARYA GANJ, DELHI.
N.C.T OF DELHI

SHRI BHOJ RAJ
HEAD CONSTABLE
SOUTH DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SMT. GYAN AMBA
HEAD CONSTABLE(WOMAN)
SECURITY UNIT, NEW DELHI
N.C.T OF DELHI

SHRI NIHAL SINGH
CONSTABLE
SOUTH DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI GRISH KUMAR
CONSTABLE
SOUTH DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI SATPAL SINGH
CONSTABLE
SOUTH DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI HARI KISHAN
CONSTABLE
SOUTH DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI KUSHAM PAL SINGH
CONSTABLE
COMMUNICATION, DELHI
N.C.T OF DELHI

SHRI GHANSHYAM DASS
CONSTABLE
CAW CELL/WEST DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI SURESH JAIRAM RAUT
SUB-INSPECTOR
READER TO DGP, PANAJI
GOA

SHRI FAZAL MAHMOOD GUARD
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (TRG.)
POLICE BHAVAN, GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI RAJENDRAKUMAR BRAHMBHATT
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CID IB, POLICE BHAVAN, GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI KANDARP S. TRIVEDI
UNARMED POLICE INSPECTOR
GUVNL POLICE STATION SABARMATI, AHMEDABAD
GUJARAT

SHRI BHUVA KARASHANBHAI RAMBHAI
POLICE INSPECTOR
O/O THE JOINT COMMISSIONER OF POLICE
CRIME BRANCH, AHMEDABAD CITY
GUJARAT

SHRI SAMANTSINH V. JADEJA
ARMED POLICE SUB INSPECTOR
O/O SUPERINTENDENT OF POLICE, BHAVNAGAR
GUJARAT

SHRI RAVINDRA VISHWANATH NIKAM
UNARMED POLICE SUB INSPECTOR
O/O OF THE IGP, SURAT RANGE, ATHWALINES
NEAR POLICE HQ, SURAT
GUJARAT

SHRI MOHAMMAD SALIM SATI
UNARMED POLICE SUB INSPECTOR
DCB, RAJKOT CITY
GUJARAT

SHRI TAJMAHMAD ABUBHAI SANDHI
UNARMED ASSISTANT SUB INSPECTOR
SOG DISTRICT, BHAVNAGAR
GUJARAT

SHRI SAHDEVSIKH KHODUBHA ZALA
UNARMED POLICE HEAD CONSTABLE
A .DIVISION, POLICE STATION, RAJKOT CITY
GUJARAT

SHRI HATHUBHA CHANDRASINH SARVAIYA
UNARMED HEAD CONSTABLE
LOCAL CRIME BRANCH DISTRICT, BHAVNAGAR
GUJARAT

SHRI PANDYA JITENDRAKUMAR NATVARLAL
UNARMED POLICE HEAD CONSTABLE
VIGILNCE BRANCH, O/O THE DG & IG OF POLICE
GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI DASHARATHSINH BARIA
INTELLIGENCE OFFICER
O/O ADGP, INTELLIGENCE, GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI PRADYUMANSINH VAJUBHA PARMAR
ARMED POLICE CONSTABLE
O/O SUPERINTENDENT OF POLICE, RAJKOT RURAL
DISTRICT RAJKOT
GUJARAT

SHRI NAVDEEP SINGH VIRK
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CRIME BRANCH, GURGAON
HARYANA

SHRI SHRIKANT JADHAV
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
HPA, MADHUBAN
HARYANA

DR. SUMAN MANJRI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
HPA, MADHUBAN
HARYANA

SHRI PARAMJIT SINGH AHLAWAT
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CRIME BRANCH, HISAR
HARYANA

SHRI NIHAL SINGH
INSPECTOR
SVB HQRS, PANCHKULA
HARYANA

SHRI TIRATH RAM
INSPECTOR
GRP AMBALA CANTT.
HARYANA

SHRI RAGHBIR SINGH
SUB-INSPECTOR
POLICE LINE, FARIDABAD
HARYANA

SHRI RAM KISHAN
SUB-INSPECTOR
READER TO COMMISSIONER OF POLICE, GURGAON
HARYANA

SHRI CHANDER PARKASH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
READER TO DCP/SOUTH, GURGAON
HARYANA

SHRI N. VENU GOPAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CID, SHIMLA
HIMACHAL PRADESH

SMT. PUNITA BHARDWAJ
SUPERINTENDENT OF POLICE,
SIRMAUR, DISTRICT SIRMAUR, SHIMLA
HIMACHAL PRADESH

SHRI DAULAT RAM
INSPECTOR
1ST IRB BANGARH, DISTT-UNA,
HIMACHAL PRADESH

SHRI RAJESH KUMAR YADAV
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
RPHQ, RAJOURI
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SHAFQAT ALI WATALI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SKR ANANTNAG
JAMMU AND KASHMIR

SHRI ASHOK KUMAR ATRI
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
SO TO IGP JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI AJIT LAL DOGRA
SUPERINTENDENT OF POLICE (SECURITY)
RAJ BHAWAN, JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI RAFI AHMAD MIR
SUPERINTENDE OF POLICE
SO TO DPT, JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SODAGAR MAL JANGRAL
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
JKAP 5TH BN.
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SHAMSHER SINGH SAMBYAL
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SDPO CITY, NORTH JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SYED FAYAZ AHMAD
INSPECTOR
SHO, NGO, HANDWARA
JAMMU AND KASHMIR

SHRI RAJINDER KUMAR BHARDWAJ
INSPECTOR
SHO GRP(J)
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MOHAMMAD ASHRAF RATHER
INSPECTOR
PHQ
JAMMU AND KASHMIR

SHRI FAYAZ AHMAD BANDAY
INSPECTOR (M)
NGO, PHQ
JAMMU AND KASHMIR

SHRI BASHIR AHMAD KUMAR
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (M)
PHQ
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SHOWKAT ALI
HEAD CONSTABLE
JKAP 13TH BN.DODA
JAMMU AND KASHMIR

SHRI B DAYANANDA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
STATE INTELLIGENCE, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI AMRIT PAUL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE & COMMANDER
ANTI-NAXAL FORCE, KARKALA, UDUPI DISTRICT
KARNATAKA

SHRI J. ARUN CHAKRAVARTHY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE & DIRECTOR
BMTCL, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI T.G. KRISHNA BHATTA
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
ADMINISTRATION, BENGALURU CITY
KARNATAKA

SHRI B. CHANDRAMOHAN SINGH
SUPERINTENDENT OF POLICE
INTELLIGENCE, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI SHIVALINGAPPA .
SUPERINTENDENT OF POLICE & COMMANDANT
HOME GUARDS & CIVIL DEFENCE ACADEMY, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI B JAYA BHANDARY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DCRB, PANDESHWARA MANGALORE
KARNATAKA

SHRI M. KRISHNAPPA,
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE CELL, MESCOM, MAROLI, MANGALORE
KARNATAKA

SHRI M. SHANKARAPPA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SPECIAL ENQUIRY, CID, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI N. RUDRAMUNI
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
HIRIYUR
KARNATAKA

SHRI N.T. PRAMODRAO
POLICE INSPECTOR
CSPS KUMTA
KARNATAKA

SHRI MOHAMED BUDAN
POLICE INSPECTOR
INTELLIGENCE, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI S K THAMMANNA SHASTRY
POLICE SUB-INSPECTOR
INTELLIGENCE, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI L. PUTTASWAMY
POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS)
DG CONTROL ROOM, BENGALURU
KARNATAKA

SHRI A.V. PRAKASH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (WIRELESS)
BENGALURU
KARNATAKA

SHRI K G PREMSHANKER
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
MD KSFDC
KERALA

SHRI A.J. THOMASKUTTY
SUPERINTENDENT OF POLICE
CB, CID OCW-1 MUTTADA PO THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI K VIJAYAN
SUPERINTENDENT OF POLICE,
CB CID OCW-III, PALAKKAD
KERALA

SHRI A. VENU GOPAL
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CB CID, EOW III, KOZHIKODE SUB UNIT, KOZIKODE
KERALA

SHRI V.B. SUKESAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
TELECOM HQRS, PATTOM, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI A.B. PONNAPPAN
SUB-INSPECTOR
VACB ERNAKULAM
KERALA

SHRI CHARLES ALEXANDER
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE (GRADE)
PETTAH POLICE STATION, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI R.S. JOHN
HEAD CONSTABLE (GRADE)
VACB SPECIAL CELL, MEDICAL COLLEGE PO
THIRUVNANTHAPURAM
KERALA

SHRI T.A. AJITH KUMAR
HEAD CONSTABLE (GRADE)
VACB SOUTHERN RANGE, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI RAJESH GUPTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
INTELLIGENCE, PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI SANJEEV SHAMI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SB, PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI VED PRAKASH SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
RATLAM RANGE, RATLAM
MADHYA PRADESH

SHRI ANANT KUMAR SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SAF RANGE, GWALIOR
MADHYA PRADESH

SHRI SANJAY TIWARY
ADC TO HE, THE GOVERNOR
BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI DEEPAK VERMA
SUPERINTENDENT OF POLICE (RAILWAY)
BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI BHAGWAT SINGH CHAUHAN
SUPERINTENDENT OF POLICE
NARSINGHPUR
MADHYA PRADESH

SHRI LAKHAN LAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
HOME GUARDS & CIVIL DEFENCE, HQ JABALPUR
MADHYA PRADESH

SHRI DEV PRAKASH GUPTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CHAMBAL RANGE, MORENA
MADHYA PRADESH

SHRI BAKSHISH SINGH BHULLAR
INSPECTOR
SB, PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI MANOJ KUMAR RATNAKAR
INSPECTOR
PS TIGRA, DISTRICT GWALIOR
MADHYA PRADESH

SHRI PARVEZ ANWAR KHAN
COMPANY COMMANDER
13TH BN SAF, GWALIOR
MADHYA PRADESH

SHRI KHOGRAJ SHARMA
HEAD CONSTABLE
MT, RADIO HEAD QUARTER, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI CHANDRA PRAKASH CHAUBEY
HEAD CONSTABLE
32ND BN SAF, UJJAIN
MADHYA PRADESH

SHRI RAKESH MOHAN DIXIT
INSPECTOR (M)
O/O IGP, GWALIOR ZONE, GWALIOR
MADHYA PRADESH

SHRI VIVEK PARANJPE
SUBEDAR (M)
SPECIAL BRANCH, PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

DR SUKHWINDER SINGH
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
A.T.S. MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI VINEET AGARWAL
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
CENTRAL REGION, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI RAMCHANDRA BABU KENDE
ASSISTANT COMMANDANT
SRPF TRAINING CENTRE, NANVEEJ, DAUND
MAHARASHTRA

SHRI SHANTARAM TUKARAM TAYADE
POLICE INSPECTOR
PUNE CITY
MAHARASHTRA

SHRI RAMESH PADMANABH MAHALE
POLICE INSPECTOR
DCB, CID, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI RAMESH JAYTEERTH PANDHARPUR
POLICE INSPECTOR
CID, M.S. PUNE
MAHARASHTRA

SHRI SUNIL LAXMAN DAREKAR
POLICE INSPECTOR
TRAFFIC CONTROL PUNE CITY
MAHARASHTRA

SHRI BAJIRAO RAJARAM BHOSALE
POLICE INSPECTOR
BHADRAKALI POLICE STATION, NASHIK CITY
MAHARASHTRA

SHRI SURESH TUKARAM MALVADKAR
POLICE WIRELESS INSPECTOR
WIRELESS TRAINING CENTRE, PUNE
MAHARASHTRA

SHRI VILAS BALKU GANGAWANE
POLICE INSPECTOR
DCB, CID, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI SANJAY ANAND TATHE
POLICE INSPECTOR
ACB, PUNE
MAHARASHTRA

SHRI DINESH MANOHAR KATKE
POLICE INSPECTOR
ACB, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI RAJENDRA VASANT GALANDE
POLICE INSPECTOR
ACB, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI DINESH PARSHURAM KADAM
POLICE INSPECTOR
A.T.S MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI PRALHAD NIVRUTTI KHADE
ARMED POLICE INSPECTOR
SRPF GR. XI, NAVI MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI SATISH RAGHUVIR GOVEKAR
POLICE INSPECTOR
C.P. OFFICE, PUNE CITY
MAHARASHTRA

SHRI SOMNATH RAMCHANDRA SHETKAR
ASSISTANT POLICE INSPECTOR
SB (II) CID, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI AHMEDKHAN SHAHJADEKHAN PATHAN
ARMED ASSISTANT SUB-INSPECTOR
SRPF GR. VI, DHULE
MAHARASHTRA

SHRI DATTATRAY DHONDIRAM POWAR
ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
KURUNDWAD POLICE STATION, KOLHAPUR
MAHARASHTRA

SHRI BHASKAR BHIMAJI AVHAD
ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
DCB, CID, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI SHIVRAM NARSINGRAO GURUTWAD
ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
ACB, NANDED
MAHARASHTRA

SHRI ISHWAR VAIJU CHIMANE
ARMED ASSISTANT SUB-INSPECTOR
SRPF GR. XI, NAVI MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI SHRIPATRAO MASU GORULE
ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
AGRIPADA POLICE STATION, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI ANIL NARAYAN JADHAV
ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
GOREGAON POLICE STATION, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI SAYAJI BHIVA TANDALEKAR
ARMED ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
SRPF GR. VIII, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI RAMESH BABURAO BARGE
ASSISTANT POLICE SUB-INSPECTOR
ANTI CORRUPTION BUREAU, PUNE
MAHARASHTRA

SHRI RAMDAS MOTIRAM DEORE
POLICE HEAD CONSTABLE
LOCAL CRIME BRANCH, NANDURBAR
MAHARASHTRA

SHRI DHARMARAJ DATTATRAY BHOIR
POLICE HEAD CONSTABLE
ANTI CORRUPTION BUREAU, RAIGAD
MAHARASHTRA

SHRI ANANDA SHANKAR DAVANE
POLICE HEAD CONSTABLE
N.M. JOSHI MARG POLICE STATION, MUMABI CITY
MAHARASHTRA

SHRI CHANDU KHANDU PACHARNE
ARMED POLICE HEAD CONSTABLE
SRPF, GR. II, PUNE
MAHARASHTRA

SHRI PRAFUL MADHUKAR PATIL
POLICE HEAD CONSTABLE
DCB CID, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI MAJHAR SAFDAR SHAIKH
POLICE HEAD CONSTABLE
P.C.R. DHULE
MAHARASHTRA

SHRI SUNIL CHANDRAKANT GONDHALI
POLICE HEAD CONSTABLE
ACB, RAIGARH
MAHARASHTRA

SHRI NASIRKHAN MIRSAHEB PATHAN
POLICE HEAD CONSTABLE
KARVIR POLICE STATION, KOLHAPUR
MAHARASHTRA

SHRI THIANGHLIMA PACHUAU
INSPECTOR GENERAL OF POLICE (ADM)
PHQ IMPHAL
MANIPUR

SHRI RAGHAVA RAMESAN
HAVILDAR
5TH IRB, THENGUCHINGJIN,
IMPHAL EAST DISTRICT
MANIPUR

SHRI ARAMBAM LOKHENDRO SINGH
HAVILDAR
5TH IRB, THENGUCHINGJIN, IMPHAL EAST DISTRICT
MANIPUR

SHRI SINGAM INAOCHA SINGH
HAVILDAR
MPTC, PANGEI I/E PO PANGEI
MANIPUR

SHRI SEMINAR S. KYNJING
PRINCIPAL
POLICE TRAINING SCHOOL, SHILLONG
MEGHALAYA

SHRI HARIMOHAN HAZUARY
COMPANY HAVILDAR MAJOR
I MLP, TRAINING CENTRE
MEGHALAYA

SHRI H. RAMTHLEGLIANA
COMMANDANT
2ND IRB, KHAWZAWL
MIZORAM

SHRI LALRINTHANGA RALTE
INSPECTOR
CID SB
MIZORAM

SHRI LHIMATHUNGRI THECHAMO LOTHĀ
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (ADMN)
PHQ KOHIMA
NAGALAND

SHRI RADHA KISHAN SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SOUTHERN RANGE, BERHMAPUR
ORISSA

SMT RITU ARORA
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
BHUBANESWAR, CUTTACK
ORISSA

SHRI SAUMYENDRA KUMAR PRIYADARSI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SWR, KORAPUT
ORISSA

SHRI AKSHAYA KUMAR SAHOO
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE DIVISION, SAMBALPUR
ORISSA

SHRI GURUDAS KUNDU
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DPO, CUTTACK
ORISSA

SHRI NIRAMAL KUMAR SATAPATHY
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE (ARMED)
OSAP, 7TH BN., BHUBANESWAR
ORISSA

SHRI RAGHUNATH BEHERA
HAVILDAR MAJOR
OSAP, 4TH BN., ROURKELA
ORISSA

SHRI NIRANJAN BHOL
CONSTABLE
STATE HRPC, CUTTACK
ORISSA

SHRI VARINDER KUMAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
JALANDHAR
PUNJAB

SHRI NARESH KUMAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE-I, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI PARAMRAJ SINGH UMRANANGAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
LUDHIANA
PUNJAB

SHRI HARINDER SINGH CHAHAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
FEROZEPUR
PUNJAB

SMT ANITA PUNJ
DEPUTY DIRECTOR
SVP NPA, HYDERABAD
PUNJAB

SHRI ANANYA GAUTAM
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE-II
CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI RAM SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
BORDER RANGE, AMRITSAR
PUNJAB

SHRI B CHANDRA SEKHAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CISF, NISA, HYDERABAD
PUNJAB

SHRI SATINDER SINGH
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
HQRS & SECURITY, JALANDHAR
PUNJAB

SHRI JATINDER SINGH AULAKH
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
RUPNAGAR
PUNJAB

SHRI MUKAND SINGH MALHI
SUPERINTENDENT OF POLICE
STAFF OFFICER TO DGP, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI SUMAN KUMAR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
PPA, PHILLAUR
PUNJAB

SHRI SATPAL SINGH
INSPECTOR
4TH IRB, KAPURTHALA
PUNJAB

SHRI JAGDEV SINGH
INSPECTOR (LR)
VIGILANCE BUREAU FS-II
PATIALA
PUNJAB

SHRI DEEPAK MALIK
SUB INSPECTOR
CID/HQRS, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI SHIVDEV SINGH
HEAD CONSTABLE
DPO RUPNAGAR
PUNJAB

SHRI ANAND KUMAR SRIVASTAVA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ANTI TERRORIST SQUAD, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI ASHOK KUMAR RATHORE
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ARMED BATTALIONS-I, JAIPUR
RAJASTHAN

DR (SMT) MALINI AGARWAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION & MD, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI HARI RAM GAHLOT
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SRIGANGANAGAR CITY, SRIGANGA NAGAR DISTRICT
RAJASTHAN

SHRI KAILASH CHANDRA CHAUHAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CID (SSB), C.M SECURITY, JAIPUR,
RAJASTHAN

SHRI RAM SINGH CHARAN
INSPECTOR OF POLICE
POLICE TRAINING SCHOOL, JODHPUR
RAJASTHAN

SHRI GOP SINGH
SUB-INSPECTOR
O/O THE SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTRICT JALORE
RAJASTHAN

SHRI ROHINI RAMAN DHABHAI
ASSISTANT SUB INSPECTOR (TECH)
POLICE TELE COMMUNICATION, JAIPUR,
RAJASTHAN

SHRI DULI CHAND
HEAD CONSTABLE
5TH BN, RAC, JAIPUR,
RAJASTHAN

SHRI CHAINA RAM SUTHAR
HEAD CONSTABLE
1ST BN, RAC, JODHPUR,
RAJASTHAN

SHRI NARENDRA SINGH
HEAD CONSTABLE
GRP LINE, AJMER,
RAJASTHAN

SHRI SHARFUDDIN KHAN
HEAD CONSTABLE
O/O THE SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTRICT
KARALI
RAJASTHAN

SHRI KAILASH CHANDRA
HEAD CONSTABLE
CID (CB) JAIPUR,
RAJASTHAN

SHRI PRITAM SINGH
HEAD CONSTABLE
5TH BN RAC, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI GIRDHARI LAL JAT
CONSTABLE
O/O THE DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
CIRCLE OFFICE NAWALGARH, DISTRICT JHUNJHUNU
RAJASTHAN

SHRI SUJA RAM VERMA
CONSTABLE
CID (CB), JAIPUR,
RAJASTHAN

SHRI CHANDRA PAL GURUNG
SUB-INSPECTOR
RESERVE LINES
SIKKIM

SHRI P C LALLAWM SANGA
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
COASTAL SECURITY GROUPS, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI S. NIZAMUDDIN
SUPERINTENDENT OF POLICE
TRICHY DISTRICT
TAMIL NADU

SHRI B SUBRAMANIAM
SUPRINTENDENT OF POLICE
VIDEO PIRACY CELL, CB CID, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI F M HUSSAIN
SUPERINTENDENT OF POLICE
TAMIL NADU COMMANDO SCHOOL, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI S ABDUL KANI
COMMANDANT
TAMIL NADU SPECIAL POLICE X BATTALION,
ULUNDURPET
TAMIL NADU

SHRI S. SUBBAIYAA
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
SPECIAL INVESTIGATION CELL, V&AC, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI R. MOHAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SPECIAL BRANCH CID, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI P. NACHIMUTHU
ASSISTANT COMMANDANT
XIV BATTALION, PALANI
TAMIL NADU

SHRI S. MARAKATHASUNDARAM
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
Q BRANCH, CID, MADURAI
TAMIL NADU

SHRI K.N MURALI
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
THORAIPAKKAM RANGE, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI K. PERIASAMY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CCIW, CID, SALEM
TAMIL NADU

SHRI R. RENGARAJAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
V&AC, THANJAVUR
TAMIL NADU

SHRI P. BALASUBRAMANIAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
V&AC, THENI,
TAMIL NADU

SHRI R. KRISHNASAMY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
V&AC, VELLORE
TAMIL NADU

SHRI C. PANCHATCHARAM
INSPECTOR OF POLICE
TAMILNADU COMMANDO SCHOOL, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI K. SABARINATHAN
SUB INSPECTOR OF POLICE
CENTRAL INVESTIGATION UNITS, O/O IGP ENFORCEMENT,
CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI N. ARUMUGAM
SUB INSPECTOR OF POLICE
ARMED RESERVE, SIVAGANGAI DISTRICT
TAMIL NADU

SHRI A MOHAN
SPECIAL SUB INSPECTOR OF POLICE
TAMIL NADU COMMANDO SCHOOL, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI K. KADHARKHAN
HEAD CONSTABLE
SPECIAL TASK FORCE, ERODE
TAMIL NADU

SHRI NITYANANDA DEBNATH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE (DIB)
AGARTALA, DISTT- WEST TRIPURA
TRIPURA

SHRI JAY PRAKASH YADAV
NAIB SUBEDAR (GD)
HQ 1ST BN TSR GOKULNAGAR, WEST TRIPURA
TRIPURA

SHRI RAKHAL CHANDRA CHOWDHURY
SUB INSPECTOR (UB)
SB (HQS), AGARTALA
TRIPURA

SHRI PRITISH BHATTACHARJEE
INSPECTOR OF POLICE
O/O SP (CID), AGARTALA
TRIPURA

SHRI DHRUVA KANT THAKUR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE /
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI PRAKASH D
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE /
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
BAREILLY
UTTAR PRADESH

SHRI JAI NARAYANA SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE /
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
MEERUT
UTTAR PRADESH

SHRI MUTHA ASHOK JAIN
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE /
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
KANPUR NAGAR
UTTAR PRADESH

SHRI RAJ KUMAR
DEPUTY INSPECTOR OF GENERAL OF POLICE
AZAMGARH RANGE, AZAMGARH
UTTAR PRADESH

SHRI DEEPAK KUMAR BHATT
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
PHQ ALLAHABAD
UTTAR PRADESH

KM SADHANA GOSWAMI
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI KARAN SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
PTS MORADABAD
UTTAR PRADESH

SHRI CHANDRIKA PRASAD
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
LIU DISTRICT GORAKHPUR
UTTAR PRADESH

SHRI AVINASH CHANDRA PANDEY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
INTELLIGENCE HQRS. LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI JAIDEO SINGH TOMAR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT FATEHPUR
UTTAR PRADESH

SHRI DHARAM SINGH MARCHHAL
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT VARANASI
UTTAR PRADESH

SHRI RAM KISHAN MAGAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
PCL KANPUR
UTTAR PRADESH

SHRI JANARDAN TEWARI
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT ALLAHABAD
UTTAR PRADESH

SHRI VIJAY KAPIL
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
LIU, DISTRICT AGRA
UTTAR PRADESH

SHRI SATISH KUMAR SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT ETAH
UTTAR PRADESH

SHRI CHANDRA PAL SHARMA
STATE RADIO OFFICER
LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI GHIRAU OJHA
CONSTABLE
ARMED POLICE, POLICE LINE, DEORIA
UTTAR PRADESH

SHRI SHAHNEWAJ
PLATOON COMMANDER
39 BN PAC, MIRZAPUR
UTTAR PRADESH

SHRI SUDHIR KUMAR PANDEY
INSPECTOR
SPECIAL INVESTIGATION TEAM, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI KALU RAM
INSPECTOR
CIVIL POLICE, E O W, MEERUT
UTTAR PRADESH

SHRI KUNWAR PAL SINGH
HEAD CONSTABLE (P)/ITI
DR. B R A POLICE ACADEMY, MORADABAD,
UTTAR PRADESH

SHRI RAM SANEHI
HEAD CONSTABLE
ARMED POLICE, POLICE LINE, RAMABAINAGAR
UTTAR PRADESH

SHRI NAND LAL SINGH
CONSTABLE/DRIVER
DISTRICT JAUNPUR
UTTAR PRADESH

SHRI SIRAJ AHAMAD
CONSTABLE
DISTRICT AZAMGARH
UTTAR PRADESH

SHRI BRIJ RAJ SINGH
CONSTABLE
CIVIL POLICE, DISTRICT KANNAUJ
UTTAR PRADESH

SHRI SADRE ALAM
SUB INSPECTOR (MT)
34 BN PAC, VARANASI
UTTAR PRADESH

SHRI BHAGWATI PRASAD KHANDURI
SUB INSPECTOR (M)
CB CID, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI RAMSABAD PANDEY
SUB INSPECTOR
CIVIL POLICE, DISTRICT ETAWAH
UTTAR PRADESH

SHRI BHARAT RAJ SINGH
SUB INSPECTOR
CIVIL POLICE, DISTRICT FAIZABAD
UTTAR PRADESH

SHRI OM PRAKASH MISHRA
DEPUTY INSPECTOR (M)/STENO
INTELLIGENCE HQRS, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI VIRENDRA KUMAR
INSPECTOR
CIVIL POLICE, DISTRICT LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI RAJMANI MISHRA
CONSTABLE
CIVIL POLICE, DISTRICT RAIBARELI
UTTAR PRADESH

SHRI KUMAR VISHWAJEET
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (P&M)
PHQ DEHRADUN
UTTARAKHAND

SHRI DEEPAM SETH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ADDITIONAL SECRETARY HOME &
ADDITIONAL SECRETARY TO CHIEF MINISTER
SECRETARIAT ANNEXE, DEHRADUN
UTTARAKHAND

SHRI POORAN SINGH RAWAT
SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT ALMORA
UTTARAKHAND

SHRI RAMESH CHANDRA JOSHI
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
ATC, HARIDWAR
UTTRAKHAND

SHRI RAM KALYAN ADHIKARI
SPECIAL INSPECTOR GENERAL &
DEPUTY INSPECTOR GENERAL(CID)
KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI SHASHIKANT PUJARI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
MALDA RANGE, PO- BELTALA PARK, BALURGHAT,
DISTRICT DAKSHIN DINAJPUR,
WEST BENGAL

SHRI UTSAB KUMAR MOULICK
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
RESERVE FORCE - 18, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI BISWANATH SARKHEL
INSPECTOR OF POLICE
VIGILANCE COMMISSION, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI BIDYUT KUMAR ROY
INSPECTOR OF POLICE
TRAFFIC DEPARTMENT, SOUTH DIVISION, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI CHANDIKA PROSAD OJHA
SUBEDAR OF POLICE
6TH BN, KAP B G LINES, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI TAPAN KANTI GHOSH
SUB INSPECTOR OF POLICE
IB, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI PARTHA PRATIM GUHA
SUB INSPECTOR
PTC, BARRACKPORE
WEST BENGAL

SHRI JAYANTA CHANDA
SUB INSPECTOR
CID
WEST BENGAL

SHRI SWAPAN KUMAR PAUL
SUB INSPECTOR (UB)
EB, ALIPORE, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI PRADIP SINGH DAMAI
POLICE DRIVER
PTC, BARRACKPORE
WEST BENGAL

SHRI PRASANTA DHARA
CONSTABLE
PTC, BARRACKPORE
WEST BENGAL

SHRI RAM CHANDRA RAJAK
CONSTABLE
TRAFFIC BRANCH HQ
WEST BENGAL

SHRI BISWADEB MAJUMDER
CONSTABLE
IB, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI ASHUTOSH CHAKRABORTY
CONSTABLE
TRAFFIC (S), CID
WEST BENGAL

SHRI MANARANJAN SOREN
CONSTABLE
TRAFFIC (S)
WEST BENGAL

SHRI RADHASHYAM MAITY
CONSTABLE
DAP BANKURA
WEST BENGAL

SHRI DIPANKAR CHAKRABORTY
ASSISTANT SUB INSPECTOR (OFFICIATING)
DAP (HQ)
WEST BENGAL

SHRI MAHADEV BAR
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE (UB)
TELECOM HQRS, 3 MANIK BANDOPADHYAY SARANI,
TOLLYGUNGE, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI SAWLESS XESS
SUB INSPECTOR
OUT POST KISHORI NAGAR
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

SHRI RAMESHSINH MOHANSINH CHAUHAN
POLICE SUB INSPECTOR
PIPARIYA OUT POST
DADRA AND NAGAR HAVELI

SHRI MOHANLAL RAMBHAI ROHIT
POLICE INSPECTOR
INCHARGE TRAFFIC CELL
DAMAN AND DIU

DR. V.J. CHANDRAN
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE/ COMMANDANT
IR Bn, PHQ, NO.2, DUMAS STREET
PUDUCHERRY

SHRI ADHIMOOLAM GUNASEGARAN
ADC TO LT GOVERNOR/ SUPERINTENDENT OF POLICE
LT. GOVERNOR'S SECTT., RAJ NIVAS,
PUDUCHERRY

DR. HIRA SINGH MARTOLIA
DIRECTOR (MEDICAL)
FHQ, SHILLONG
ASSAM RIFLES

SHRI SASHIDHARAN AV
SUBEDAR MAJOR (CLERK)
FHQ, SHILLONG
ASSAM RIFLES

SHRI RAMESH CHANDRA
SUBEDAR MAJOR,
4 ASSAM RIFLES , SERCHHIP (MIZORAM) C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI RAJENDRA PRASAD GAUR
NAIB SUBEDAR (GENERAL DUTY)
6 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI BACHI SINGH
SUBEDAR MAJOR
SOMSAI, 17 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI GAJENDER SINGH
NAIB SUBEDAR (GENERAL DUTY)
KEITHELMANBI (MANIPUR), 28 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI BAL BAHADUR THAPA
NAIB SUBEDAR (GENERAL DUTY)
KEITHELMANBI (MANIPUR), 28 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI DINA NATH
SUBEDAR
BISHNUPUR (MANIPUR), 33 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI SHASTI BALLABH BHATT
NAIB SUBEDAR (CLERK)
LOAR DELHI
ASSAM RIFLES

SHRI LOKA NAND JOSHI
NAIB SUBEDAR (CLERK)
HQ 26 SECTOR, ASSAM RIFLES C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI SAFDAR IMAM
HAVILDAR (CLERK)
COMPOSITE HOSPITAL SHOKHUVI,
PO-DIMAPUR (NAGALAND)
ASSAM RIFLES

SHRI DUNGAR SINGH BIJETA
HAVILDAR
FHQ, SHILLONG
ASSAM RIFLES

DR KRISHAN DUTT SHARMA
INSPECTOR GENERAL (MEDICAL)
CH. KADAMTALA, PO-SILLIGURI
DISTRICT DARJEELING, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PRAKASH CHANDRA SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (WELFARE)
ADMINISTRATIVE DIRECTORATE, FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MAHINDER PAL SINGH KHURANA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
AM FTR, PO-UMPLING, SHILLONG, MEGHALAYA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PARVINDER SINGH BAINS
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ, GURDASPUR, PUNJAB
BORDER SECURITY FORCE

SHRI INDRA DYUMN SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
BSF ACADEMY, TEKANPUR, GWALIOR, MADHYA
PRADESH
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MOHD. FAREED KHAN
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FTR HOR, MALDA, VILL-ARADHPUR,
PO- NARAYANPUR, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI AJMAL SINGH KATHAT
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ BEHRAMUR, PO- ROSHANBAGH,
DISTRICT MURSHIDABAD, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI VIRENDRA KUMAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ, BHUJ, KUTCH, GUJARAT
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SUNIL KUMAR TYAGI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
HQ, IG (SPL OPS), NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI UMESH KUMAR NAYAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ, MALDA, P.O. NARAYANPUR,
DISTRICT MALDA, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BALKISHAN TOKAS
SECOND-IN-COMMAND
SHQ, PALORA CAMP, JAMMU
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SANT SINGH CHAUHAN
DEPUTY COMMANDANT
122 BN. PALOURA CAMP, JAMMU
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JAMAN SINGH
DEPUTY COMMANDANT
182 BN., C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PARTHA SARTHI LAHIRI
DEPUTY COMMANDANT
SHQ, KOLKATA, P.O. ALAM BAZAR, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI DAMMAR SINGH GURUNG
DEPUTY COMMANDANT
126 BN. KOLKATA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAJENDRA BAHADUR MISHRA
DEPUTY COMMANDANT
35 BN., DHANAKGRE, PO- NEW TURA
DISTRICT WEST GARO HILLS, MEGHALAYA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BALBIR SINGH SANDHU
DEPUTY COMMANDANT/EE (CIVIL)
AM, FTR, PO- UMPLING, SHILLONG, MEGHALAYA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SATPAL DOGRA
ASSISTANT COMMANDANT
182 BN. C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SURENDRA SINGH RAUTELA
ASSISTANT COMMANDANT
2 BN. PANTHACHOWK, SRINAGAR, J&K
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SUDHAKARAN C.K.
ASSISTANT COMMANDANT
118 BN. PO- DHARMANAGAR, PANISAGAR, TRIPURA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ALEX KOCHUKOSHY
ASSISTANT COMMANDANT
FTR HQ, M&C, MASIMPUR, PO- ARUNACHAL
DISTRICT CACHAR, ASSAM
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SATVIR SINGH SHARMA
ASSISTANT COMMANDANT
8 BN. PO- BHONDSI, DISTRICT GURGAON, HARYANA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KADABA VENKATACHALAPATHY SRIDHARA
ASSISTANT COMMANDANT/PS
HQ IG (SPL OPS), NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ASHOK KUMAR PESHIN
ASSISTANT COMMANDANT (MIN)
HQ IG (SPL OPS), NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SUDHIR KUMAR MISHRA
ASSISTANT COMMANDANT
25 BN. FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MAHA SINGH
INSPECTOR
60 BN. PO-ROHANBAG
DISTRICT MURSHIDABAD, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAJVIR SINGH
INSPECTOR
CSWT, INDORE, MADHYA PRADESH
BORDER SECURITY FORCE

SHRI S. RANGANATHAN
INSPECTOR
82 BN. PO- KARAHALLI, BANGALORE, KARNATAKA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI CHANDER SINGH
INSPECTOR
137 BN. PO-NAGPUR, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAM SINGH
INSPECTOR
161 BN. BARMER, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MEER BUX KHAN
INSPECTOR
59 BN., PO- PAINTHI, SAMBA, J&K
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAN SINGH
INSPECTOR
PERSONNEL DIRECTORATE, FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAM CHANDER YADAV
INSPECTOR (MIN)
TRAINING DIRECTORATE, FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ARAKKAL CHACKO JOSE
INSPECTOR/PA
FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ARUN KUMAR MISHRA
INSPECTOR/ PHARMACIST
FHQ, HOSPITAL-II, TIGRI, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SUBE SINGH
SUB-INSPECTOR
DIG (HQ) FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE .

SHRI SHAMSHER SINGH
SUB-INSPECTOR
54 BN. JAISALMER, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MAHENDRA KUMAR
SUB-INSPECTOR
182 BN. C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI OM PRAKASH
SUB-INSPECTOR (MIN)
98 BN. PO- MAWPAT, SHILLONG
BORDER SECURITY FORCE

SHRI K MADHAVAN PILLAI
SUB-INSPECTOR /CIPHER
126 BN. MOHANPUR, DISTRICT NADIA, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI NARAYAN SINGH
SUB-INSPECTOR (FITTER)
FTR HQ, M&C, MASIMPUR
DISTRICT CACHAR, ASSAM
BORDER SECURITY FORCE

SHRI FAQUIR HUSSAIN
HEAD CONSTABLE
161 BN. JALIPA, BARMER , RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI DHAN SINGH
CONSTABLE/WC
HAZARIBAGH TC&S, MERU, JHARKHAND
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RANBIR SINGH
CONSTABLE/SWEEPER
61 BN, KHASIAMANGAL, TELIAMURAH, TRIPURA(WEST)
BORDER SECURITY FORCE

DR. VINAY BHARATI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL(MEDICAL SUPERINTENDENT)
CH BSF, JODHPUR, PO-BSF CAMPUS,
DISTRICT JODHPUR, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI S SURESH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ACB JAIPUR
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI P S SALUNKE
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ACB MUMBAI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI G. NAGESWARA RAO
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ACB VISHAKHAPATNAM
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI DEEPAK KUMAR KABI
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
ROURKELA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI ASHESH KUMAR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
AHD RANCHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI PARTHA MUKHERJEE
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
ACB KOLKATA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI M. SUNDARAVEL
INSPECTOR OF POLICE
SU CHENNAI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI PRABHANJAN CHAKRABORTY
INSPECTOR OF POLICE
ACB PATNA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SMT. CHANDA RANI
INSPECTOR OF POLICE
BS&FC BANGALORE
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI ISHWAR SINGH
SUB INSPECTOR OF POLICE
EO-I NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI AJEET SINGH
SUB INSPECTOR OF POLICE
EO-III NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI KAILASH SHIVANNA BORE
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
ACB NAGPUR
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI AMAR SINGH
HEAD CONSTABLE
SC-II, NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI NARESH KUMAR
HEAD CONSTABLE
SU DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

MOHD MAHMOOD ALI KHAN
HEAD CONSTABLE
CBI ACADEMY, GHAZIABAD
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI TRIBHUWAN SHANKAR
CONSTABLE
ACB, DEHRADUN
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI AJIT NARAYAN MAHAPATRA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
APS (E & NE), HQR KOLKATA
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI HONGUTHI HANUMANTHAPPA
SENIOR COMMANDANT
BDL KANCHANBAGH
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI KRISHNA KANT SRIVASTAVA
INSPECTOR
ASG, BANGALORE
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI GOPALA KRISHNAN NAIR
INSPECTOR
NISA, HYDERABAD
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SUNIL KUMAR SINGH
INSPECTOR
LUCKNOW AIRPORT
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BIRENDRA NATH JANA
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
UNIT DSP DURGAPUR, DISTRICT BURDWAN, WEST
BENGAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI K. KANNAN
SUB-INSPECTOR
VSP VISAKHAPATNAM
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI S. RAVINDRAN
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
NHPC, SUBANSRI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SURENDER PRASAD YADAV
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
UNIT BSP BHILAI, SECTOR-I
DISTRICT DURG, CHHATTISHGARH
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI GURDEV SINGH
HEAD CONSTABLE
NFC, HYDERABAD
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI HUKUM CHAND CHAUHAN
HEAD CONSTABLE
ISP BURNPUR, BURDWAN, WEST BENGAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI K. SANTA RAM
HEAD CONSTABLE
RTC ARAKKONAM, VELLORE DISTRICT, TAMILNADU
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI KAMALAKAR DWIVEDI
HEAD CONSTABLE
BSP BHILAI, SECTOR-1, DISTRICT DURG, CHHATTISHGARH
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI M.H. CHALWETKAR
HEAD CONSTABLE
BANGALORE AIRPORT
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI NARAYANA SRIDHARAN
HEAD CONSTABLE
AIRPORT LUCKNOW,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI R. RAVEENDRAN PILLAI
HEAD CONSTABLE
NFC HYDERABAD
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RADHEY SHYAM SAINI
HEAD CONSTABLE
ONGC, NAZIRA, DISTRICT SIVSAGAR, ASSAM
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RAMESHWAR SINGH
HEAD CONSTABLE
ISP BURNPUR, BURDWAN (WEST BENGAL)
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI ADIKANDA DEY
CONSTABLE/SWEEPER
RSP ROURKELA (ORISSA)
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI B NAGA RAMESH
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SPL SECTOR, TELEBANDHA, RAIPUR (CHHATTISHGARH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BHANU PRATAP SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
O/O IGP, BIHAR SECTOR, PATNA (BIHAR)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JASBIR SINGH SANDHU
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
GWALIOR RANGE HQRS, NAYAGAON, GWALIOR (MP)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAKESH SINGH CHAUHAN
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
RTC, DHARAMPUR, DISTT SOLAN (HP)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JAIDEEP MISRA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
O/O IGP (OPS) KASHMIR, ZEWAN CAMP-II,
SRINAGAR(J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAJEEV KUMAR SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
O/O IGP, RAF, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. RAJASRI NAIK
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (MEDICAL)
COMPOSITE HOSPITAL, BHUBANESWAR(ORISSA)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NEERAJ KUMAR
COMMANDANT
101 BN RAF, SHANTIPURAM, PO-PHAPHAMAU,
DISTRICT ALLAHABAD (UTTAR PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SANDEEP YADAV
COMMANDANT
111 BN, KARLI, DANTEWADA (CHHATTISHGARH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DARSHAN LAL GOLA
COMMANDANT
91 BN, SEC-G, ASSHIYANA, LUCKNOW(UTTAR PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAJEEV RANJAN KUMAR
COMMANDANT
O/O DIGP, C-WING, KENDRIYA SADAN
CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAVINDRA KUMAR SHARMA
COMMANDANT
RTC, HUMHAMA, SRINAGAR (J&K), C/O 56 APO
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. PURNA CHANDRA TRIPATHY
CHIEF MEDICAL OFFICER (SG)
COMPOSITE HOSPITAL, HYDERABAD (ANDHRA PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR SURENDERA KUMAR PARIMAL
CHIEF MEDICAL OFFICER (SG)
COMPOSITE HOSPITAL, NEEMUCH (MADHYA PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SARABJIT SINGH GHUMAN
SECOND-IN-COMMAND
O/O DIGP, GANDHINAGAR RANGE
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BINAY KUMAR
SECOND-IN-COMMAND
136 BN, VILL-SARIAHTOLI, PO MILANPUR
DISTRICT NALBARI (ASSAM)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RESHAM SINGH
SECOND-IN-COMMAND
O/O DIGP, CHENNAI RANGE, AVADI,
CHENNAI (TAMIL NADU)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI LAXMAN KESHAV
DEPUTY COMMANDANT
55 BN, BAWANA, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KISHORE CHETTRI
DEPUTY COMMANDANT
GROUP CENTRE, JHARODAKALAN, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PARTAP SINGH
DEPUTY COMMANDANT
132 BN, SRINAGAR, C/O 56 APO
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SUBHASH CHAND
DEPUTY COMMANDANT
6 BN, SHIVSHAKTI DHARMA SHALA, KATRA (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURESH CHANDRA SHARMA
ASSISTANT COMMANDANT
120 BN, TURA (MEGHALAYA)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JAGMAL SINGH
ASSISTANT COMMANDANT
GROUP CENTRE-II, AJMER (RAJASTHAN)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHAMBHU DAYAL
ASSISTANT COMMANDANT
70 BN, BAWANA, DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI K. SASIDHARAN
JOINT ASSISTANT DIRECTOR
PAO, MAHAVIRNAGAR, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI T K SASIDHARAN
SECTION OFFICER
COMMUNICATION BRANCH, FHQ NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHIBA PADA SARKAR
ADMINISTRATIVE OFFICER
GROUP CENTRE, SINDRI DHANBAD (JHARKHAND)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI UNNI KRISHNAN KALLINGAL
SENIOR PERSONAL SECRETARY
O/O SPECIAL DG, J&K ZONE, JAMMU(J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SMT. PHILOMENA BABY
SISTER IN -CHARGE
COMPOSITE HOSPITAL, AJMER (RAJASTHAN)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PRABASH CHANDER PANDEY
INSPECTOR
119 BN, POLICE COMPLEX, JORHAT (ASSAM)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ANESO SINGH
INSPECTOR
180 BN, TRAL, DISTT-PULWAMA (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURAT SINGH
INSPECTOR
GROUP CENTRE, JHAPHAN, MUZAFFARPUR (BIHAR)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ABDUR RAHMAN CHOUDHARY
INSPECTOR
GROUP CENTRE, GANDHI NAGAR, GUJARAT
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BABULAL YADAV
INSPECTOR/RO
3RD SIGNAL BN, SECTOR-5, KOLKATA(WEST BENGAL)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RATAN SINGH SEKHAWAT
SUB INSPECTOR
160 BN, CHENNAI, HIMMAT, JAMMU (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BALRAM RAM
SUB INSPECTOR
26 BN, CHAS BOKARO, JHARKHAND
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI HUKAM SINGH
SUB INSPECTOR
O/O THE DIGP, GROUP CENTRE, BANGRASIA
BHOPAL (MADHYA PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURENDER SINGH
SUB INSPECTOR
29 BN, RAWALPORA, SRINAGAR (J&K) C/O 56 APO
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BALKAR SINGH
SUB INSPECTOR /MT
151 BN, PREET NAGAR JAMMU (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ASHARFI SINGH
SUB INSPECTOR
35 BN, HUMHAMA, SRINAGAR , 56 APO (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MANI MOHAN SHARMA
SUB INSPECTOR
120 BN, TURA (MEGHALAYA)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DINA NATH RAM
SUB INSPECTOR
101BN,RAF, ALLAHABAD (UTTAR PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAM NANDAN SHARMA
PHARMACIST (GRADE-I)
COMPOSITE HOSPITAL, DAYAPUR, SILCHAR, PO-
UDHARBAND, DISTRICT CACHAR (ASSAM)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ANANT RAM
HEAD CONSTABLE
13 BN, AMRITSAR (PUNJAB)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MOHAMAD HAFIZ KHAN
HEAD CONSTABLE
86 BN, LAMPHELPAT, IMPHAL (MANIPUR)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI P KANNIAPPAN
HEAD CONSTABLE
22 BN, HAZARIBAGH, JHARKHAND
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHAMSHER SINGH
HEAD CONSTABLE
122 BN, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI TILAK SINGH
CONSTABLE
O/O THE DIGP, BHARNI BILASPUR (CHHATTISHGARH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KAMLA PRASAD
WATER CARRIER
2ND BN SABRI NAGAR, SUKMA, DENTEWARA,
CHHITISGARH
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI HARI SINGH
CONSTABLE/BARBER
155 BN, BOKAJAN, KARBI, ANGLONG, ASSAM
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ARVIND KUMAR
DEPUTY DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI MANMEET SINGH NARANG
DEPUTY DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DR (SMT) PRASHAKHA MATHUR
DEPUTY DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI JAG MOHAN
DEPUTY DIRECTOR
DEHRADUN
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI A.P. BHASKARAN
ASSISTANT DIRECTOR
CHENNAI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI S.S. MURTHY
ASSISTANT DIRECTOR
BANGALORE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI DILIP KUMAR SINGH
ASSISTANT DIRECTOR
BHOPAL
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SATISH CHANDRA SHARMA
ASSISTANT DIRECTOR
MEERUT
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BAL KRISHAN
ASSISTANT DIRECTOR
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SHASHI BHUSHAN KUMAR
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
PATNA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI ANIMESH KUMAR TRIPATHI
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
LUCKNOW
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI N. PRAKASH RAO
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G
HYDERABAD
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI RAMESH KANNAN
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G
CHENNAI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SUBASH DAS
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/WT
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SUBRATA PAL
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-II/G
KOLKATA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI Z T ANGAMI
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-II/G
KOHIMA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI PRADEEP KUMAR
ASSISTANT
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BRIJ BHUSHAN SHARMA
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G
DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI ASHOK A. SHINDE
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G
MUMBAI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI KUNJAUGUSTHY P.M.
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/MT
HQRS. NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI DEVINDER SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ITBP ACADEMY, MUSSOORIE
INDO TIBETAN BORDER POLICE

DR. MRS. S K DILLON
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (MEDICAL)
CH, CHANDIGARH
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI ANAND PAL SINGH NIMBADIA
COMMANDANT
ITBP ACADEMY, MUSSOORIE(UTTARAKHAND)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI RAJINDER SINGH
DEPUTY COMMANDANT
SHQ, AMRITSAR
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI SUBASH CHAND GUPTA
DEPUTY COMMANDANT (ENGR)
ITBP ACADEMY, MUSSOORIE(UTTARAKHAND)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI PERSINDA RAM RANA
SUBEDAR MAJOR /STENO
SHQ, AMRITSAR
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI SATE SINGH
INSPECTOR/GD
8TH BN., GAUCHAR, DISTRICT CHAMOLI
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI GANESH DUTT
INSPECTOR/GD
42 BN., KARERA (MP)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI TSERING MORUP
CONSTABLE /WC
SHQ, LADAKH, C/O 56 APO
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI HANUMANT SINGH RAWAT
GROUP COMMANDER
TRAINING CENTRE, MANESAR, GURGAON
NATIONAL SECURITY GUARD

SMT. SHIKHA GUPTA
GROUP COMMANDER
HQ CRO, PALAM, NEW DELHI
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI C.P. VIJAYANANDAN
ASSISTANT COMMANDER-1
CRO HQ, NEW DELHI
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI RAMPHAL
CTM/SK
12 SRG, MANESAR, GURGAON
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI SANJEEV KUMAR SINGHAL
INSPECTOR GENERAL
FTR HQRS, GUWAHATI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI SAMIR KARMAKAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ HQRS, GORAKHPUR (UTTAR PRADESH)
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI HARDAYAL SINGH GADAY
COMMANDANT
4TH BN. TAC HQRS, AKASHNAGAR, PO- BACHELI
DISTRICT DANTEWARA (CHHATTISHGARH)
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI DILIP PAUL
AREA ORGANISER
RANGIA KAMRUP (ASSAM)
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI JAI SINGH
DEPUTY COMMANDANT
TC SHAMSHI, DISTRICT KULLU (HIMACHAL PRADESH)
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RANU RAM
ASSISTANT COMMANDANT (MIN)
FHQ, NEW DELHI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI BHAGWATI PRASAD GAIROLA
SUB-AREA ORGANISER
SSB ACADEMY, SRINAGAR GARHWAL (UTTRAKHAND)
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI NARMUNI SINGH
PRIVATE SECRETARY
FHQRS, NEW DELHI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI JAI SINGH
HEAD CONSTABLE
6TH BN. NANPARA, DISTRICT BAHRAICH (UTTAR
PRADESH)
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI JAGDISH SINGH
ASSISTANT FIELD OFFICER (VETY)
FTR HQRS, PATNA (BIHAR).
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI PEEYUSH PANDEY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI NAVNEET KUMAR MEHTA
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI CHAMAN SINGH
SECURITY OFFICER -II (T)
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI PRADEEP SINGH SLATHIA
SECURITY OFFICER-II (MT)
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI DILIP CH. BISWAS
SUB-INSPECTOR
UMSAW, UMIAM, MEGHALAYA
NORTH EASTERN POLICE ACADEMY

SHRI BHUPINDER SINGH RANA
VICE PRINCIPAL
CDTS, CHNDIGARH,
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

DR (SMT) RITA TIWARI
STATISTICAL ASSISTANT
FHQ, NEW DELHI
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI JAGDISH LAL
STAFF CAR DRIVER
FHQ, NEW DELHI
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI CHHATTAR PAL SINGH NAGRA
ASSISTANT DIRECTOR
FHQ, NEW DELHI
DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS

SHRI VIRENDER SINGH DRALL
SUPERINTENDENT
NEW DELHI
NARCOTICS CONTROL BUREAU

SHRI HARBHAJAN SINGH
DATA PROCESSING ASSISTANT/GRADE-B
NEW DELHI
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

SHRI SATINDER PAL SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
NEW DELHI.
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

MS. ANUPAM KULSHRESHTHA
DEPUTY DIRECTOR
HYDERABAD
SVP N.P.A

SHRI S ARUL RAJ
DRILL INSTRUCTOR
HYDERABAD
SVP N.P.A

Mr. CHACKO VARUGHESE
HEAD CONSTABLE (DRIVER)
HYDERABAD
SVP N.P.A

SHRI MIRZA TAHAR BAIG
ASSISTANT COMMISSIONER OF SECURITY (CA)
BUREAU OF CIVIL AVATION, SECURITY
NEW DELHI
M/O CIVIL AVIATION

SHRI VIJAY MAHADEO KAMBLE
HEAD CONSTABLE
BUREAU OF CIVIL AVATION SECURITY,
ANDHERI EAST, MUMBAI
M/O CIVIL AVIATION

SHRI BALBIR SINGH
HEAD CONSTABLE
NEW DELHI
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY

SHRI RAM CHARAN MEENA
COMMANDANT
6TH BN., GANDHINAGAR, GUJARAT
NDRF

SHRI DESH RAJ SHARMA
ASSISTANT COMMANDANT
7TH BN., BATHINDA, PUNJAB
NDRF

SHRI DUSHYANT SINGH
CHIEF SECURITY OFFICER
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BABA BAIDYANATH MISHRA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL/PRINCIPAL
RPF/TRAINING CENTRE, MOULA-ALI, HYDERABAD
M/O RAILWAYS

SHRI RAM SWARTH PRASAD
ASSISTANT SECURITY COMMISSIONER
RPF, WESTERN RAILWAY, MUMBAI
M/O RAILWAYS

SHRI MUNISHWAR PRASAD SHARMA
INSPECTOR
IG CUM CSC/RPF OFFICE, NCR/ALLAHABAD
M/O RAILWAYS

SHRI JAGANNATH VITHAL MAHALE
ASSISTANT SUB INSPECTOR
PROSECUTION/MUMBAI CENTRAL/WESTERN RAILWAY
RPF
M/O RAILWAYS

SHRI ASHISH SEN GUPTA
INSPECTOR
RPF, POST, BORA, NEW JALPAIGURI
M/O RAILWAYS

SHRI M.F. MOHIDEEN
INSPECTOR
CHENNAI EGMORE, CHENNAI DIVISION, SOUTHERN
RAILWAY
M/O RAILWAYS

SHRI RAM PRAKASH PANDEY
DRIVER(MASTER CRAFTMAN)
RESERVE LINE, JABALPUR DIVISION
RPF
M/O RAILWAYS

SHRI INDRAMANI PRASAD DWIVEDI
HEAD CONSTABLE
SIB HQ/JABALPUR DIVISION
RPF
M/O RAILWAYS

SHRI MALLIKARJUNA
SUB INSPECTOR
RPF/BANGALORE
M/O RAILWAYS

SHRI PHAGOO SINGH
INSPECTOR
RPF/TC/N E RAILWAY, GORAKHPUR
M/O RAILWAYS

SHRI MAHENDRA SHARMA
SUB INSPECTOR/ARMOURER
10 BN, RPSF, DHANBAD, PO-DHANBAD (JHARKHAND)
M/O RAILWAYS

SHRI CHHOTE LAL
HEAD CONSTABLE
4 BN RPSF POST- BHAKTINAGAR
DISTRICT JALPAIRUGI (WEST BENGAL)
M/O RAILWAYS

SHRI V NATESAN
HEAD CONSTABLE
5TH BN RPSF, TRICHY
M/O RAILWAYS

SHRI LAXMIKANT CHOUDHRY
SUB INSPECTOR
6 BN , RPSF, DBSI DELHI
M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

—————
The 15th March 2011

No. 39-Pres/2011 – The Police Medal for Meritorious Service awarded to Shri Ved Prakash, the then Sub Inspector, Incharge Police Post Bhapu Dham, Chandigarh, Chandigarh Administration vide this Secretariat Notification No. 80-Pres/96 dated the 15th August, 1996 published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India dated Saturday, the 31st August, 1996 is hereby cancelled and the medal is forfeited under Rule 8 of the Rules governing the award of Police Medal.

BARUN MITRA
Joint Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 14th March 2011

Resolution**Subject: Constitution of Steel Consumers' Council --- regarding.**

No. 5(2)/2011-DI Vide Resolution No. SC-1(1)/86-D-III dated 31st January, 1986, the then Ministry of Steel & Mines had constituted a Steel Consumers' Council (SCC) under the chairmanship of Minister for Steel & Mines consisting of representatives of the Government, Producers and Consumers of Iron and Steel, House Builders and related industries. The SCC was re-constituted vide Resolution No. 5(3)/2009-DI dated 25th February, 2010. The functions of the SCC is to advise and assist the Central Government on matters relating to supply, availability, quality and the market trend of iron and steel.

2. The Steel Consumers' Council constituted vide notification No. 5(3)/2009-DI dated the 25th February, 2010 and subsequent notifications is dissolved with immediate effect and the Council is reconstituted as under:-

- (A)
- | | | |
|-----|--|------------------|
| (a) | Hon'ble Minister of State for Steel
(Independent Charge) | Chairman |
| (b) | Secretary, Ministry of Steel | Vice Chairman |
| (c) | Joint Secretary
(In-charge Steel Development Wing,
Ministry of Steel and
Chairman, Joint Plant Committee) | Member Secretary |

(B) The following shall be the Members of the SCC:-

- (i) One representative each from the following Ministries/Departments of Government of India:-
1. Ministry of Railways
 2. Ministry of Coal
 3. Department of Commerce
 4. Department of Industrial Policy & Promotion
 5. Development Commissioner for Small Scale Industries (DCSSI)
 6. Ministry of Power
 7. Department of Revenue
 8. Ministry of Mines;
- (ii) One official representative each from State/Union Territory Governments of the level of Secretary/Director (Industry);
- (iii) One representative each of the following Main and Major Producers of Iron and Steel:-
1. Steel Authority of India Limited,
 2. Rashtriya Ispat Nigam Limited
 3. Tata Steel Limited

4. ESSAR Steel Limited
5. Ispat Industries Limited
6. J S W Limited;

(iv) One representative each of the following Industry Associations:-

1. All Assam Small Scale Industries Association, Guwahati
2. All India Association of Industries, Mumbai
3. All India Induction Furnace Association, Delhi.
4. All India Manufacturers' Organization, Kolkata.
5. All India Metal Forging Association, Ghaziabad.
6. All India Steel Re-rollers Association, New Delhi.
7. Alloy Steel Producers' Association of India, Thane
8. Apex Chamber of Commerce & Industry (Punjab)
9. Associated Chambers of Commerce & Industry of India, New Delhi
10. Association of Indian Mini Blast Furnace, New Delhi.
11. Association of Indian Forging Industry, Pune.
12. Automotive Component Manufacturers' Association of India, Mumbai.
13. Builders Association of India, Mumbai.
14. Bureau of Indian Standards
15. Cast Iron Spun Pipe Manufacturers' Association, Kolkata.
16. Chandigarh Industrial Fasteners Association
17. Cold Rolled Steel Manufacturers' Association of India, New Delhi.
18. Confederation of Indian Industry, New Delhi
19. Council of Small Scale Industries Corporation of India, New Delhi.
20. Engineering Exports Promotion Council, New Delhi
21. Federation of Association of Small Industries of India, New Delhi.
22. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, New Delhi.
23. Federation of Industries of India, Delhi.
24. Howrah Foundry Association, Howrah.
25. Indian Chamber of Commerce
26. Indian Ferro Alloy Producers' Association, Mumbai.
27. Indian Foundry Association, Kolkata.
28. Indian Stainless Steel Development Association, Gurgaon I
29. Indian Tin Plate Manufacturers' Association, New Delhi.
30. Iron and Steel Scrap Shipbreakers Association of India, Mumbai.
31. Institute for Steel Development and Growth
32. Larsen & Toubro Limited, Chennai.
33. Merchant Chamber of Commerce
34. Metal Scrap Trading Corporation Limited, Kolkata.
35. Mumbai Bright Bar Manufacturers Association
36. National Cooperative Housing Federation, New Delhi.
37. Ship Recycling Industries Association (India)
38. Small Scale Wire Drawing Units Association
39. Society for Indian Automobiles Association
40. Sponge Iron Manufacturers' Association, New Delhi.
41. Steel Chamber of India, Mumbai.
42. Steel Furnace Association of India, New Delhi.
43. Steel Re-Rolling Mills Association of India, Kolkata.
44. Steel Wire Manufacturers' Association of India, Kolkata.
45. The Ludhiana Electroplaters Association, Ludhiana.
46. United Cycles & Parts Manufacturers Association, Ludhian

3. In addition to above, there may be non-official Members of the SCC to be nominated by the Ministry of Steel as Representatives of steel consumers from each State/Union

4. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Notification unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

U. P. SINGH
Joint Secy.

New Delhi-110107, the 15th March 2011

RESOLUTION

No.14(1)/2010-TW. In partial modification of Ministry of Steel Resolution No. 14(1)/2010-TW dated 27th Sep., 2010, Ministry of Steel, hereby makes the following amendments in the Scheme for Award of Prime Minister's Trophy for Excellence in Performance of Integrated Steel Plants referred to in sub para 2.2 of para 2 of the aforesaid Resolution, namely:-

1. In Para 4.2 and 4.4 of the Scheme, the description, 'Employees' Satisfaction Index' shall be deleted.

2. Para 5.12 of the scheme will stand deleted and the three specified parameters included therein with their respective weightage will be included under para 5.13 for assessment by the Panel of Judges during their plant visit. Consequently, total weightage of parameters under para 13 will increase from 25 to 30.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DALIP SINGH
Joint Secy.

**DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**

New Delhi-110001, the 16th March 2011

No. 1/1/2009-PD—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Council of Scientific & Industrial Research Society has been reconstituted with effect from 26th June, 2009 for a period of three years by the Government of India and shall consist of the following :—

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Hon'ble Prime Minister of India
(Dr. Manmohan Singh)
Prime Minister's Office
Room No. 148-B, South Block
New Delhi – 110 011 | President |
| 2. | Minister of Science & Technology and Earth Sciences
(Shri Pawam Kumar Bansal)
Council of Scientific & Industrial Research
Anusandhan Bhawan
2, Rafi Marg
New Delhi – 110 001 | Vice-President |
| 3. | Minister of Finance
(Shri Pranab Mukherjee)
North Block
New Delhi – 110 001 | Member |
| 4. | Minister of Commerce & Industry
(Shri Anand Sharma)
Udyog Bhawan
New Delhi 110011 | Member |
| 5. | Shri Kapil Sibal
Minister of Human Resource Development
Shastri Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi – 110 001 | Member |
| 6. | Dr. K. Kasturirangan
Member, Planning Commission
Yojana Bhavan,
Sansad Marg
New Delhi – 110 001 | Member |
| 7. | Dr. S. Banerjee
Chairman, Atomic Energy Commission
Anushakti Bhawan,
Chatrapathi Shivaji Maharaj Marg
Mumbai – 400 001 (Maharashtra) | Member |
| 8. | Dr. Ashok Jhunjhunwala
Professor, Deptt. of Electrical Engineering
ESB-331-B
Indian Institute of Technology, Madras
Chennai – 600 036 (Tamilnadu) | Member |

- | | | |
|-----|---|--------|
| 9. | Shri Om Prakash Bhatt
Chairman
State Bank of India
State Bank Bhavan
Mumbai – 400 021 (Maharashtra) | Member |
| 10. | Dr Anand G. Mahindra
Vice-Chairman & Managing Director
Mahindra & Mahindra Group
Mahindra Towers, GM Bhosle Marg
Worli
Mumbai – 400 018 | Member |
| 11. | Ms. Chanda Kochhar
Chief Executive Officer &
Managing Director
ICICI Bank Limited
9 th Floor, South Towers, ICICI Towers
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai- 400 051 (Maharashtra) | Member |
| 12. | Shri R.S. Butola
Chairman
Indian Oil Corporation Limited
Corporate Office
3079/3, JB Tito Marg
Sadiq Nagar
New Delhi – 110 049 | Member |
| 13. | Dr. Desh Bandhu Gupta
Chairman
Lupin Limited
B/4, Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (W)
Mumbai – 400 051 (Maharashtra) | Member |
| 14. | Shri Azim H. Premji
Chairman
Wipro Limited
Doddakanneli, Sarjapur Road
Bangalore – 560 035 | Member |
| 15. | Ms. Mallika Srinivasan
Director
Tractors and Farm Equipment Limited
35, Nungambakkam High Road
Nungambakkam
Chennai – 600 034 | Member |
| 16. | Prof. M.M. Sharma, FRS
Former Director
University Department of Chemical Technology
2/3, Jaswant Bagh
Behind AK Barally's
VN Purav Marg
Mumbai – 400 071 (Maharashtra) | Member |

- | | | |
|-----|--|--------|
| 17. | Prof. M. Gourie Devi
Emeritus Professor of Neurology
Flat No : 09
Doctors Apartments
Vasundhara Enclave
New Delhi – 110 096 | Member |
| 18. | Shri Mukul Joshi
Secretary
Department of Pharmaceuticals
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi- 110 001 | Member |
| 19. | Shri R.P. Singh
Secretary
Department of Industrial Policy & Promotion
Room No. 157, Udyog Bhawan
New Delhi - 110 011 | Member |
| 20. | Shri R. Chandrashekhar
Secretary (Additional charge)
Department of Information Technology
Ministry of Communication & Information Technology
Electronics Niketan
6, CGO Complex, Lodi Road
New Delhi - 110 003 | Member |
| 21. | Dr. Shailesh Nayak
Secretary
Ministry of Earth Sciences
Mahasagar Bhavan, Block No. 12
CGO Complex, Lodi Road
New Delhi- 110 003 | Member |

The following members of the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research shall be members of the CSIR Society for a period they are members of the Governing Body in accordance with Rule 3 (d) of the Rules & Regulations of CSIR:

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 22. | Prof. S.K. Brahmachari
Director General
Council of Scientific & Industrial Research
Anusandhan Bhawan
2, Rafi Marg
New Delhi – 110 001 | Ex-Officio Secretary |
| 23. | Ms. Sushma Nath
Finance Secretary
Ministry of Finance
North Block
New Delhi – 110 001 | Member |
| 24. | Dr. Girish Sahni
Director
Institute of Microbial Technology
Sector – 39A,
Chandigarh – 160 036 | Member |

- | | | |
|-----|---|--------|
| 25. | Prof. Indranil Manna
Director
Central Glass & Ceramic Research Institute
196, Raja SC Mullick Road
Kolkata – 700 032 (West Bengal) | Member |
| 26. | Ms. Anuradha Acharya
Chief Executive Officer
Ocimum Biosolutions Limited
6 th Floor, Reliance Classic Road No. 1
Banjara Hills
Hyderabad – 500 034 (Andhra Pradesh) | Member |
| 27. | Shri B. P. Rao
Chairman & Managing Director
Bharat Heavy Electricals Limited
“BHEL House”
Siri Fort
New Delhi – 110 049 | Member |
| 28. | Prof. M. Vijayan
Honorary Professor / Distinguished Biotechnologist
Molecular Biophysics Unit
Indian Institute of Science
Bangaluru – 560 012 (Karnataka) | Member |
| 29. | Shri H.M. Nerurkar
Managing Director
Tata Steel Limited
Jamshedpur – 831 001(Jharkhand) | Member |
| 30. | Dr. Amit Mitra
Secretary General
Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
Federation House
Tansen Marg
New Delhi – 110 001 | Member |
| 31. | Dr. T. Ramasami
Secretary
Department of Science & Technology
Technology Bhawan
New Mehrauli Road
New Delhi - 110 016 | Member |
| 32. | Dr. K. Radhakrishnan
Chairman ISRO &
Secretary, Department of Space
Antariksh Bhavan, New BEL Road
Bangaluru – 560 094 (Karnataka) | Member |

K. JAYAKUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 17th March 2011

RESOLUTION

No. K-11033/19/2006-PURA/NFRD—

The National Fund for Rural Development (NFRD) was set up in 1984 to mobilize funds from individuals, corporate and non-corporate bodies for undertaking rural development activities. The accruals to the Fund were to be utilized for implementing projects in the field of rural development. Beyond April, 2004 no contribution to the Fund was received. Since, the contribution to the NFRD was too small to get tangible results, the Government has decided to wind up the NFRD. Accordingly, NFRD has been wound up. The funds available under NFRD has been transferred to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART), an autonomous body under the Ministry of Rural Development, for taking up well identified projects fitting into the basic objectives of NFRD over a period of 2 years.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries / Departments of the Government of India and all State Government / Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. RUKMANI
Under Secy.